



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2011 (कार्तिक 14, 1933)  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2011 (KARTIKA 14, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	1221	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1111	
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	15	
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	2035	
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*	
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*	
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	3575	
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	*	
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*	
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	5865	
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .....	949	
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .....	*	

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

Page No.	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....
1221	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....
1111	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....
15	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....
2035	3575
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....
*	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....
*	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....
*	5865
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....
*	949
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....
	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 15 अगस्त 2011

सं. 113-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. जी/5004672 राइफलमैन अनिरुद्ध यादव, 3 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10 फरवरी, 2010)

10 फरवरी, 2010 को जब अपने ही स्रोतों से आतंकवादी के छुपने के एक स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर असम के उदालगिरि जिले में असम-अरुणाचल सीमा पर स्थित जंगल में एक खोजी दल भेजा गया। छुपने की जगह के पास पहुंचते ही राइफलमैन अनिरुद्ध यादव स्वयं इस जगह की छानबीन करने के लिए आगे आए ताकि आतंकवादियों के बारे में और अधिक खुफिया सूचना एकत्र की जा सके और कमांडर आतंकवादी के छुपने की जगह पर सोच-समझ कर हमला किया जा सके। पार्टी ज्यों ही आगे बढ़ी, भारी गोलीबारी की चपेट में आ गई। राइफलमैन अनिरुद्ध यादव तत्क्षण बुद्धि और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए गोलाबारी करने वाले आतंकवादी की ओर तेजी से गए। इस आकस्मिक कार्रवाई से आतंकवादी पूरी तरह भौचक्का रह गया और उसके द्वारा कोई जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही राइफलमैन अनिरुद्ध यादव ने उसे मार गिराया। बिना रुके राइफलमैन अनिरुद्ध यादव घनी झाड़ियों की आड़ में दूसरे आतंकवादी की ओर तेजी से आगे बढ़े और गुथमगुथा की लड़ाई में उसे भी निष्क्रिय कर दिया।

राइफलमैन अनिरुद्ध यादव ने हथियारों से लैस दो आतंकवादियों का सफाया करने में व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उच्च कोटि की पेशेवर क्षमता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

2. आईसी-67860 मेजर एस कार्तिक राजा, तोपखाना रेजिमेंट/21 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 14 मई, 2010)

मणिपुर के थाउबल जिले के एक गांव के सामान्य क्षेत्र में 8-10 सशस्त्र आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना प्राप्त होने पर मेजर एस कार्तिक राजा द्वारा सुनियोजित योजना के अनुसार 13/14 मई, 2010 की रात में एक ऑपरेशन शुरू किया गया। 14 मई, 2010 को लगभग 0025 बजे एक दल अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आ गया। मेजर एस कार्तिक राजा ने आक्रामकता का परिचय देते हुए तेजी से अपनी टुकड़ी को संपर्क स्थल पर ले गए। उस जगह पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि 8-10 संदेहास्पद लोग भाग रहे हैं जिन्होंने चुनौती देने पर अफसर और उसकी टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अफसर ने फौलादी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जवाबी गोलीबारी की और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, उन्होंने और उनके साथी ने विकट पहाड़ी के जंगली भूक्षेत्र से होकर भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया। वे पास की ही एक पहाड़ी पर से लुढ़क गए और उन आतंकवादियों को घेर लिया जो एक भारी विशाल पत्थर के पीछे छिपे हुए थे और हथगोले दाग रहे थे। अफसर ने युक्तिसंगत स्थिति एवं कुशलता से अकेले ही दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया। अफसर ने गोलियों की बौछार के बीच एक अन्य छिपे हुए आतंकवादी को भी घेर लिया और नजदीक से उसे गोली मार दी।

मेजर एस कार्तिक राजा ने इस तरह के अद्वितीय ऑपरेशन में भारतीय सेना की उच्च परंपराओं का निर्वाह करते हुए उत्कृष्ट वीरता, बुद्धिमत्ता और योजना का प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने स्वयं तीन आतंकवादियों का सफाया कर दिया।

3. श्री आशीष कुमार तिवारी , सिपाही (सामान्य ड्यूटी) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 जुलाई, 2010)

25 जुलाई, 2010 को 1700 बजे, उप पुलिस अधीक्षक को यह सूचना प्राप्त हुई कि माओवादी कमांडर सिधू सोरेन समेत 40-50 सशस्त्र सीपीआई (माओवादी) ग्वालतोड़, पुलिस स्टेशन, जिला-पश्चिमी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत केमा के घने जंगलों में डेरा डाले हुए हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस यूनिटों पर हमला करने के लिए एक गुप्त बैठक की थी ताकि वे पुलिस वालों को जान से मारने के बाद पुलिस बलों से हथियार और गोलाबारूद लूट सकें। उस सूचना के आधार पर एक विशेष ऑपरेशन दल का गठन किया गया और 25/26 जुलाई, 2010 को लगभग 3.30 बजे एक ऑपरेशन शुरू किया गया।

जब विशेष ऑपरेशन दल लक्षित स्थान के पास पहुंचा माओवादी घने जंगल के भीतर पेड़ों की आड़ लेकर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे और अनेक आईईडी विस्फोट करने लगे। विशेष ऑपरेशन दल के अफसरों ने माओवादियों का मुकाबला करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी।

श्री तिवारी ने अपने दल के कमांडर के साथ बारूदी सुरंग क्षेत्र का युक्तिसंगत ढंग से सतर्कता बरतने के बाद बड़े साहसपूर्ण ढंग से काफी करीब से हमला किया और दुर्दांत स्व्वाड कमांडर सिधू सोरेन के हमलों को निष्क्रिय कर दिया और ऐसा करते समय वे गोलियों से घायल हो गए। यद्यपि उन्हें घातक चोटें लगी थीं तथापि उन्होंने अपने साथी कमांडोज को गोलीबारी करने में सहायता प्रदान की जिससे वे उनके छुपने की जगह तक पहुंच सकें। अस्पताल ले जाते समय वे अपनी चोटों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

श्री आशीष कुमार तिवारी ने भारी अंधाधुंध गोलाबारी और आईईडी विस्फोटों के होते हुए भी उनकी बड़ी संख्या के विरुद्ध उत्कृष्ट वीरता और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया जिससे ऑपरेशन उत्कृष्ट ढंग से सफल हो सका और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

4. लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस दरबशाह मोगल (04730-ज़ेड) (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 30 अगस्त, 2010)

लेफ्टिनेंट कमांडर फिरदौस दरबशाह मोगल ने 26 मई, 2010 को पनडुब्बी के एकजीक्यूटिव अफसर की ड्यूटी संभाली। 29 अगस्त, 2010 को जब पनडुब्बी तैनाती के दौरान रास्ते में थी तो स्टारबोर्ड के बाहरी एग्जॉस्ट फ्लैप में एक खराबी देखी गई। पनडुब्बी के भीतर से उस खराबी को दूर करने के सारे प्रयास नाकाम रहे।

30 अगस्त, 2010 को 0655 बजे पनडुब्बी के इंजीनियर अफसर के नेतृत्व में 3 नौसैनिकों की टीम को खराबी दूर करने के लिए केसिंग पर भेजा गया। जब टीम पिछली केसिंग पर फ्लैप की ओर जा रही थी उसी समय एक तेज लहर इंजीनियर अफसर और दो नौसैनिकों को बहा ले गई। तीसरा

नौसैनिक गंभीर रूप से घायल होकर स्टॉर्मबेल्ट के सहारे नीचे लटक रहा था। उसकी टांगे बुरी तरह जखमी थीं। ब्रिज पर तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर एफ डी मोगल ने हालात की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। चूंकि पिछली केसिंग से लटक रहे नौसैनिक को तुरंत वहां से निकालना जरूरी था, वे स्वयं ही उस घायल नौसैनिक को बचाने के लिए आगे बढ़े।

20 मिनट की भीषण जद्दोजहद के बाद अफसर फिन पर लगी सीढ़ी पर पहुंच गया जिस पर चढ़ कर ही घायल नौसैनिक को ब्रिज पर भेजा जा सकता था। पहले घायल नौसैनिक के मिलने से समुद्र में गिरे कार्मिकों में आशा की किरण जागी और उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने एकजीक्यूटिव अफसर की ओर देखा। वे समुद्र में गिरे कार्मिकों को पनडुब्बी के निकट खींचने में कामयाब हो गए।

सभी के जहाज पर चढ़ जाने के बाद, अफसर ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वे ऊपर पहुंचने वाले थे कि एक विनाशकारी लहर ने उन्हें फिर समुद्र में गिरा दिया। संभवतः इस लहर से उनके सिर पर चोट लगी थी। स्थिति को भांपते हुए पनडुब्बी के एएसडब्ल्यूओ उनके बचाव के लिए निकले। उसी समय मुम्बई से एसएआर हेलिकॉप्टर की मदद भी मांगी गई। लेफ्टिनेंट कमांडर एफ डी मोगल को हेलिकॉप्टर की सहायता से आई एनएचएस अश्विनी ले जाया गया, किंतु अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

लेफ्टिनेंट कमांडर एफ डी मोगल ने छह नौसैनिकों की जिंदगियां बचा कर मृत्यु के सामने अतुलनीय निर्भीकता दिखाई और इस महासंकट की घड़ी में असाधारण साहस और प्रेरणा शक्ति का परिचय दिया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

#### 5. 4190732 लांस नायक चन्दन सिंह, 17वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 सितम्बर, 2010)

03 सितम्बर, 2010 को 2300 बजे पंत की डिफेंडेड लोकैलिटी (केडीएल) द्वारा जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ के प्रयास का पता चला। आतंकवादियों पर गोलीबारी से हमला करने के लिए चौकी में मौजूद हथियारों को तत्काल एकत्र किया गया। लांस नायक चन्दन सिंह आटोमेटिक ग्रेनेड लांचर (एजीएल) चला रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने हथियार को इस तरह से लगाया ताकि घुसपैठ कर रहे दल पर कारगर गोलीबारी की जा सके। आतंकवादी ज्योंही कार्रवाई क्षेत्र के पास पहुंचे उन पर भारी गोलीबारी की जाने लगी और उनमें से एक को तत्काल मार गिराया गया जबकि बाकी इधर-उधर भागने लगे। स्थिति का फायदा उठा कर लांस नायक चन्दन सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और अपनी जान को गंभीर खतरे में डाल कर भागते हुए आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी और दो और आतंकवादियों को मार गिराया।

लांस नायक चन्दन सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्कृष्ट बहादुरी, असाधारण साहस और अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया।

#### 6. 13619947 हवलदार पंचू गोपाल रोय, पैराच्यूट रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 सितम्बर, 2010)

जम्मू-कश्मीर के बांदीपुर जिले के एक गांव के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर मिलने पर हवलदार पंचू गोपाल रोय के नेतृत्व में छह लोगों का एक स्ववाड निगरानी संबंधी अभियान में लगाया गया।

13 सितम्बर, 2010 को 0840 बजे संदेहास्पद आवाजाही होते देखी गई। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादी गोलीबारी करते हुए भागे। हवलदार पंचू गोपाल रोय ने स्वयं को दुरुस्त किया और आतंकवादियों का पीछा करने लगे। बगल से हटकर आतंकवादी एक गुफा में घुस गए और गोलीबारी करने लगे। भारी गोलीबारी के बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए हवलदार रोय गुफा की चोटी पर चढ़ गए और काफी नजदीक से पहले आतंकवादी का सफाया कर दिया। बाकी दो आतंकवादी भाग निकले। हवलदार पंचू गोपाल रोय साहस दिखाते हुए युक्तिसंगत ढंग से नीचे कूद पड़े, दूसरे आतंकवादी का पीछा करने लगे जो एक भारी पत्थर के पीछे छिपा था और उसे नजदीक से मार गिराया।

हवलदार पंचू गोपाल रोय ने आतंकवादियों से लड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच उत्कृष्ट वीरता, दृढ़ निश्चय और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया।

7. आईसी-69025 कैप्टन सौरभ धमीजा, तीसरी बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 सितम्बर, 2010)

16 सितम्बर, 2010 को कैप्टन सौरभ धमीजा जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के सामान्य क्षेत्र में खोजो और नष्ट करो मिशन पर स्काउट सं. 02 के रूप में अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए तीन सशस्त्र आतंकवादियों के आमने-सामने आ गए। तत्क्षण बुद्धि का परिचय देते हुए अफसर ने आत्मसमर्पण करने के लिए आतंकवादियों को ललकारा। गोलीबारी के दौरान उन्होंने हिप पोजीशन से गोली चलाकर एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। दूसरे आतंकवादी चट्टान के पीछे छिप गए। उन्हें बगल से बाहर निकालने की कोशिश के दौरान अफसर पास की पहाड़ी से की जा रही स्वचालित भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। गोलीबारी से बिल्कुल भी नहीं घबराते हुए उन्होंने अपने स्क्वाड को फिर से तैनात कर दिया। पुनः तैनाती के बाद अपनी टुकड़ी की नजदीकी एवं समीपता को देखकर कैप्टन सौरभ ने महसूस किया कि आतंकवादी को घेरने में उनकी अपनी ही सैन्य टुकड़ी घायल हो सकती है, वह सरक कर चट्टान के पास गए। साहस दिखाते हुए अफसर एक आतंकवादी से गुत्थम-गुत्था हो गए तथा उसका हथियार छीनकर उसका सफाया कर दिया। तीसरे आतंकवादी ने संपर्क तोड़ने तथा भागने की कोशिश की। अफसर ने मार डाले गए आतंकवादी के हथियार का इस्तेमाल करते हुए भाग रहे आतंकवादी को घायल कर दिया जो बाद में निष्क्रिय हो गया।

कैप्टन सौरभ धमीजा ने आतंकवादियों से लड़ते समय कर्तव्य भाव से ऊपर उठकर साहस, दृढ़ निश्चय और वीरता का प्रदर्शन किया।

8. 13620144 नायक राजेश कुमार, तीसरी बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 सितम्बर, 2010)

16 सितम्बर, 2010 को नायक राजेश कुमार उस स्क्वाड के कमांडर थे जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के सामान्य क्षेत्र में खोजो और नष्ट करो मिशन पर तैनात था।

लगभग 0745 बजे उनके टुकड़ी कमांडर का आतंकवादियों से संपर्क तब हुआ जब उन्होंने देखा कि दो आतंकवादी एक पास की पहाड़ी से उनकी ही टुकड़ी पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं।

अपने साथियों पर गंभीर खतरा महसूस करते हुए नायक राजेश कुमार ने पहल की और अपने स्वचाड को फिर से तैनात किया और आतंकवादियों पर भारी जवाबी आटोमेटिक गोलाबारी करने लगे। आतंकवादी जो कि आड में थे, ने सम्पर्क में आने वाली टुकडियों पर गोलीबारी करना जारी रखा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए नायक राजेश कुमार आतंकवादियों पर टूट पड़े और उन्होंने हथगोला फेंकते हुए, अपनी हिप पोझीशन से गोलियां दागनी शुरू कर दी। इससे आतंकवादी सकते में आ गए और उन्होंने अकेले ही बड़े नजदीक से दो दुर्दात आतंकवादियों को मार गिराया।

नायक राजेश कुमार ने आतंकवादियों से लड़ने में उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

9. एसएस-41822 मेजर दुष्यंत सिंह शेखावत, 8वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 01 अक्टूबर, 2010)

आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर मेजर दुष्यंत सिंह शेखावत ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक गांव में खोजी दल का नेतृत्व किया। 01 अक्टूबर, 2010 को 1030 बजे, खोजी दल आतंकवादियों की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। मेजर शेखावत दृढ़ साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी के निकट गए और गुत्थमगुत्था की लड़ाई में उसका सफाया कर दिया। इस गोलीबारी में एक अधिकारी घायल हो गया। मेजर शेखावत और उनके साथियों ने भारी गोलीबारी से विचलित हुए बिना अफसर को वहां से निकाल लिया। मेजर शेखावत ने दूसरे आतंकवादी को अपने साथियों द्वारा की जा रही सटीक गोलीबारी की आड लेकर घेर लिया और भयंकर गुत्थमगुत्था की लड़ाई के बीच जो 20 मिनट तक चली उसका सफाया कर दिया।

02 अक्टूबर, 2010 को 1000 बजे गुफा में छिपे आतंकवादी के साथ दोबारा से भारी गोलाबारी होने लगी। मेजर शेखावत घुटने के बल रेंगकर गए और एक दूसरे साथी द्वारा की जा रही सटीक गोलीबारी की आड लेकर अपने साथी के साथ गुफा की चोटी पर पहुंच गए। गुफा के अंदर मेजर शेखावत ने हथगोला डाल दिया और उसके साथी ने सामने की ओर से कूद कर आतंकवादी को गोली मार दी।

मेजर दुष्यंत सिंह शेखावत ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उत्कृष्ट बहादुरी, अनुकरणीय साहस और प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

10. आईसी-69766 कैप्टन तपस कुमार डेका, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 अक्टूबर, 2010)

कैप्टन तपस कुमार डेका ने असम-अरुणाचल सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्ब सियांग जिले में बंधक बचाव दल की अगुवाई की।

एक आतंकवादी संगठन ने ऊपरी असम में सुरक्षा बलों पर आक्रमण करके, बेकसूर नागरिकों की हत्या तथा अपहरण करके भारी फिरौती की मांग करके आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि कर दी थी। 24 सितंबर, 2010 को धीमाजी जिले से एक व्यापारी का अपहरण किया गया तथा 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई।

प्राप्त सूचना के आधार पर कैप्टन तपस ने अपने दल बल के साथ बंधक को छुड़ाने के लिए निगरानी की और धावा बोला। 03 अक्टूबर, 2010 को पांच दिनों की लगातार निगरानी के बाद उन्होंने बंधक तथा असम-अरुणाचल सीमा के जंगल में 12 आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया। अत्यंत सावधानी के साथ 500 मीटर की दूरी तक रेंग कर आश्चर्यजनक तरीके तथा पूरे दल के साथ वे झाड़-झंखाड़ से होते हुए कैप से 5-7 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। अपने दल के सदस्य को उचित रणनीतिक स्थिति में नियुक्त करके कैप्टन तपस रेंगते हुए संतरी की तरफ आगे बढ़े जिसने बंधक को पकड़ रखा था। बिल्कुल छुप कर, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हुए, बहुत नजदीक से संतरी को मार गिराया। अचानक, वे बाकी आतंकियों की तरफ से की जा रही भारी गोलीबारी के बीच घिर गए। शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए कैप्टन तपस ने बंधक को कवर प्रदान किया, उसे बचाने के लिए जवाबी गोलीबारी की तथा अपने दल के सदस्यों को जवाबी हमला करने का निदेश दिया। उनके निर्देशन में, दल के सदस्यों ने जल्दी से तीन और आतंकियों को मार गिराया।

कैप्टन तपस कुमार डेका ने बंधक व्यापारी को बचाने में गोलीबारी के बीच अदम्य साहस व दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया।

11. 13626415 पैराट्रूपर पदम बहादुर पौदेल, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 अक्टूबर, 2010)

पैराट्रूपर पदम बहादुर पौदेल उस दल के सदस्य थे जिन्होंने बंधक को छुड़ाने के लिए निगरानी की और धावा अभियान चलाया। 03 अक्टूबर, 2010 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में बंधक को छुड़ाने के अभियान के दौरान, इस दल के मुखिया पैराट्रूपर पदम बहादुर द्वारा प्रदान किए गए कवर के अंतर्गत उस संतरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसने बंधक को पकड़ रखा था। जैसे ही अधिकारी ने संतरी को मार गिराया तथा बंधक को सुरक्षित किया वह दो आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलाबारी के बीच घिर गए जो संतरी के मोर्चे के नजदीक थे। पैराट्रूपर पदम तत्काल ही खुले मैदान में आ गए तथा बगल से ही आतंकवादियों को उलझाए रखा। उनके वीरतापूर्ण कार्य ने आतंकवादियों को आश्चर्यचकित कर दिया तथा उनका ध्यान अधिकारी तथा बंधक से हटाया। आतंकवादियों की उलझन का फायदा उठाते हुए, अपनी उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने तत्काल ही दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।

पैराट्रूपर पदम बहादुर पौदेल ने अपने साथियों को बचाने के लिए अकेले दो आतंकवादियों को मार गिराने में आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में उत्कृष्ट वीरता, विषम परिस्थितियों के विरुद्ध तत्क्षण बुद्धि का प्रदर्शन किया।

12. आईसी-72578 लेफ्टिनेंट अभिनव त्रिपाठी, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 अक्टूबर, 2010)

लेफ्टिनेंट अभिनव त्रिपाठी उस घात दल के प्रभारी थे जो असम के कोकराझाड़ जिले के संदिग्ध क्षेत्रों में घात लगाने के खोजी मिशन पर था। 15 अक्टूबर, 2010 को उन्होंने तत्काल स्थिति का मूल्यांकन करके अपनी पार्टी को निर्देश दिए तथा घात के लिए मोर्चा संभाला। लगभग 2230 बजे दो लोगों ने मोटर साइकिल पर उस स्थल पर सम्पर्क किया। जब उन्हें रोक कर चुनौती दी गई तब वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूरे आवेग से मोटर साइकिल को तेज भगाया और रोकने की चुनौती देने वाली दिशा में गोलियां बरसानी भी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट अभिनव त्रिपाठी ने तत्काल गोलियों का जवाब दिया, जिससे चालक बुरी तरह घायल हो गया तथा मोटर साइकिल नीचे गिर गई।



पीछे बैठा हुआ आदमी तेजी से दौड़कर बांस की झाड़ियों की तरफ सम्पर्क तोड़ने के लिए चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ रास्ते से भागा। विपरीत गोलीबारी में भी बिना धैर्य खोए, लेफ्टिनेंट अभिनव त्रिपाठी ने भाग रहे आतंकवादी पर हमला करके उसे उलझाए रखा तथा नजदीक से सामना करके अपने अस्त्र से उसे मार गिराया।

लेफ्टिनेंट अभिनव त्रिपाठी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उच्च कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया।

13. आईसी-66865 मेजर अभिषेक चक्रवर्ती, सेना वायु रक्षा/23 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 08 फरवरी, 2011)

मेजर अभिषेक चक्रवर्ती ने जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में एक अभियान को योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया तथा व्यक्तिगत रूप से अगुवाई की। 06 सैनिकों के अपने दल के साथ अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की और 08 फरवरी, 2011 को 0030 बजे क्षेत्र की घेराबंदी की। अधिकारी अपने साथियों के साथ छिपे हुए स्थान की ओर बढ़ा, जहां से आतंकवादियों द्वारा उन पर गोलीबारी की जा रही थी। निडर होकर अधिकारी ने जवाबी कार्रवाई की तथा एक आतंकवादी को अत्यंत नजदीक से मार गिराया। दूसरे आतंकवादी को उनके दल ने मार गिराया। सात घंटों की गोलीबारी के पश्चात अधिकारी ने छुपने के स्थान को निकट मोलोटोव कॉकटेल का प्रयोग करते हुए इ ाड़ी में आग लगा दी। उसके बाद तीन अन्य रैंक के एक दल की स्वयं अगुवाई करके छुपने के स्थान की छत पर ग्रेनेड दागा तथा रैमर का प्रयोग करके अपनी ए.के.47 से गोली दाग कर तीसरे आतंकवादी को मार गिराया।

मेजर अभिषेक चक्रवर्ती ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अति सावधानीपूर्वक योजना तथा त्रुटिविहीन प्रदर्शन करके उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

14. 15347880 सैपर अमरजीत सिंह, इंजीनियर्स कोर/42 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05 अप्रैल, 2011)

05 अप्रैल, 2011 को सैपर अमरजीत सिंह जम्मू व कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव के उस खोजी दल का हिस्सा थे जो एक संदिग्ध घर में पनाह लिए हुए आतंकवादी की खोज में था। छिपे हुए आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। टीम कमांडर ने उसे खोज निकाला तथा अपने दल के सदस्यों को आतंकवादी को समाप्त करने का आदेश दिया। सैपर अमरजीत सिंह ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया तथा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर, आतंकवादी को प्रभावपूर्ण गोलीबारी में उलझाकर दल के सदस्यों को सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए सुविधा प्रदान की। इस गोलीबारी में उन्होंने आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उसे बिल्कुल नजदीक से उलझाए रखकर अपने दल के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की। इस प्रक्रिया में उनके चेहरे पर गोलियों से गंभीर घाव लगे जिसके कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए।

सैपर अमरजीत सिंह ने आतंकवादी की गोलीबारी में बिना झिझक कर्तव्यपरायणता तथा अदम्य साहस का परिचय दिया तथा राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 114-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. आईसी-63389 मेजर प्रनय पद्माकर पवार, सेमे, चौथी बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
2. आईसी-63398 मेजर राज अभिनव, सेमे, राजपूताना राइफल/21 असम राइफल
3. आईसी-68881 कैप्टन पवन कुमार सचान, सेमे, सिगनल कोर/8 असम राइफल

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 115-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. एमआर-06053 लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव कुमार कक्कड़, सेना चिकित्सा कोर/भारतीय दूतावास, काबुल
2. आईसी-58605 मेजर धीरज कोतवाल, 10वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
3. आईसी-58790 मेजर नीरज पन्त, डोगरा रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-58929 मेजर गौरव कंवल, 17वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
5. आईसी-60552 मेजर मयंक फरवाह, ब्रिगेड ऑफ द गाडर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-60568 मेजर एस सी मुरागुंडी, इंजीनियर्स कोर/44 राष्ट्रीय राइफल
7. आईसी-62530 मेजर राकेश्वर जसवाल, सेना सेवा कोर/16 राष्ट्रीय राइफल
8. आईसी-62687 मेजर गुरजिन्दर सिंह गुजराल, ब्रिगेड ऑफ द गाडर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
9. आईसी-62740 मेजर सिद्धार्थ सिंह नाथावत, कवचित कोर/6 असम राइफल
10. आईसी-63013 मेजर अतुल गर्जे, तोपखाना रेजिमेंट/669 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ) (मरणोपरांत)
11. आईसी-63861 मेजर वरून विजय गिध, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
12. आईसी-63943 मेजर दीपक कुमार, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
13. आईसी-64115 मेजर सुजीत कुमार कृष्णन, मद्रास रेजिमेंट/38 राष्ट्रीय राइफल
14. आईसी-64118 मेजर राजीव भंडारी, महार रेजिमेंट/3 असम राइफल
15. आईसी-64201 मेजर सुशील कुमार महापात्रो, सेना वायु रक्षा/38 राष्ट्रीय राइफल
16. आईसी-64530 मेजर भानु चन्दर, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/669 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ) (मरणोपरांत)

17. आईसी-65078 मेजर अनुभव गैरोला, कवचित कोर/24 राष्ट्रीय राइफल
18. आईसी-65151 मेजर प्रवीण कुमार, 1/5 गोरखा राइफल (सीमांत बल)
19. आईसी-65356 मेजर परब अमित आनंद, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
20. आईसी-65439 मेजर पुनीत शर्मा, सेना सेवा कोर/1 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-65459 मेजर विक्रमजीत सिंह विर्क, गढ़वाल राइफल/15 असम राइफल
22. आईसी-65920 मेजर अमनदीप सिंह औलख, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
23. आईसी-66647 मेजर सुनील कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/6 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-67215 मेजर सौरभ सुयाल, कवचित कोर/22 राष्ट्रीय राइफल
25. आईसी-67493 मेजर मनोज डोबरियाल, 8वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
26. आईसी-68501 मेजर अमन अहलुवालिया, 12वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
27. एमआर07284 मेजर सुमित अरोरा, सेना चिकित्सा कोर/भारतीय दूतावास, काबुल
28. एमआर-07287 मेजर शिबाषिश मेटिया, सेना चिकित्सा कोर/भारतीय दूतावास, काबुल
29. एसएस-41791 मेजर निखिल कुमार सिंह, इंजीनियर्स कोर/24 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-68748 कैप्टन अमन मेहता, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
31. आईसी-69437 कैप्टन मुकुल नेगी, सिगनल कोर/26 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-69887 कैप्टन विपिन, 10वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट
33. एसएस-41959 कैप्टन उपमन्यू सिंह, कवचित कोर/22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
34. एसएस-42411 कैप्टन बलदेव सिंह, सिगनल कोर/24 राष्ट्रीय राइफल
35. आईसी-71284 लेफ्टिनेंट मन्दीप सिंह नेगी, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
36. आईसी-71803 लेफ्टिनेंट प्रदिप सिंह, तोपखाना रेजिमेंट/315 फील्ड रेजिमेंट
37. आईसी-71809 लेफ्टिनेंट विनय फोगट सिंह, सेना आयुध कोर/15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट

38. आईसी-71999 लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह, आसूचना कोर/ 5/1 गोरखा राइफल
39. आईसी-72031 लेफ्टिनेंट प्रशान्त मिश्रा, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
40. एसएल-05024 लेफ्टिनेंट रति कान्त महापात्रा, सामान्य सेवा/9वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फैंट्री
41. जेसी-412999 सूबेदार अजित कुमार, 6वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट
42. जेसी-439728 सूबेदार रवि कुमार डी, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
43. जेसी-489414 सूबेदार श्याम सुंदर, 11वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट
44. जेसी-489436 सूबेदार विजेन्द्र सिंह, 11वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट
45. जेसी-508373 सूबेदार लभ सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री/2 राष्ट्रीय राइफल
46. जेसी-540392 सूबेदार पदम सिंह कुँवर, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
47. जेसी-440083 नायब सूबेदार गोपालननायर राजेश, तीसरी बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
48. जेसी-499812 नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह, सिख रेजिमेंट/16 राष्ट्रीय राइफल
49. जेसी-634850 नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार लिम्बू, 6/11 गोरखा राइफल
50. जी/2600670 नायब सूबेदार रवीन्द्रन एस, 26 असम राइफल
51. जी/38209 हवलदार ललित सिंह, 3 असम राइफल
52. 2596271 हवलदार थम्पान एस, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
53. 3186606 हवलदार सुरेन्द्र सिंह, 11वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट
54. 3991154 हवलदार प्रकाश चन्द, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
55. 4188653 हवलदार राम कुमार सिंह गौतम, 15वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
56. 4273348 हवलदार रथवा राजेश भाई जइमाल सिन्ह भाई, 10वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट
57. 5453199 हवलदार जंग बहादुर थापा, 1/5 गोरखा राइफल (सीमांत बल) (मरणोपरांत)
58. 5847925 हवलदार विजय सिंह छेत्री, 2/9 गोरखा राइफल/32 राष्ट्रीय राइफल
59. 14702710 हवलदार ए सनि, पहली बटालियन द नागा रेजिमेंट

60. 2599907 लांस हवलदार लावा के बी, 19वीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट
61. 13621014 लांस हवलदार अर्जनजीत सिंह, पैराच्यूट रेजिमेंट/21 राष्ट्रीय राइफल
62. 13759282 लांस हवलदार वाली मोहम्मद खान, जम्मू एवं कश्मीर राइफल/52 राष्ट्रीय राइफल
63. 15483477 एक्टिंग लांस दफेदार ब्रहमभट नितेंद्रा कुमार, कवचित कोर/22 राष्ट्रीय राइफल
64. 2488408 नायक बलराज सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
65. 2795861 नायक तानाजी सिदगोंडा पुजारी, 5वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
66. 2995958 नायक देवेन्द्र सिंह, राजपूत रेजिमेंट/23 राष्ट्रीय राइफल
67. 2997706 नायक धारा सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
68. 3995590 नायक वरिन्दर सिंह, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
69. 9421441 नायक कमल बहादुर थापा, 21वीं बटालियन द पैराच्यूट रेजिमेंट(विशेष बल)
70. 12944378 नायक तालिब हुसैन, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/26 राष्ट्रीय राइफल
71. 2490840 लांस नायक पचितर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/37 राष्ट्रीय राइफल
72. 2692591 लांस नायक मनोज, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
73. 3000577 लांस नायक पर्वत सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
74. 3193426 लांस नायक विजय सिंह, 18वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट
75. 3994900 लांस नायक रघबीर सिंह, 8वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
76. 3998520 लांस नायक जीवन सिंह, 7वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
77. 4077141 लांस नायक राम स्वरूप, जम्मू एंड कश्मीर राइफल/31 राष्ट्रीय राइफल
78. 4276755 लांस नायक संजय लकड़ा, 10वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट
79. 9099203 लांस नायक मोहम्मद लतीफ, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/31 राष्ट्रीय राइफल
80. 13762268 लांस नायक संजय कुमार, जम्मू एवं कश्मीर राइफल/52 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
81. 2498052 सिपाही सुरिंद्र शर्मा, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल

82. 2498435 सिपाही अजय सिंह सैनी, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
83. 2801338 सिपाही रामु बावकर, 5वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
84. 2805608 सिपाही राजुरकर मनोज शामरावजी, 5वीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फैंट्री
85. 3004731 सिपाही बलराम, राजपूत रेजिमेंट/23 राष्ट्रीय राइफल
86. 3004914 सिपाही फूल सिंह गुर्जर, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
87. 3005791 सिपाही संजय कुमार, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
88. 3006034 सिपाही नरेंदर कुमार, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
89. 3006538 सिपाही विकास कुमार, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
90. 4009463 सिपाही काकू कुमार, 15वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट
91. 4192013 सिपाही भूपाल सिंह रावत, 17वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट
92. 4195129 सिपाही तारा सिंह, 17वीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट (मरणोपरांत)
93. 4373419 सिपाही लालहमाचुआना, असम रेजिमेंट/42 राष्ट्रीय राइफल
94. 4575215 सिपाही नारद नाथ, 8वीं बटालियन द महार रेजिमेंट
95. 4575748 सिपाही सोहनवीर सिंह, महार रेजिमेंट/1 राष्ट्रीय राइफल
96. 12944831 सिपाही सुरेश कुमार, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
97. 12994412 सिपाही लानु अकुम, 164 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) नागा
98. 13014507 सिपाही निकुल खैरखटरी, 166 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) असम
99. 4087340 राइफलमैन प्रदीप सयाल, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
100. 4088014 राइफलमैन रमेश सिंह गुसाईं, 10वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल.
101. 9098076 राइफलमैन गुलाम मर्तजा कलगण, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/47 राष्ट्रीय राइफल
102. 13771585 राइफलमैन गुरदीप सिंह, जम्मू एवं कश्मीर राइफल/52 राष्ट्रीय राइफल

103. जी/38616 राइफलमैन दिगंता प्यांग, 3 असम राइफल
104. जी/124849 राइफलमैन लिविंगस्टोन वेजाह, 12 असम राइफल
105. जी/2103638 राइफलमैन राजिन्द्र सिंह, 21 असम राइफल
106. जी/5003709 राइफलमैन ईलू जिलिंग, 26 असम राइफल
107. जी/5007404 राइफलमैन एस अरेन्ना कॉम, 28 असम राइफल
108. जी/5010049 राइफलमैन ताखू वांगपन, 3 असम राइफल
109. 15618202 गाडर्समैन एच बिरामनी सिंघा, ब्रिगेड ऑफ द गाडर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
110. 15619471 गाडर्समैन सुरेन्दर कुमार, ब्रिगेड ऑफ द गाडर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
111. 15621117 गाडर्समैन मनोज कुमार, ब्रिगेड ऑफ द गाडर्स/21 राष्ट्रीय राइफल
112. 15483484 सवार उमर फारूक खान, कवचित कोर/24 राष्ट्रीय राइफल
113. 15492524 सवार पटेल लालजी भाई, कवचित कोर/60 राष्ट्रीय राइफल
114. 15783900 गनर टी किशोर कुमार सिंघा, सेना वायु रक्षा/38 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 116-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. कमांडर अरुण बहुगुणा, (04704-आर)
2. कमांडर एस मुथु कुमारन (03985-एफ)
3. कमांडर जोजी टॉम मुण्डाकेल, 03605-टी

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 117-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :

1. विंग कमांडर विवेक अहलुवालिया (21578) उड़ान (पायलट)
2. स्क्वाड्रन लीडर ध्रुव कुमार (28186) उड़ान (पायलट)
3. फ्लाइट लेफ्टिनेंट हषीर हमीद (29736) उड़ान (पायलट)

सं. 118-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस 2011 के उपलक्ष्य में विशिष्ट सेवा हेतु अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री संतोख सिंह  
उप-मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
दिल्ली

श्री अरून कुमार सडगिं  
असिसटेंट फायर आफिसर  
उड़ीसा

श्री शशांक शेखर महापात्र  
स्टेशन ऑफिसर  
उड़ीसा

श्री श्रीबस्ठु कुमार बेहेरा  
असिसटेंट स्टेशन आफिसर  
उड़ीसा

श्री हेमन्त कुमार दास  
चालक हवलदार  
उड़ीसा

श्री केदार नाथ सामल  
फायरमैन  
उड़ीसा

श्री अरविन्द कुमार  
उपनिदेशक (तकनीकी)  
उत्तर प्रदेश

श्री मोहम्मद रफीक  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय  
फायर सर्विस चालक  
उत्तर प्रदेश

श्री गोपाल कृष्णा भट्टाचार्य  
निदेशक  
पश्चिम बंगाल

श्री बिभास गुहा  
उप निदेशक  
पश्चिम बंगाल

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

सं. 119-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस 2011 के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट सेवा हेतु अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री टी. प्रसाद राव  
लीडिंग फायरमैन  
आंध्र प्रदेश

श्री बी. सत्यनारायण मूर्ति  
लीडिंग फायरमैन  
आंध्र प्रदेश

श्री वी. वेंकटस्वामी  
लीडिंग फायरमैन  
आंध्र प्रदेश

श्री विजय बहादुर  
मंडल अधिकारी  
दिल्ली

श्री ओम प्रकाश  
स्टेशन अधिकारी  
दिल्ली

श्री बच्ची सिंह अस्वाल  
उप अधिकारी  
दिल्ली

श्री नत्थु राम  
लीडिंग फायरमैन  
दिल्ली

श्री रमेश चन्द  
उप अग्निशमन अधिकारी  
हिमाचल प्रदेश



श्री राजिन्द्र कुमार  
लीडिंग फायरमैन  
हिमाचल प्रदेश

श्री भास्कर दास  
फायरमैन  
उड़ीसा

श्री कुब्ज सिंह  
फायरमैन  
हिमाचल प्रदेश

श्री सोनाम छिरिंग लेप्चा  
सब-फायर अधिकारी  
सिक्किम

श्री संतोष श्रीधर वारीक  
उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
महाराष्ट्र

श्री एन. सुब्रमणियन  
डिविजनल अधिकारी  
तमिलनाडु

श्री जिवन सिंह वाहेबम  
चालक  
मणिपुर

श्री ए. कुमारसामी  
डिविजनल अधिकारी  
तमिलनाडु

श्री जिस्वैल नोंगस्पंग  
सहायक अग्नि निरोधक अधिकारी  
मेघालय

श्री ए. पालानिवेल  
सहायक डिविजनल अधिकारी  
तमिलनाडु

श्री हरि कुमार कुट्टम  
उप अधिकारी  
मेघालय

श्री के. श्रीनिवासगम  
स्टेशन अधिकारी  
तमिलनाडु

श्री ल ल रेम्मोयॉ  
स्टेशन आफिसर  
मिजोरम

श्री एस. कृष्णामूर्ति  
फायरमैन  
तमिलनाडु

श्री के. थनसान्गा  
लीडिंग फायरमैन  
मिजोरम

श्री सर्वेश कुमार सिंह कुशवाहा  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रभात कुमार महापात्र  
स्टेशन आफिसर  
उड़ीसा

श्री बद्री विशाल मिश्रा  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री विवेकानन्द दास  
असिस्टेंट स्टेशन आफिसर  
उड़ीसा

श्री रिजवान अहमद  
लीडिंग फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री कारतिक चन्द्र बेहेरा  
लीडिंग फायरमैन  
उड़ीसा

श्री योगेन्द्र मिश्रा  
फायरमैन  
उत्तर प्रदेश

श्री बिनोद कुमार मूखी  
चालक हवलदार  
उड़ीसा

श्री रणजीत कुमार पाल  
स्टेशन अधिकारी  
पश्चिम बंगाल

श्री रतन कुमार हलदर  
स्टेशन अधिकारी  
पश्चिम बंगाल

श्री वी. चिरंजीवी  
प्रधान आरक्षक/अग्नि  
के.औ.सु.बल, गृह मंत्रालय

श्री अतनू चन्दा  
सब-आफिसर  
पश्चिम बंगाल

श्री नागेश भुजंगराव शिंदे  
मुख्य प्रबंधक/अग्नि  
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री लोको रंजन दास  
एल.एफ.ओ.  
पश्चिम बंगाल

श्री हेमन्त शंकरलाल शर्मा  
अग्निशमन अधिकारी  
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री नरहरी रौत  
सहायक कमाण्डेंट/अग्नि  
के.औ.सु.बल, गृह मंत्रालय

श्री हेमा कान्ता दत्ता  
सहायक मुख्य निरीक्षक/अग्नि  
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री खगेन चन्द्र पातर  
सहायक उप निरीक्षक/अग्नि  
के.औ.सु.बल, गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 120-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, दिल्ली अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

श्री नन्द किशोर तिवारी  
सब आफिसर

(मरणोपरांत)

2. दिनांक 6.10.2010 को समय 0110 बजे दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि 8/45, नेहरू गली, विश्वास नगर, दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गयी है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर टेंडर घटना स्थल पर भेज दिए गए। घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारी ने पाया कि एक फैक्ट्री जिसमें कि बिजली के तार बनाये जाते हैं, और टायर की मरम्मत की जाती है, में भयानक आग लगी हुई है। अधिकारी और उसके साथियों ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और साथ ही साथ कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारी को घटना स्थल पर पहुंचने और अतिरिक्त फायर टेंडर भेजने की मांग की।

आग पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण करने के लिए शटर तोड़ने का प्रयास करते समय एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें श्री नन्द किशोर तिवारी गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया।

3. इस प्रकार सब आफिसर, स्वर्गीय नन्द किशोर तिवारी ने उत्कृष्ट वीरता, कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विषेश भत्ता दिनांक 06.10.2010 से इसके साथ देय होगा।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 121—प्रेज/2011—राष्ट्रपति, दिल्ली अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:—

श्री महावीर सिंह  
लीडिंग फायरमैन

श्री चरणजीत (मरणोपरांत)  
फायरमैन

दिनांक 28.11.2010 को समय 1647 बजे दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि 1034, गली गुड़ वाली, मालीवार, नई सड़क, नई दिल्ली में आग लग गयी है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर टेंडर घटना स्थल पर भेज दिए गए। घटना स्थल पर पहुंचकर, अधिकारी ने पाया कि चार मंजिला इमारत की सभी मंजिलों से आग की भीषण लपटें निकल रही हैं। ज्ञात हुआ कि इमारत में भारी मात्रा में प्लास्टिक रोल, साड़ियां और केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। फायर स्टाफ द्वारा तुरंत आग बुझाने और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आग आसपास के भवनों में न फैल जाए इस प्रयास में श्री महावीर सिंह, लीडिंग फायरमैन और चरणजीत, फायरमैन तुरंत छत पर गये और आग बुझाने का कार्य करने लगे। अचानक केमिकल के ड्रम के फटने से इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया जिससे दोनों को गम्भीर चोटें आईं। तुरंत दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उपचार के दौरान श्री चरणजीत की दिनांक 30.11.2010 को मृत्यु हो गयी।

3. इस प्रकार लीडिंग फायरमैन श्री महावीर सिंह और फायरमैन स्वर्गीय चरणजीत ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शाषित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 28.11.2010 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 122—प्रेज/2011—राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:—

श्री गुलाम नबी शेख  
डिविजनल फायर आफिसर

श्री रफीक अहमद पैरी  
फायरमैन

श्री मोहम्मद अकरम गुरु  
स्टेशन आफिसर

श्री मोहम्मद यूनुस कुट्टी  
फायरमैन

2. दिनांक 6.10.2009 को श्रीनगर फायर कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि शहनशाह पैलेस होटल, बोलवर्ड रोड, डलगेट में आग लग गयी है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर गकडाल और बटमालू फायर स्टेशनों से फायर टेंडर भेज दिए गए। वहां पहुंचकर अधिकारी ने अपने साथियों की मदद से फायर फाइटिंग शुरू कर दिया ताकि आग नजदीक के होटलों में ना फैल जाए। आग की लपटों और धुंए की परवाह न करते हुए डिविजनल फायर आफिसर श्री गुलाम नबी शेख, स्टेशन आफिसर श्री मोहम्मद अकरम गुरु, फायरमैन श्री रफीक अहमद पैरी और फायरमैन श्री मोहम्मद यूनुस कुट्टी ने सभी लोगों को होटल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

3. इस प्रकार डिविजनल फायर आफिसर श्री गुलाम नबी शेख, स्टेशन आफिसर श्री मोहम्मद अकरम गुरु, फायरमैन श्री रफीक अहमद पैरी और फायरमैन श्री मोहम्मद यूनुस कुट्टी ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 06.10.2009 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 123-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री धवलेश्वर प्रधान  
फायरमैन

2. दिनांक 16.8.2010 को समय 1750 बजे भंज नगर, फायर स्टेशन पर सूचना मिली कि एक आदमी कुलियांगी गांव, पुलिस स्टेशन गंगपुर गंजम में एक कुएं में गिर गया है। सूचना मिलते ही श्री गोपाल च. मोहराना, स्टेशन आफिसर अपनी टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारी ने पाया कि एक आदमी कुएं में गिरकर बेहोश पड़ा है और एकत्रित भीड़ में से कोई भी कुएं में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यह जानते हुए भी कि कुएं में जहरीली गैस हो सकती है, श्री धवलेश्वर प्रधान हिम्मत करके कुएं के अन्दर गया और घायल व्यक्ति की कमर पर रस्सी बांधी। इस प्रयास में टीम के दूसरे साथियों ने पाया कि श्री धवलेश्वर प्रधान और घायल व्यक्ति दोनों बेहोश हो गये हैं, उन्होंने जल्दी से उनको कुएं से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल करा दिया।

3. इस प्रकार फायरमैन श्री धवलेश्वर प्रधान ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 16.08.2010 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या 124-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती है:-

श्री सीताकान्त महन्त  
फायरमैन

2. दिनांक 5.7.2010 को समय 1040 बजे राउरकेला फायर स्टेशन पर सूचना मिली कि बिसरा, जिला—सुन्दरगढ में दो व्यक्ति एक कुएं में गिर गये हैं। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत श्री परवाकर प्रधान अपनी टीम के साथ दिए पते पर रवाना हो गये। घटना स्थल पर पहुंचकर अधिकारी ने पाया कि दो व्यक्ति कुएं में गिर कर बेहोश हो गये हैं। ज्यादा समय न गवांते हुए श्री सीताकान्त महन्त एक रस्सी की सहायता से कुएं में उतर गया। जब वह करीब 20 फीट नीचे उतरा तो उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और वह वापस आ गया। तभी दो पंखों का इन्तजाम किया गया ताकि उनको लटकाकर कुएं में ताजी हवा फेंकी जाए। श्री महन्त ने दोबारा प्रयास किया। सब कठिनाइयां झेलते हुए आखिरकार वह कुएं के तल पर पहुंच गया और एक-एक करके दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों व्यक्तियों को बिसरा कम्यूनिटी हेल्थ सेन्टर में उपचार हेतु ले जाया गया जहां उन्हें खतरे से बाहर बताया गया।

3. इस प्रकार फायरमैन श्री सीताकान्त महन्त ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता एवं उच्च कौटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शाषित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 05.07.2010 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं0 125-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री वेद प्रकाश कौशिक  
इंस्ट्रक्टर (ना०सु०)  
दिल्ली

श्री श्रीज्ञान नेगी  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
हिमाचल प्रदेश

श्री दलजीत सिंह पूनिया  
सिनियर स्टाफ अधिकारी (गृ०र०)  
हरियाणा

श्री रामस्वरूप सिंह  
प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०)  
राजस्थान

श्री संजीव कुमार  
जूनियर स्टाफ अधिकारी (गृ०र०)  
हरियाणा

श्री एम० सलाई बाजवानन  
एरिया कमाण्डर (गृ०र०)  
तमिलनाडु

श्री हरि सुख शौक्ता  
कमाण्डेंट (गृ०र०)  
हिमाचल प्रदेश

श्री रितू राज  
डिप्टी डिविजनल वार्डन (ना०सु०)  
उत्तर प्रदेश

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शाषित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं0 126-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री लक्खीराम बोरदोलोई  
डिविजनल कमाण्डेंट (गृ०र०)  
असम

श्री गोकल चन्द  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
हरियाणा

श्री प्रफुल्ला चेतिया  
रिजर्व इंस्पेक्टर (गृ०र०)  
असम

श्री ईश्वर दास  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
हिमाचल प्रदेश

श्री देबेन चेतिया  
सुबेदार (गृ०र०)  
असम

श्रीमती देवा कुमारी  
प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०)  
हिमाचल प्रदेश

श्री फिरन्ता दास मानिकपुरी  
जिला कमाण्डेंट (गृ०र०)  
छत्तीसगढ़

कुमारी सुनीता देवी  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
हिमाचल प्रदेश

श्री चामर राय भोयार  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
छत्तीसगढ़

श्री चन्द्रकांत मच्छिन्द्र सोनावने  
कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०)  
महाराष्ट्र

श्री मथुरेश कुमार चन्द्राकर  
हवलदार स्टोर मेन (गृ०र०)  
छत्तीसगढ़

श्रीमती राजेश्री देवजी लखन  
प्लाटून अधिकारी (गृ०र०)  
महाराष्ट्र

श्री बसन्त लाल शुक्ला  
नायक (गृ०र०)  
छत्तीसगढ़

श्री मंगल नामदेव पाटिल  
इंस्ट्रक्टर (गृ०र०)  
महाराष्ट्र

श्री गिरवर सिंह  
इंस्ट्रक्टर (ना०सु०)  
दिल्ली

श्री अन्सर हुसैन महबूब शेख  
सेन्टर कमाण्डर (गृ०र०)  
महाराष्ट्र

श्री किरणपाल सिंह  
जूनियर जिला स्टाफ अधिकारी (गृ०र०)  
दिल्ली

श्री अशोक महादेव सारंग  
फायर मेन/रेस्क्युर (ना०सु०)  
महाराष्ट्र

श्री दलीप कुमार  
जूनियर इंस्ट्रक्टर (हवलदार)  
दिल्ली

श्रीमती सुषमा सतीश खतावकर  
मुख्यालय अधिकारी (ना०सु०)  
महाराष्ट्र

श्री पी० सी० लालफला सहायक (ना०सु०) मिजोरम	श्री एन० नागाराजन कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०) तमिलनाडु
श्री ब्रिज राज सिंह कमाण्डेंट (गृ०र०) राजस्थान	श्री वीर सेन जैन पोस्ट वार्डन (ना०सु०) उत्तर प्रदेश
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०) राजस्थान	श्री रघुवीर सिंह गौतम डिविजनल वार्डन (ना०सु०) उत्तर प्रदेश
श्री रामकुमार चतुर्वेदी प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०) राजस्थान	श्री अभय मिश्रा सुधीर डिविजनल वार्डन (ना०सु०) उत्तर प्रदेश
श्री शिवराज सिंह राजावत प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०) राजस्थान	श्री आलोक कुमार पाण्डेय पोस्ट वार्डन (ना०सु०) उत्तर प्रदेश
श्री एस० पी० बालासुब्रमनियन कम्पनी कमाण्डर (गृ०र०) तमिलनाडु	श्री नरेन्द्र कुमार राइकवार इन्सपेक्टर कंट्रोल ऑफिसर उत्तर प्रदेश
श्री एस० सुन्दरराज प्लाटून कमाण्डर (गृ०र०) तमिलनाडु	श्री श्यामेन्द्र कुमार साहु मुख्य सहायक (गृ०र०) उत्तराखण्ड
श्री वी० चन्द्रन सेक्शन लीडर तमिलनाडु	2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 127-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2011 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री के. डोडाकमैयाह  
सहायक अधीक्षक  
बंगलोर केन्द्रीय कारागार  
कर्नाटक

श्री ब्रन्दाबन बहेरा  
जेलर-सह-अधीक्षक  
अस्का उप-जेल  
उड़ीसा

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने वाले नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

सं. 128-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्रीमती रजाला शारदा  
अधीक्षक (उप-अधीक्षक)  
महिलाओं के लिए विशेष कारागार, राजमुंदरी  
आंध्र प्रदेश

श्री शेक यूमुफ  
मुख्य हेड वार्डर  
हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री गनगादारा मालेशम  
हेड वार्डर  
जिला जेल, करीमनगर  
आंध्र प्रदेश

श्री शिवन राम ठाकुर  
सहायक जेल-अधीक्षक  
केन्द्रीय जेल, रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री रामेश्वर दत्त  
हेड वार्डर  
केन्द्रीय जेल, तिहाड़  
दिल्ली

श्री दिनेश शर्मा  
जेल-अधीक्षक  
केन्द्रीय जेल, श्रीनगर  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री फारूक अहमद शॉल  
जेल-अधीक्षक  
जिला जेल, बारामूला  
जम्मू एवं कश्मीर

श्री हरीश चन्द्र जेना  
उप-सहायक जेलर  
बारीपदा सर्कल जेल  
उड़ीसा

श्रीमती वी. शिवगामी  
ग्रेड-1 वार्डर (महिला)  
महिलाओं के लिए विशेष कारागार, वेल्लोर  
तमिलनाडु

श्रीमती एस. राजम  
ग्रेड-11 वार्डर (महिला)  
महिला विशेष उप-जेल, कोक्किराकुलम  
तमिलनाडु

श्री सी. जोगैयाह  
सहायक अधीक्षक  
मैसूर  
कर्नाटक

श्री ए.जे. मैथ्यू  
अधीक्षक (उप जेलर श्रेणी)  
विशेष उप-जेल, पलक्काड  
तिरुवनन्तपुरम

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने वाले नियमों के नियम 4(iii) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव



सं. 129-प्रेज़./2011 - राष्ट्रपति, स्वाधीनता दिवस, 2011 के अवसर पर श्री रघबीर सिंह, कारापाल, केन्द्रीय कारागार, पटियाला, पंजाब को मरणोपरान्त, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

दिसम्बर, 2008 में रविन्दर सिंह उर्फ छंगा, एक डकैत, जो केन्द्रीय कारागार, पटियाला में बंद था, को उनकी दुर्बलता के कारण राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला लाया गया और एक मरीज के तौर पर भर्ती कराया गया था। श्री रघबीर सिंह, कारापाल (वार्डर) तब अस्पताल में ड्यूटी पर थे। 06 दिसम्बर, 2008 की रात को उक्त डकैत के कुछ सह-अपराधी आग्नेयास्त्रों सहित उसे (डकैत को) आज़ाद करवाने के प्रयास में अस्पताल में जबरदस्ती घुस आए। वे विचाराधीन रविन्दर सिंह को वार्ड से उठा ले गए और फिर श्री रघबीर सिंह ने उनके बीच अकेले होने के बावजूद उनसे डटकर लोहा लिया। श्री रघबीर सिंह ने उनका पीछा किया और उनके साथ हाथापाई की क्योंकि वे विचाराधीन डकैत को एम यू वी स्कारपियो गाड़ी में लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे। यह बहादुर जवान अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और उन्होंने उन्हें भागने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मुख्य द्वार पर गाड़ी से बेरहमी से कुचलकर उक्त अपराधी भागने में सफल हो गए। श्री रघबीर सिंह ने अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए अपनी ड्यूटी के निबाहने के दौरान अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी।

यह पुरस्कार, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने वाले नियमों के नियम 4(iv) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, इसके साथ, दिनांक 06.12.2008 से नियम-5 के अंतर्गत यथादेय विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

(बरुण मित्रा)  
संयुक्त सचिव

सं. 130-प्रेज़./2011-राष्ट्रपति, स्वाधीनता दिवस, 2011 के अवसर पर श्री ताड़क शिव शंकर, कारापाल (वार्डर), केन्द्रीय कारागार, वारांगल, आंध्र प्रदेश को शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

दिनांक 19.03.2007 की रात को, जब श्री ताड़क शिव शंकर ड्यूटी पर थे, तब चार कैदियों ने केन्द्रीय कारागार, वारांगल से भागने की कोशिश की। जब चार कैदी चादर का इस्तेमाल करके बलपूर्वक कारागार प्रकोष्ठ की सरिया को वेल्डिंग किए हुए निचले सिरे से उखाड़ कर तथा प्रकोष्ठ को तोड़कर भाग रहे थे, तो उन्होंने उन्हें साहस एवं दृढ़तापूर्वक उच्च सुरक्षा ब्लॉक-11 पर रोका। उस समय संतरी अपनी ड्यूटी पर दूसरे क्षेत्र में दूर गश्त लगा रहा था। कैदियों ने उस इलाके की बलियां गुल कर दीं और स्वयं ब्लॉक के प्रवेश वाले प्रकोष्ठ में छिप गए। जब श्री ताड़क शिव शंकर, कारापाल (वार्डर) उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने (कैदियों ने) उन पर झपट्टा मारा और उनका गला दबाने की कोशिश की। उन्होंने उन कैदियों का साहसपूर्वक प्रतिरोध किया और जोर से आवाज लगाई ताकि अन्य कारापाल (वार्डर्स) सतर्क हो जाएं। एक सायरन भी बजा दिया और चारों कैदी यह भांपते हुए कि अब भागना संभव नहीं हो पाएगा, घुटनों के बल चलते हुए उसी रास्ते से प्रकोष्ठ में वापस चले गए जिससे वे बाहर निकले थे। उच्च अधिकारियों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और इसके बारे में प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सूचित किया।

यह पुरस्कार, शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने वाले नियमों के नियम 4(iv) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, इसके साथ दिनांक 06.12.2008 से नियम-5 के अंतर्गत यथा देय विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

(बरुण मित्रा)  
संयुक्त सचिव

सं. 131-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करती हैं :--

श्री राजीव त्रिवेदी  
अपर पुलिस महानिदेशक  
आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी  
हिमायत सागर, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री आर पी. ठाकुर  
अपर पुलिस महानिदेशक  
तकनीकी सेवा, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री वज्जा वेणुगोपाल कृष्ण  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री पी. मधुसूदन राव  
उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी  
तेनाली उप प्रभाग, गुंटूर जिला  
आंध्र प्रदेश

श्री सैयद सिराजुद्दीन  
पुलिस निरीक्षक  
विशेष आसूचना शाखा, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री पल्लव भट्टाचार्य  
पुलिस महानिरीक्षक  
मध्य पश्चिमी रेंज, गुवाहाटी  
असम

श्री प्रातुल चन्द्र फूकन  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
पश्चिमी रेंज, बोंगईगांव  
असम

श्री अरुण चन्द्र वर्मा  
अपर पुलिस महानिदेशक

बिहार मिलिटरी पुलिस, पटना  
बिहार

श्री सुनील कुमार  
विशेष सचिव  
गृह विभाग  
बिहार सरकार, पटना  
बिहार

श्री रवीन्द्र कुमार झा  
सारजेंट मेजर  
पटना जिला  
बिहार

श्री मोहम्मद वजीर अंसारी  
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक  
लोक अभियोजन, रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री ए.एस. खान  
पुलिस महानिदेशक  
होम गार्ड, दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री राजन भगत  
अपर उप पुलिस उपायुक्त  
पीआरओ और सीआरओ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती यशोदा रावत  
निरीक्षक (एकजी.)  
सी ए डब्ल्यू/सेल /एस. एस. पुरी/ एसईडी  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री गुणवंतराय देवराम त्रिवेदी  
उप पुलिस अधीक्षक  
वलसाड जिला, वलसाड  
गुजरात

श्री तेजपाल सिंघ बिष्ट  
सचिव (गृह)  
गांधीनगर, गुजरात सरकार  
गुजरात

श्री के. सेल्वराज पुलिस महानिरीक्षक / कार्मिक पचकुला हरियाणा	श्री यू.पी. शिवराम रेड्डी अपर पुलिस अधीक्षक चित्रदुर्गा जिला कर्नाटक
श्री के. के. सिन्धू पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला रेंज, अम्बाला छावनी हरियाणा	श्री महेश कुमार सिंगला अपर पुलिस महानिदेशक (पीसीआर) पुलिस मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम केरल
श्री हरदेश विष्ट पुलिस अधीक्षक सोलन हिमाचल प्रदेश	श्री एन. गोपालकृष्णन जिला पुलिस प्रमुख कोल्लम शहर केरल
श्री एस.एम. सहाय पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर जम्मू और कश्मीर	श्री उमाकांत लाल अपर महानिदेशक (शिकायत एवं मानवाधिकार) पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश
श्री दिलबाग सिंह पुलिस महानिरीक्षक जम्मू जम्मू और कश्मीर	श्री स्वर्ण सिंह अपर पुलिस महानिदेशक (एजेके) पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश
श्री रेजी डुंगडुंग पुलिस महानिरीक्षक रांची क्षेत्र झारखंड	डा० शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन, भोपाल मध्य प्रदेश
श्री प्रवीण सूद पुलिस महानिरीक्षक एवं अपर पुलिस आयुक्त बंगलौर शहर कर्नाटक	श्री कैलाश नाथ तिवारी पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी, पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश
श्री पदम कुमार गर्ग पुलिस महानिरीक्षक एवं एमडी, एमपीएम केपीटीसीएल, बंगलौर कर्नाटक	श्री प्रवीण नारायण दीक्षित प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र
श्री के.वी. गगन दीप पुलिस महानिरीक्षक एनईआर, गुलबर्गा कर्नाटक	श्री भगवंत दत्ताजीराव मोरे विशेष पुलिस महानिरीक्षक कोल्हापुर रेंज, कोल्हापुर महाराष्ट्र

श्री मेघश्याम रामचंद्र मालेगावकर  
अपर पुलिस अधीक्षक  
बारामती, पुणे (ग्रामीण)  
महाराष्ट्र

श्री लीशाम इबोबी सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
राज्य सतर्कता आयोग  
मणिपुर

श्री बिष्णु राम राना  
पुलिस महानिरीक्षक  
(सीआईडी), शिलांग  
मेघालय

श्री संजीव मारिक  
अपर पुलिस महानिदेशक  
मुख्यालय, कटक  
उड़ीसा

श्री सुरेन्द्र पंवार  
पुलिस महानिरीक्षक  
सतर्कता, कटक  
उड़ीसा

श्री राजपाल मीना  
पुलिस महानिरीक्षक  
पटियाला  
पंजाब

श्री परमजीत सिंह गिल  
पुलिस महानिरीक्षक,  
जोनल - I पटियाला  
पंजाब

डा. सुधाकर जौहरी  
अपर पुलिस महानिदेशक  
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर  
राजस्थान

श्री महिपाल सिंह  
अपर पुलिस अधीक्षक  
सीआईडी (सीबी) जयपुर  
राजस्थान

श्री संजीव कुमार  
अपर पुलिस महानिदेशक  
मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,  
मैलापुर, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एम. अशोककुमार  
पुलिस अधीक्षक  
क्यू शाखा, सीआईडी चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री विजय सिंह यादव  
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)  
अगरतला  
त्रिपुरा

श्री राम नारायण सिंह  
अपर पुलिस महानिदेशक  
ई ओ डब्ल्यू, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार धर द्विवेदी  
पुलिस महानिरीक्षक  
लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री भानु प्रताप सिंह  
पुलिस महानिरीक्षक  
पीएसी, पूर्वी जोन, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रताप कुमार श्रीवास्तव  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
आसूचना मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राज बहादुर यादव  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला बस्ती  
उत्तर प्रदेश

श्री अनिल के. रतूड़ी  
पुलिस महानिरीक्षक  
आसूचना/सुरक्षा, देहरादून  
उत्तराखण्ड

- श्री के. हरि राजन  
पुलिस महानिरीक्षक  
दूरसंचार, 3 माणिक बंदोपाध्याय सरणी, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल
- श्री अनिल कुमार जाना  
सहायक पुलिस आयुक्त  
दक्षिण क्षेत्र, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल
- श्री असित बरन शील  
सहायक पुलिस आयुक्त  
गुप्तचर विभाग (एसटीएफ), कोलकाता  
पश्चिम बंगाल
- श्री के. एन. कालियापेरुमल  
उप पुलिस निरीक्षक  
खाद्य सेल  
पुडुचेरी
- श्री अरुण कुमार सिन्हा  
महानिरीक्षक  
एफटीआर मुख्यालय बीएसएफ गुजरात,  
पीओ सीआरपीएफ ग्रुप सेन्टर गांधीनगर, गुजरात  
सीमा सुरक्षा बल
- श्री प्रदीप किशन वहाल  
उप महानिरीक्षक (एयर)  
एयर विंग, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल
- श्री मनोहर लाल बाथम  
उपमहानिरीक्षक/पी एस ओ  
एफटीआर मुख्यालय, एम एंड सी, मसीमपुर  
अरुणाचल जिला कछार (असम)  
सीमा सुरक्षा बल
- श्री श्री राम दास  
सेकंड-इन-कमांड  
61 बटालियन बीएसएफ, खासियामंगल  
तेलियामुराह त्रिपुरा (पश्चिम)  
सीमा सुरक्षा बल
- श्री अरविन्द मिश्रा  
उप कमांडेंट  
121 बटालियन, प्रहरी नगर,  
तुरा जिला पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय  
सीमा सुरक्षा बल
- श्री भानु प्रताप बागची  
अपर पुलिस अधीक्षक  
एसीबी देहरादून  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- श्री रमन राजाराम त्यागी  
अपर पुलिस अधीक्षक  
सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- श्री सोमराज ठाकुर  
उप पुलिस अधीक्षक  
एस सी-II, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- श्री संतराम नागर  
सहायक उप निरीक्षक  
सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- श्री जगदीश चन्द्र  
हेड कांस्टेबल  
एस सी-II, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- श्री स्वराज बीर सिंह  
महानिरीक्षक  
बल मुख्यालय, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
- श्री बेलनगनी मारिया जोसफ  
उप महानिरीक्षक  
सीआईएसएफ यूनिट, एन एल सी नैवेली (तमिलनाडु)  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
- श्री रविन्दर कुमार शर्मा  
कमांडेंट (लोकल रैंक)  
अमृतसर एयरपोर्ट, पंजाब  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

डा. एन. सी. अस्थाना  
पुलिस महानिरीक्षक  
ब्लाक नं.11 पुराना सचिवालय, सिविल लाइन्स दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. एस. भण्डारी  
उप महानिरीक्षक  
प्रोविजनिंग ब्रांच (एमटी/ओआरडी)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रदीप कुमार सिंह  
उप महानिरीक्षक  
श्रीनगर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सतेन्द्र पाल सिंह  
उप महानिरीक्षक  
संचार शाखा, बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सी. एच. विजयन  
प्रशासनिक अधिकारी  
पश्चिमी सेक्टर मुख्यालय, नवी मुंबई, महाराष्ट्र  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए. एस. राजन  
संयुक्त निदेशक  
अहमदाबाद  
गृह मंत्रालय

श्री स्वागत दास  
संयुक्त निदेशक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री एन. पी. सिंह  
सहायक निदेशक  
पटना  
गृह मंत्रालय

श्री वाई. के. चौधरी  
सहायक निदेशक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री एच. ए. साह  
सहायक निदेशक  
गुवाहाटी  
गृह मंत्रालय

श्री ए.पी. बरनवाल  
सहायक निदेशक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री पी.के. भारद्वाज  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री एस. सरवटे  
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी  
जयपुर  
गृह मंत्रालय

श्री हरभजन सिंह  
उप महानिरीक्षक  
एन डब्ल्यू फ्रंटियर, चंडीगढ़  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राम कंवर सैनी  
उप महानिरीक्षक  
सेक्टर मुख्यालय, इटानगर  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री राज कुमार धिरेन सिंह  
उप महानिरीक्षक  
एस एच क्यू (तेजपुर), सोनितपुर (असम)  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सत्य लाल सरकार  
उप महानिरीक्षक  
सेक्टर मुख्यालय, पिथौरागढ़  
सशस्त्र सीमा बल

श्री भानु उपाध्याय  
उप महानिरीक्षक  
सेक्टर मुख्यालय, बोंगईगांव, असम  
सशस्त्र सीमा बल

श्री जी. प्रेमचन्द्रन  
उप निरीक्षक  
हैदराबाद  
एस वी पी एन.पी.ए.

श्री जी. रवि  
हेड कांस्टेबल/जीडी  
हैदराबाद  
एस वी पी एन.पी.ए.

श्री खड़ग सिंह ठाकुर  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

श्री महान भरत सागर  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
मुंबई, महाराष्ट्र  
जहाजरानी मंत्रालय

श्री एस. बालासुब्रमण्यन  
सहायक सुरक्षा आयुक्त/सीएससी के एसओ  
रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण रेलवे, चेन्नई  
रेल मंत्रालय

श्री तुषार कान्ती चट्टोपाध्याय  
सहायक सुरक्षा आयुक्त  
रेलवे सुरक्षा बल  
सीएससी कार्यालय/डब्ल्यू सी आर  
रेल मंत्रालय

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 132-प्रेज़/2011--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करती हैं :--

डा आर. एस. प्रवीण कुमार  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,  
हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री वी. वी. श्रीनिवास राव  
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक  
आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी,  
हिमायत सागर, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री अतुल सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
रेलवे, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री महेश मुरलीधर भागवत  
संयुक्त पुलिस आयुक्त  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय  
बशीरबाग, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्रीमती स्वाति लाकड़ा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
हैदराबाद रेंज  
आंध्र प्रदेश

श्री ए. अब्राहम लिंकन  
संयुक्त निदेशक  
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, शहर क्षेत्र, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री सीएच. वेंकटेश्वरलू  
स्क्वाड्रन कमांडर/अपर कमांडेंट  
ग्रेहाउंड्स, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री मुरुगनी किस्तय्या  
सहायक पुलिस आयुक्त  
मीरचौक प्रभाग, दक्षिण अंचल, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री एन. चंद्र शेखर  
उप पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार - निरोध ब्यूरो, हैदराबाद रेंज, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री वी. सुरेन्द्र रेड्डी  
उप पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता एवं प्रवर्तन विभाग  
मुख्यालय, कार्यदल, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री जी मुरली कृष्ण  
सहायक कमांडेंट  
6वीं बटालियन, एपी एसपी, मंगलागिरि, गुंटूर जिला  
आंध्र प्रदेश

श्री एम. मधुसूदन रेड्डी  
सहायक पुलिस आयुक्त  
साइबर अपराध, साइबराबाद, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री ए.एस. मोहम्मद इस्माइल  
सहायक पुलिस आयुक्त  
संतोषनगर प्रभाग, दक्षिण क्षेत्र, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री वासम देवेंद्र कुमार  
उप पुलिस अधीक्षक  
होम गार्ड, साइबराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री शैक सय्यद बाशा  
उप पुलिस अधीक्षक  
सीआईडी, सीएसओ,  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री माधवरपु मधुसूदन राव  
पुलिस निरीक्षक  
लालापेट पुलिस स्टेशन, गुंटूर जिला  
आंध्र प्रदेश

श्री तिरुपति श्रीनिवास वेंकटरमना  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, शहर रेंज-1, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री चामार्थी जयराम राजू  
निरीक्षक  
आसूचना कडप्पा, अंचल  
आंचलिक आसूचना कार्यालय  
आंध्र प्रदेश

श्री नरेंद्र नारायणराव चुंगी  
पुलिस निरीक्षक  
काउंटर आसूचना प्रकोष्ठ, आसूचना  
आंध्र प्रदेश

श्री बी. शंकर राव  
रेलवे पुलिस उप-निरीक्षक  
विजयवाड़ा आर एस  
आंध्र प्रदेश

श्री अब्दुल रशीद  
सहायक रिजर्व उप-निरीक्षक  
आई एस डब्ल्यू, खैरताबाद, हैदराबाद  
आंध्र प्रदेश

श्री एम. प्रताप  
सहायक उप - निरीक्षक  
जिला अपराध रिकोर्ड ब्यूरो  
कृष्णा जिला, मछलीपट्टनम  
आंध्र प्रदेश

श्री के. अरुण कुमार  
सहायक उप - निरीक्षक  
प्रशिक्षण केन्द्र, जडचेरला  
महबूबनगर जिला  
आंध्र प्रदेश

श्री गुण्डेति कनकय्या  
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक  
जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो, करीमनगर,  
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय  
आंध्र प्रदेश



श्री एम. मोहनजी हेड कांस्टेबल निरीक्षक संचार का कार्यालय महबूबनगर आंध्र प्रदेश	श्री देवेश चन्द्र श्रीवास्तव उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय इटानगर अरुणाचल प्रदेश
श्री बी बालप्पा हेड कांस्टेबल पुलिस प्रशिक्षण कालेज, अनंतपुर आंध्र प्रदेश	श्री लोड तारी उप-निरीक्षक डाकघर एवं पुलिस स्टेशन महादेवपुर जिला लोहित अरुणाचल प्रदेश
श्री के. यादगिरि रेड्डी सशस्त्र रिजर्व हेड कांस्टेबल साइबर अपराध, सीआईडी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	श्री लाल बाबू सिंगा पुलिस अधीक्षक (संचार) असम पुलिस रेडियो संगठन, गुवाहाटी असम
श्री मनेरी रोसय्या हेड कांस्टेबल पीटीएम पुलिस स्टेशन, चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश	श्री इंद्रा कलिता सहायक पुलिस उप-निरीक्षक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, गुवाहाटी असम
श्री पेदिरेडला वेंकट सत्यनारायण पुलिस उप-निरीक्षक सीआईडी, आरसीआईयू, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	श्री भगीन्द्र महंता सहायक उप निरीक्षक (ओपीआर) असम पुलिस रेडियो संगठन, गुवाहाटी असम
श्री बड़ा पोचय्या हेड कांस्टेबल पीसीआर रेंज, अपराध नियंत्रण दस्ता निजामाबाद जिला आंध्र प्रदेश	श्री पंकज बिहारी काकति सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) असम पुलिस रेडियो संगठन, गुवाहाटी असम
श्री बी. सत्यनारायण मूर्ति हेड कांस्टेबल आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी हिमायत सागर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	श्री बसंता बैश्या सहायक उप-निरीक्षक राज्य अग्निशमन सेवा संगठन, गुवाहाटी असम
श्रीमती डी. नायैमी महिला पुलिस कांस्टेबल 1 - टाउन पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश	श्री बीरेन चन्द्र बैश्या कांस्टेबल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोध, गुवाहाटी असम
	श्री राजन चन्द्र बरुआ कांस्टेबल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोध, गुवाहाटी असम

श्री दिम्बेश्वर कथाट  
कांस्टेबल  
असम पुलिस रेडियो संगठन, गुवाहाटी  
असम

श्री एजाज अहमद खान  
सिपाही  
विशेष शाखा पटना  
बिहार

श्री सुशील खोपडे  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
शाहाबाद रेंज, डेहरी-आन-सोन  
बिहार

श्री दिनेश कुमार पासवान  
कांस्टेबल  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय  
पुराना सचिवालय, पटना  
बिहार

श्री मो. रहमान  
पुलिस अधीक्षक  
सहरसा  
बिहार

श्री अशोक कुमार ओझा  
कांस्टेबल  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय  
पुराना सचिवालय, पटना  
बिहार

श्री विजय कुमार वर्मा  
पुलिस अधीक्षक  
भागलपुर  
बिहार

श्री सुरेश कुमार  
सारजेंट मेजर  
पटना यातायात, पटना  
बिहार

श्री महाराज कनिष्क कुमार  
उप पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना  
बिहार

श्री राकेश कुमार ब्रह्मचारी  
पुलिस निरीक्षक  
सीआईडी मुख्यालय, पटना  
बिहार

श्री विश्वनाथ राय  
कांस्टेबल  
सतर्कता जांच ब्यूरो, पटना  
बिहार

श्री बिनोद कुमार तिवारी  
उप-निरीक्षक  
आंचलिक महानिरीक्षक का कार्यालय  
पटना जोन, पटना  
बिहार

श्री पवन देव  
पुलिस महानिरीक्षक  
प्रशासन, पुलिस मुख्यालय रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री अर्जुन राम  
हवलदार  
सीआईडी मुख्यालय, पटना  
बिहार

श्री हेत राम मनहर  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी)  
पुलिस मुख्यालय रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री उदय राम  
हवलदार  
बिहार मिलिटरी पुलिस-14, पटना  
बिहार

श्री जयंत बंधोपाध्याय  
निरीक्षक  
विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर  
छत्तीसगढ़

श्री फूल देव मिश्रा उप-निरीक्षक एम. टी. पुलिस लाइन राजनांदगांव छत्तीसगढ़	श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ रिपोर्टर विशेष शाखा मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़
सुश्री कृष्णा सिसोदिया सहायक उप - निरीक्षक विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़	श्री उदय कान्त चौधरी पुलिस उपायुक्त सिक्यूरिटी लाइन्स, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री बीर बहादुर राय सेक्शन कमांडर दूसरी बटालियन, सीएएफ बिलासपुर छत्तीसगढ़	श्रीमती कमलेश कुमारी सहायक पुलिस आयुक्त सीपीसीआर/पुलिस मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री सुरेश बहादुर राय सहायक प्लाटून कमांडर 8वीं बटालियन आई/ आर सीएएफ राजनांदगांव छत्तीसगढ़	श्री राजिन्दर सिंह मन्कू सहायक पुलिस आयुक्त एसीबीटी/ ईओडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री संधाराम साहू हेड कांस्टेबल 9वीं बटालियन, सीएएफ दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़	श्री जय किशन निरीक्षक अपराध शाखा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री डबल बहादुर हेड कांस्टेबल 10वीं बटालियन, सीएएफ सरगुजा छत्तीसगढ़	श्री करम चन्द नेगी निरीक्षक सुरक्षा यूनिट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री जगत बहादुर हेड कांस्टेबल 12 वीं बटालियन, सीएएफ रामानुजगंज छत्तीसगढ़	श्री संजीव कुमार त्यागी निरीक्षक/ईओ डब्ल्यू, अपराध शाखा, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री गणेश राम गुरुपंच हेड कांस्टेबल एजेके सेक्शन, कबीरधाम छत्तीसगढ़	श्री सवाई सिंह निरीक्षक विशेष पुलिस आयुक्त का कार्यालय अपराध शाखा/ पुलिस मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
श्री सत्य नारायण देवांगन पुलिस महानिरीक्षक के निजी सचिव/निरीक्षक (एम) रायपुर छत्तीसगढ़	श्रीमती शारदा देवी महिला/उप निरीक्षक (एकजीक्यूटिव) पूर्व जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्रीमती वीना बाला  
महिला/उप निरीक्षक (पर्यवेक्षक/आपरेशन)  
संचार यूनिट  
पुलिस उपायुक्त का कार्यालय  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बलराज सिंह  
उप-निरीक्षक (पर्यवेक्षक/संचार-तकनीकी)  
संचार यूनिट  
पुलिस उपायुक्त का कार्यालय  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री ओमकार सिंह  
उप-निरीक्षक  
सुरक्षा यूनिट  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री करन सिंह  
उप-निरीक्षक  
सुरक्षा विंग, विनय मार्ग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री चान्द सिंह  
उप-निरीक्षक  
पीटीसी  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री कृष्ण स्वरूप  
उप-निरीक्षक  
सुरक्षा यूनिट, विनय मार्ग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री याद राम मीणा  
उप-निरीक्षक (एकजीक्यूटिव)  
एफआरआरओ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री सोहन पाल  
उप-निरीक्षक (मिनी.)  
विशेष शाखा  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री फाजिल अली खान  
सहायक उप-निरीक्षक (एकजीक्यूटिव)  
उत्तर-पश्चिमी जिला  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बिजेन्द्र सिंह  
सहायक उप-निरीक्षक (एकजीक्यूटिव)  
सुरक्षा यूनिट, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री बलबीर सिंह  
सहायक उपनिरीक्षक  
पीटीसी  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री चरण सिंह  
हेड कांस्टेबल (आर्मरर)  
उत्तर-पूर्वी जिला  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री टोनी एम. फर्नांडीस  
पुलिस अधीक्षक  
सुरक्षा एवं आप्रवास, पुलिस मुख्यालय पणजी  
गाँवा

श्री मलेक नसरुल्ला अहेमदमीया  
शस्त्रहीन सहायक पुलिस उप-निरीक्षक  
संयुक्त पुलिस आयुक्त का कार्यालय  
अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर,  
गुजरात

श्री परमार सामजीभाई तलसीभाई  
शस्त्रहीन सहायक पुलिस उप-निरीक्षक  
पालनपुर सिटी पुलिस स्टेशन,  
जिला बनासकंट  
गुजरात

श्री मगनभाई जोईताभाई वाघेला  
आसूचना अधिकारी  
अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय  
आसूचना, गांधीनगर  
गुजरात

श्री परमार प्रविणचंद्र हरीलाल  
शस्त्रहीन हेड कांस्टेबल  
स्थानीय अपराध शाखा, पालनपुर  
गुजरात

श्री राठोड गीरवरसिंह महेन्द्रसिंह  
शस्त्रहीन पुलिस हेड कांस्टेबल  
संयुक्त पुलिस आयुक्त का कार्यालय  
अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर  
गुजरात

श्री गोहैल मोहनभाई लवजीभाई  
शस्त्रहीन हेड कांस्टेबल  
सतर्कता शाखा  
महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक  
का कार्यालय, गांधी नगर  
गुजरात

श्री मकराणी अब्दुलवहाब अब्दुलकादर  
शस्त्रहीन पुलिस कांस्टेबल  
वडोदरा ग्रामीण  
गुजरात

श्री बाबुलाल रामलाल पांडोर  
सशस्त्र हेड कांस्टेबल  
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड  
पुलिस स्टेशन साबरमती, अहमदाबाद  
गुजरात

श्री हितैष नलीनकान्त जानी  
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल  
पीसीबी नियंत्रण, राजकोट शहर  
गुजरात

श्री बावलिया धीरूभाइ जेरामभाइ  
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल  
एसआरपीएफ जीआर.11 वीएवी  
गुजरात

श्री गामीत गमनलाल कसनजीभाइ  
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल  
एसआरपीएफ जीआर. 11, वीएवी सूरत  
गुजरात

श्री परमार हमीरभाइ हिराभाइ  
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल  
एसआरपीएफ जीआर.11, वीएवी सूरत  
गुजरात

श्री चितरंजन सिंध  
अपर महानिदेशक एवं निदेशक  
एसीबी, दफनाला, शाहीबाग, अहमदाबाद  
गुजरात

श्री विजयराज सिंध गौतम  
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी  
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, वडोदरा  
गुजरात

श्री इश्वरभाइ देसाइ  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सीआईडी अपराध एवं रेलवे, गांधीनगर  
गुजरात

श्री सन्दीप खिरवार  
उप पुलिस महानिरीक्षक / सीआईडी  
पंचकुला  
हरियाणा

श्री वेद प्रकाश गोदारा  
अपर पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट  
। बटालियन, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, अम्बाला शहर  
हरियाणा

श्री सुरेश कुमार  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यमंत्री सुरक्षा, पंचकुला  
हरियाणा

श्री घनश्याम  
निरीक्षक  
लाइन अधिकारी, दूरसंचार पंचकुला  
हरियाणा

श्री पारस राम  
उप निरीक्षक  
प्रभारी विशेष प्रकोष्ठ, सीआईडी मुख्यालय, पंचकुला  
हरियाणा

श्री भूपिन्द्र सिंह  
उप निरीक्षक  
सतर्कता / एचवीपीएनएल पंचकुला  
हरियाणा

श्री रमेश चन्द  
उप निरीक्षक  
5 वीं बटालियन, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, मधुबन  
हरियाणा

श्री अवतार सिंह  
एक्जैम्प्टी उप निरीक्षक  
राजकीय रेलवे पुलिस, अम्बाला शहर  
हरियाणा

श्री राम निवास  
सहायक उप निरीक्षक  
चंडीगढ़  
हरियाणा

श्री चत्तर भुज  
सहायक उप निरीक्षक  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय, गुड़गांव  
हरियाणा

श्री ओंकार सिंह  
सहायक उप निरीक्षक  
आईटी सेल / दूरसंचार पंचकुला  
हरियाणा

श्री राम कुमार  
सहायक उप निरीक्षक  
हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन  
हरियाणा

श्री कपिल शर्मा  
पुलिस अधीक्षक  
जेल  
हिमाचल प्रदेश

श्री आनन्द कुमार धोमान  
अपर पुलिस अधीक्षक  
शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री मुकेश कुमार बक्शी  
निरीक्षक  
एसवी और एसीबी, सोलन  
हिमाचल प्रदेश

श्री बाबू राम  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, शिमला  
हिमाचल प्रदेश

श्री अब्दुल गनी मीर  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
मध्य कश्मीर रेंज, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री कैलाश चन्द्र  
पुलिस अधीक्षक  
प्रिंसिपल, एसटीसी तलवाड़ा  
जम्मू और कश्मीर

श्री सैफ़ दीन शाह  
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट  
ए यू एक्स पुलिस पहली बटालियन, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री रनजीत कनवर मन्हास  
पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट  
आईआरपी-19वीं बटालियन, जम्मू  
जम्मू और कश्मीर

श्री अब्दुल रशीद वट्ट  
पुलिस अधीक्षक  
एएचजे, हवाई अड्डा, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री अशोक कुमार शर्मा  
पुलिस अधीक्षक  
प्रिंसिपल पी टी एस कठुआ  
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहन लाल कैथ  
उप पुलिस अधीक्षक  
एसडीपीओ (दक्षिण), गांधी नगर, जम्मू  
जम्मू और कश्मीर

श्री गुल मीर  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यालय, अपराध शाखा, कश्मीर  
जम्मू और कश्मीर

श्री मुज़फर हुसैन मलिक  
उप-निरीक्षक  
सीआईडी, एसबीके, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री बशीर अहमद खान  
उप पुलिस अधीक्षक  
डार बडगाम  
जम्मू और कश्मीर

श्री बाबू राम  
हेड कांस्टेबल  
एसकेपीए, ऊधमपुर  
जम्मू और कश्मीर

श्री मुहम्मद रज़ाब  
उप पुलिस अधीक्षक  
दूरसंचार, राजौरी  
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलाम अहमद गनेड़  
हेड कांस्टेबल  
पीसीआर श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलजार अहमद शाह  
उप पुलिस अधीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री गुलाम नवी वट्ट  
हेड कांस्टेबल  
आईआरपी 18वीं बटालियन, अवंतीपुरा  
जम्मू और कश्मीर

श्री सोनम वाचुक  
निरीक्षक  
डीपीएल लेह  
जम्मू और कश्मीर

श्री किशन सिंह मीणा  
पुलिस महानिरीक्षक  
झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची  
झारखंड

श्री नजीर अहमद वट्ट  
निरीक्षक  
आईआरपी-7वीं बटालियन, बारामुला  
जम्मू और कश्मीर

श्री निर्मल कुमार मिश्र  
पुलिस अधीक्षक  
अपर महानिदेशक का कार्यालय  
सीआईडी रांची  
झारखंड

श्री कुलदीप सिंह  
उप-निरीक्षक (एम)  
पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर  
जम्मू और कश्मीर

श्री राम नाथ सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
यातायात रांची  
झारखंड

श्री शहीर अहमद खान  
उप-निरीक्षक  
एसओजी, अनंतनाग  
जम्मू और कश्मीर

श्री किशोर चन्द्र  
सारजेंट मेजर  
पुलिस मुख्यालय धुर्वा, रांची  
झारखंड

श्री हरवंश लाल  
उप-निरीक्षक  
अपराध शाखा, जम्मू  
जम्मू और कश्मीर

श्री देन्जु कुमार शर्पा  
हवलदार  
एसटीएफ (जे. जे) धुर्वा, रांची  
झारखंड

श्री बुलबुल राई  
हवलदार  
एसटीएफ (जे. जे) धुर्वा, रांची  
झारखंड

श्री शैलेन्द्र कुमार  
कांस्टेबल  
सीआईडी झारखंड  
झारखंड

श्री सत्य नारायण पाण्डेय  
कांस्टेबल  
अपर महानिदेशक का कार्यालय, सीआईडी  
झारखंड

डा. बी.ए. महेश  
पुलिस अधीक्षक  
बंगलुरु जिला  
कर्नाटक

श्री टी. आर. सुरेश  
पुलिस अधीक्षक  
टुमकुर जिला, टुमकुर  
कर्नाटक

श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर  
पुलिस अधीक्षक  
कोप्पल जिला  
कर्नाटक

श्री दोदय्या धर्मय्या  
पुलिस उपायुक्त  
वी वी आई पी, सुरक्षा  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय, बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री एस. तुरुवेकरे शकुनैया नटराज  
कमांडेंट  
III बटालियन के एस आर पी, बंगलौर  
कर्नाटक

श्री एस.एम. जगदीश प्रसाद  
पुलिस अधीक्षक  
के एल ए, टुमकुर जिला  
कर्नाटक

श्री शिवशंकरप्पा गुरुबासप्पा ओटागेरी  
पुलिस अधीक्षक/प्रिसिपल  
सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मीनाहल्ली, हागरी  
बेल्लारी जिला  
कर्नाटक

श्री मूदी कज्जर सोलाबेश्वरप्पा  
सहायक पुलिस आयुक्त  
चिकपेट उप प्रभाग, बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री एच.एम. आँकारैया  
सहायक पुलिस आयुक्त  
शेषाद्रिपुरम उप-प्रभाग  
बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री एस. जी. विजयकुमार  
उप पुलिस अधीक्षक  
आसूचना मैसूर  
कर्नाटक

श्री जी. हनुमंत रेड्डी  
उप पुलिस अधीक्षक  
आसूचना, टुमकुर  
कर्नाटक

श्री पी. प्रकाश  
उप पुलिस अधीक्षक,  
फिंगर प्रिंट ब्यूरो, ईस्टर्न रेंज  
दावणगेरे  
कर्नाटक

श्री एन.एस. पाटील  
सहायक पुलिस आयुक्त  
उत्तर उप प्रभाग, हुबली सिटी  
कर्नाटक



श्री के. प्रभाकर बयारी  
पुलिस निरीक्षक  
हलसुर गेट, यातायात पुलिस स्टेशन  
बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री टी. वेंकटेश  
पुलिस निरीक्षक  
मादीवला यातायात पुलिस स्टेशन, बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री टी. रवीन्द्र कुमार  
पुलिस निरीक्षक (वायरलेस)  
जिला नियंत्रण कक्ष, मांड्या  
कर्नाटक

श्री एम.पी. नागराज  
सर्किल पुलिस निरीक्षक  
होन्नाली सर्किल, दावणगेर जिला  
कर्नाटक

श्री एस. समीउल्ला  
पुलिस उप निरीक्षक  
आसूचना, चित्रदुर्गा  
कर्नाटक

श्री प्रभाकर  
विशेष रिजर्व उप-निरीक्षक  
III बटालियन के एस आर पी, बंगलौर  
कर्नाटक

श्री टी.वी रामचन्द्रैया  
हेड कांस्टेबल  
संगठित अपराध विंग  
केन्द्रीय अपराध शाखा, बंगलौर सिटी  
कर्नाटक

श्री एच रामास्वामी  
हेड कांस्टेबल  
आसूचना, चामराजानगर  
कर्नाटक

श्री सी. एस. भूपन्ना  
हेड कांस्टेबल  
IX बटालियन केएसआरपी बंगलौर  
कर्नाटक

श्री टी.के.विनोद कुमार  
पुलिस महानिरीक्षक और उप निदेशक  
(स्था. एवं एसआर.सी) एस. वी. पी. एन. पी. ए.,  
हैदराबाद केरल

श्री योगेश गुप्ता  
पुलिस महानिरीक्षक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
केरल सिविल सप्लाई निगम लिमिटेड, कोच्चि  
केरल

श्री मनोज अब्राहम  
उप पुलिस महानिरीक्षक/  
जिला पुलिस प्रमुख  
तिरुवनंतपुरम शहर  
केरल

श्री जेकब जोब  
पुलिस अधीक्षक  
दूरसंचार, पट्टोम  
तिरुवनंतपुरम शहर  
केरल

श्री एम. मुरलीधरन नायर  
पुलिस अधीक्षक  
पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र  
एस सी आर बी, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम  
केरल

श्री सी. सोफी  
कमांडेंट  
के ए पी- v बटालियन, मणियार  
केरल

श्री के.एस. स्कारिया  
पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, विशेष सेल  
कोझीकोड  
केरल

श्री श्रीकुमार के. एस.  
सहायक पुलिस आयुक्त, नारकोटिक्स सेल  
तिरुवनंतपुरम शहर  
केरल

श्री के. सी. कुरियच्चन  
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक  
केएपी 4 बटालियन  
केरल

श्री पी. राजन  
सहायक उप निरीक्षक (ग्रेड-एस आई)  
एसबी सीआईडी, कन्नूर  
केरल

श्री विजयन के.  
सहायक उप निरीक्षक (ग्रेड- एस आई)  
सी आई कार्यालय, पर्य्यानूर  
केरल

श्री अनिल कुमार गुप्ता  
उप पुलिस महानिरीक्षक,  
होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद  
मध्य प्रदेश

श्रीमती मीनाक्षी शर्मा  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
नारकोटिक्स, इंदौर  
मध्य प्रदेश

श्री ए. साई मनोहर  
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन)  
पुलिस मुख्यालय भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री अरविन्द कुमार सक्सेना  
पुलिस अधीक्षक  
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री उमाशंकर गोस्वामी  
सेक्शन कमांडर  
13 वीं बटालियन, एस.ए. एफ. ग्वालियर  
मध्य प्रदेश

श्री रामसखा तिवारी  
सहायक उप निरीक्षक  
कटनी  
मध्य प्रदेश

श्री शम्भू सिंह चुण्डावत  
हेड कांस्टेबल  
मंदसौर जिला  
मध्य प्रदेश

श्री शिरोमणि सिंह यादव  
हेड कांस्टेबल  
सीआईडी ए / डी, दतिया  
मध्य प्रदेश

श्री दिनेश सिंह कुशवाह  
हेड कांस्टेबल  
17वीं बटालियन एस ए एफ भिण्ड  
मध्य प्रदेश

श्री गनी मोहम्मद  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस स्टेशन यातायात रतलाम  
मध्य प्रदेश

श्री राम शरण सिंह  
हेड कांस्टेबल  
24वीं बटालियन एस ए एफ जावरा, रतलाम  
मध्य प्रदेश

श्री अशोक कुमार पाठक  
हेड कांस्टेबल  
जिला सागर  
मध्य प्रदेश

कु. अज़रा काज़मी  
सूबेदार (एम)  
एस सी आर बी, पुलिस मुख्यालय भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री नरेंद्र कुमार गंगराडे  
सूबेदार (एम)  
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,  
पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश

श्री राजेश औदुंबर दुद्धलवार  
पुलिस निरीक्षक  
एसीबी, नागपुर  
महाराष्ट्र

श्री शिरीष शरद पालकर  
सहायक उप निरीक्षक (एम)  
विशेष शाखा, भोपाल पुलिस मुख्यालय  
मध्य प्रदेश

श्री दिपक नरसू ढोले  
पुलिस निरीक्षक  
एन एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई शहर  
महाराष्ट्र

श्री हरी सिंह यादव  
कांस्टेबल  
विशेष पुलिस स्थापना, ग्वालियर प्रभाग  
मध्य प्रदेश

श्री सुरेश एकनाथराव वानखेडे  
पुलिस निरीक्षक  
विशेष शाखा, औरंगाबाद शहर  
महाराष्ट्र

श्री अब्दुल नईम खान  
सहायक उप निरीक्षक (एम)  
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो  
भोपाल  
मध्य प्रदेश

श्री शैलेश प्रभाकर जाधव  
पुलिस निरीक्षक  
मानव संसाधन एस पी कार्यालय, नासिक ग्रामीण  
महाराष्ट्र

श्रीमती लता बिरबल शिरसाठ  
उपायुक्त  
एस आई डी, मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री अरूण शिवाजी वायकर  
पुलिस निरीक्षक  
एसीबी, पुणे  
महाराष्ट्र

श्री संजय आकाराम पाटील  
पुलिस निरीक्षक  
एल सी बी, रायगढ़  
महाराष्ट्र

श्री अरविंद सखाराम महाबदी  
सहायक पुलिस आयुक्त  
वकोला डिवीजन, मुंबई शहर  
महाराष्ट्र

श्री प्रदिप परशुराम कन्नलू  
पुलिस वायरलेस निरीक्षक  
सी पी, नवी मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री रविकांत दिगंबर मालेकर  
पुलिस निरीक्षक  
विठ्ठलवाडी पुलिस स्टेशन, ठाणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री भगवान रामचंद्र पाटील  
सहायक पुलिस निरीक्षक  
एसीबी, पुणे  
महाराष्ट्र

श्री रविंद्र जानेश्वर रातनजानकर  
पुलिस निरीक्षक  
एस आई डी, मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री सखाराम गोपाल देसाई  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
संगावी पुलिस स्टेशन, पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री माणिकराव रघुनाथ चाचे  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
पीसीआर, कोल्हापुर  
महाराष्ट्र

श्री विक्रम काशीनाथ उबाले  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
एम टी अनुभाग, औरंगाबाद शहर  
महाराष्ट्र

श्री उत्तम रामराव होलसाबरे  
सशस्त्र सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
एस आर पी एफ जी आर, XI नवी मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री शेख केदार शेख जब्बार शेख  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
एम टी अनुभाग, गोंदिया  
महाराष्ट्र

श्री मेहबुब अब्दुल शेख  
सशस्त्र सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
एस आर पी एफ जी आर VIII मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री वामन जिवबा गोडसे  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
यरवदा पुलिस स्टेशन पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री भोजराज गोकुल मालोदे  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
नागपुर शहर  
महाराष्ट्र

श्री पदमाकर दत्तात्रय नवरंगे  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
ओस्मानपुरा पुलिस स्टेशन  
औरंगाबाद शहर  
महाराष्ट्र

श्री प्रताप प्रभाकर कुलकर्णी  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
एसीबी, ओस्मानाबाद  
महाराष्ट्र

श्री सुरेश मुरलीधर खरात  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
दक्षिण नियंत्रण कक्ष, मुंबई शहर  
महाराष्ट्र

श्री ज्ञानदेव शिवराम म्हेत्रे  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
मुंधवा पुलिस स्टेशन, पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री चंद्रकांत बापू चव्हाण  
सहायक पुलिस उप निरीक्षक  
डी एस बी, ठाणे ग्रामीण  
महाराष्ट्र

श्री जगमोहनप्रसाद त्रिभुवनप्रसाद तिवारी  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
रेलवे नागपुर  
महाराष्ट्र

श्री सुरेश भाऊराव भालेकर  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
अग्नीपाडा पुलिस स्टेशन, मुंबई शहर  
महाराष्ट्र

श्री जामसिंग मानसिंग गिरासे  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
नियंत्रण कक्ष, नंदुरबार  
महाराष्ट्र

श्री किरण नामदेवराव इंगोले  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
रेलवे नागपुर  
महाराष्ट्र

श्री तेतूर्लियन थॉमस अल्फानसो  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
मुख्यालय सिंधुदुर्ग  
महाराष्ट्र

श्री बाबासाहेब अण्णासाहेब माने  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
एल सी बी, सांगली  
महाराष्ट्र

श्री रामचंद्र तुकाराम आमटे  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
जिला विशेष शाखा, बीड, एस पी कार्यालय  
महाराष्ट्र

श्री हनमंत महादेव ढेरे  
हेड कांस्टेबल  
पनवेल शहर पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री वसंत तात्याबा झणझणे  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
दादर रेलवे पुलिस स्टेशन, मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री उमराव कारू शरणागत  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
रामनगर पुलिस स्टेशन, गोंदिया  
महाराष्ट्र

श्री रविंद्र पदमाकर ठोंबरे  
हेड कांस्टेबल/ड्राइवर  
एम टी अनुभाग, सतारा  
महाराष्ट्र

श्री शहाजी पुंडलिक जाधव  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
विश्रामबाग पुलिस स्टेशन, सांगली  
महाराष्ट्र

श्री विष्णू गोपाल नागले  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
सगमेश्वर पुलिस स्टेशन, रत्नागिरी  
महाराष्ट्र

श्री किशोर गोविंद जोशी  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
एटीएस मुंबई  
महाराष्ट्र

श्री मंगेश कृष्णराव सुर्वे  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
सिंधुदुर्ग  
महाराष्ट्र

श्री पंढरीनाथ रामभाऊ ढाकणे  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
एम.टी. अनुभाग, पुलिस मुख्यालय, जालना  
महाराष्ट्र

श्री सुबाराव शंकर लाड  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
स्वारगेट पुलिस स्टेशन, पुणे शहर  
महाराष्ट्र

श्री एल काइलुन  
उप पुलिस महानिरीक्षक (रेंज-1)  
इम्फाल पश्चिम  
मणिपुर

श्री प्रकाश मानसिंग जाधव  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
एल सी बी सतारा  
महाराष्ट्र

श्री इशाक शाह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
बिष्णुपुर जिला  
मणिपुर

श्री रमेश महादेव नाईक  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
सांगली पुलिस स्टेशन  
महाराष्ट्र

श्री आर के तेजबीर सिंह  
निरीक्षक  
ओ सी/शहर पुलिस स्टेशन  
मणिपुर

श्री जेम्स अन्थोनी रेड्डी  
पुलिस हेड कांस्टेबल  
एम टी अनुभाग पुलिस मुख्यालय, बीड  
महाराष्ट्र

श्री सरागंथेम गोपेन्द्रो सिंह  
उप निरीक्षक  
नारकोटिक्स और सीमा संबंधी मामले  
मणिपुर

श्री एडिशन रॉय मावथो  
पुलिस अधीक्षक  
पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग  
मेघालय

श्री रिकी डखार  
पुलिस अधीक्षक  
पश्चिम गारो हिल्स, तुरा  
मेघालय

श्री चोवेनलाई संगमा  
निरीक्षक  
तुरा डी एस बी  
मेघालय

श्री पी.सी. लालछुअनोमा  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक  
पुलिस मुख्यालय, आइजोल  
मिजोरम

श्री एल.आर. दिगंलिआना साईलो  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र  
थेनझावल  
मिजोरम

श्री लालझुईमाविया  
निरीक्षक  
प्रथम बटालियन, मिजोरम सशस्त्र पुलिस  
मिजोरम

श्री रोथिहू टेट्सओ  
पुलिस अधीक्षक  
कोहिमा  
नागालैंड

श्री सेलिचेम सेजोंगमोंग सांगटम  
पुलिस अधीक्षक  
वोखा  
नागालैंड

श्री थेगुवोलहाऊली अंगामी  
हवलदार  
डी ई एफ, कोहिमा  
नागालैंड

डॉ. (श्रीमती) संतोष बाला  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
एन सी आर, तालचेर  
उड़ीसा

श्री दयानिधि गोछायत  
पुलिस अधीक्षक  
जिला खोरडा  
उड़ीसा

श्री रमेश चन्द्र बेहेरा  
पुलिस अधीक्षक  
सीआईडी, अपराध शाखा, कटक  
उड़ीसा

श्री सुरेन्द्र कुमार साहू  
उप कमांडेंट  
विशेष अभियान समूह, भुवनेश्वर  
उड़ीसा

श्री शशि भूषण मिश्र  
उप पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता निदेशालय, कटक  
उड़ीसा

श्री जयगोपाल परीजा  
उप पुलिस अधीक्षक  
सतर्कता निदेशालय, कटक  
उड़ीसा

श्री सरोज कुमार रथ  
उप पुलिस अधीक्षक  
सीआईडी, अपराध शाखा, कटक  
उड़ीसा

श्री क्षेत्रमोहन महापात्र  
उप पुलिस अधीक्षक  
एच आर पी सी, उड़ीसा, कटक  
उड़ीसा

श्री बिरेन्द्र कुमार सासमल  
सहायक कमांडेंट  
विशेष आसूचना स्कंध, यूनिट-IV, भुवनेश्वर  
उड़ीसा

श्री मुखविन्द्र सिंह छीना सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण और मुकदमाबाजी, चंडीगढ़ पंजाब	श्री राधानाथ नायक पुलिस निरीक्षक सुरक्षा स्कंध, भुवनेश्वर उड़ीसा
श्री सुरिन्द्र कुमार कालीया अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जालंधर पंजाब	श्री राज कुमार नेवार सूबेदार ओ एस ए पी, दूसरी बटालियन झारसुगुडा उड़ीसा
श्री हरमनबीर सिंह गिल कमाण्डेन्ट तीसरी आई आर बी, लुधियाना पंजाब	श्री नब किशोर महान्ति सूबेदार ओ एस ए पी, छठी बटालियन, कटक उड़ीसा
श्री प्रितपाल सिंह थिंद पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) सगरूर पंजाब	श्री चक्रधर महापात्र सहायक पुलिस उप निरीक्षक जिला जगतसिंगपूर उड़ीसा
श्री महीपाल निरीक्षक पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र, पटियाला पंजाब	श्री परिक्षित दाश हवलदार ए पी आर, आई आई टी, भुवनेश्वर उड़ीसा
श्री अजय कुमार सहायक उप निरीक्षक आसूचना मुख्यालय, चंडीगढ़ पंजाब	श्रीमती शशी प्रभा दिववेदी उप पुलिस महानिरीक्षक अपराध, चंडीगढ़ पंजाब
श्रीमती मलविन्द्र कौर सहायक उप निरीक्षक (महिला) यातायात स्टाफ, गुरदासपुर पंजाब	श्री अमित प्रसाद उपमहानिरीक्षक आईटीबीपी, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम पंजाब
श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर राजस्थान	श्री प्रमोद बाण उप पुलिस, महानिरीक्षक पटियाला रेंज, पटियाला पंजाब
श्री चन्द्र कान्त पन्त उप पुलिस अधीक्षक पुलिस दूर-संचार, जयपुर राजस्थान	श्री मोहम्मद फैआज फारूकी उपमहानिरीक्षक रूपनगर रेंज, रूपनगर पंजाब

श्री भगवाना राम विश्नोई  
हेड कांस्टेबल  
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर  
राजस्थान

श्री पेप सिंह राजपूत  
हेड कांस्टेबल  
1 बटालियन, आरएसी, जोधपुर  
राजस्थान

श्री मदन सिंह  
हेड कांस्टेबल  
रिजर्व पुलिस लाइन  
जयपुर संबद्ध पुलिस मुख्यालय, जयपुर  
राजस्थान

श्री बाला कृष्णन नायर  
कांस्टेबल/ड्राइवर  
8वीं बटालियन, आरएसी. (आईआर), गाजीपुर, दिल्ली  
राजस्थान

श्री शेर सिंह  
कांस्टेबल  
जिला विशेष शाखा  
जिला अलवर  
राजस्थान

श्री देवी सिंह  
कांस्टेबल  
अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय  
भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो, जयपुर  
राजस्थान

श्री भिम कुमार तामड.ग  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
उत्तर जिला मंगन  
सिक्किम

श्री दावा तामड.ग  
उप निरीक्षक  
सिक्किम सशस्त्र पुलिस  
सिक्किम

श्री अशोक कुमार पंजाबी  
निरीक्षक  
पुलिस दूर-संचार, जयपुर  
राजस्थान

श्री भारत सिंह  
पुलिस उप निरीक्षक  
एस एच ओ, मेहन्दवास पुलिस स्टेशन,  
जिला टोंक  
राजस्थान

श्री नाथू लाल  
पुलिस उप निरीक्षक  
सीआईडी (सीबी), डिसकॉम, जयपुर  
राजस्थान

श्री आसू सिंह  
प्लाटून कमाण्डर  
4 बटालियन, आरएसी, चैनपुरा, जयपुर  
राजस्थान

श्री लादू सिंह  
सहायक उप निरीक्षक  
एम ओ बी, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय  
सीकर जिला  
राजस्थान

श्री देवकी नन्दन शर्मा  
सहायक उप निरीक्षक  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय (मुख्यालय)  
अलवर जिला  
राजस्थान

श्री निरंजन गहलोत  
हेड कांस्टेबल  
अपराध शाखा, जिला जोधपुर  
राजस्थान

श्री सम्पत सिंह  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय  
रेलवे, जयपुर  
राजस्थान



श्री जी. वेंकटरमण  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
सेलम रेंज  
तमिलनाडु

श्री पी. मुरली  
पुलिस अधीक्षक  
राज्य मानवाधिकार आयोग, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एस. जयपाण्डियन  
पुलिस उपायुक्त  
कानून और व्यवस्था, त्रिची शहर  
तमिलनाडु

श्री ए. चंद्रशेखरन  
पुलिस अधीक्षक  
डिंडीगुल जिला  
तमिलनाडु

श्री एन. सिवानान्थम  
पुलिस उपायुक्त  
सशस्त्र रिजर्व, चेन्नई पुलिस  
तमिलनाडु

श्री के. बालराज  
कमांडेंट  
टीएसपी क्षेत्रीय केन्द्र आवडी, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एम. जैवियर बोनेवेन्चर स्टेनली  
उप पुलिस अधीक्षक  
साथनकुलम उप प्रभाग, तूथकुडी जिला  
तमिलनाडु

श्री पी. बालासुब्रमण्यन  
उप पुलिस अधीक्षक  
विशेष प्रभाग, एसआईयू, वेल्लोर जिला  
तमिलनाडु

श्री पी. पन्नीर सेलवम  
उप पुलिस अधीक्षक/उप प्रधानाचार्य  
पुलिस भर्ती स्कूल, पेरूरानी  
तमिलनाडु

श्री एम. गिरिधर  
उप पुलिस अधीक्षक  
नियंत्रण कक्ष  
पुलिस, महानिदेशक का कार्यालय, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एन पी. राजेंद्रन  
पुलिस निरीक्षक  
V-5, थिरुमंगलम एल एंड ओ पी एस  
अन्ना नगर जिला, चेन्नई पुलिस  
तमिलनाडु

श्री ई. सोरीमुथु  
पुलिस निरीक्षक  
विशेष कार्य बल, इरोड,  
तमिलनाडु

श्री के. रवि  
पुलिस निरीक्षक  
तमिलनाडु कमांडो फोर्स, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री एम. पलानियाप्पन  
पुलिस उप निरीक्षक  
विशेष शाखा, सेलम जिला  
तमिलनाडु

श्री पी. सुब्बैया  
पुलिस के विशेष उप निरीक्षक  
राजमार्ग गश्त निगरानी प्रकोष्ठ, मुख्यालय, चेन्नई  
तमिलनाडु

श्री जी सुन्दराराजन  
हेड कांस्टेबल  
अम्मापेट पुलिस स्टेशन, तंजावुर जिला  
तमिलनाडु

श्री प्रदीप पाल  
पुलिस अधीक्षक (प्रापण)  
ए.डी. नगर, अगरतला  
त्रिपुरा

श्रीमती रामा रक्षित  
पुलिस अधीक्षक (एम टी एफ)  
एम टी एफ संगठन, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम  
त्रिपुरा

श्री अरिंदम नाथ  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)  
अगरतला  
त्रिपुरा

श्री सौमित्र धर  
पुलिस अधीक्षक (सी आई डी)  
पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) का कार्यालय, अगरतला  
त्रिपुरा

श्री पिंटु देबबर्मा  
उप सभागीय पुलिस अधिकारी  
जिरानिया, त्रिपुरा  
त्रिपुरा

श्री सनत कुमार पाल  
पुलिस निरीक्षक आरओआई (पश्चिम)  
त्रिपुरा

श्री प्रनव सेनगुप्ता  
पुलिस निरीक्षक  
पश्चिम त्रिपुरा  
त्रिपुरा

श्री दीपेश चन्द्र दत्ता  
सूबेदार (जीडी)  
मुख्यालय, 1 बटालियन, टी एस आर  
गोकुल नगर, पश्चिम त्रिपुरा  
त्रिपुरा

श्री संजय कुमार भौमिक  
उप निरीक्षक  
कुमेरघाट पुलिस स्टेशन, उत्तर त्रिपुरा  
त्रिपुरा

श्री अभय कुमार प्रसाद  
पुलिस महानिरीक्षक  
कार्मिक, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री रवि कुमार लोकू  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
पी ए सी, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री जान सिंह  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
बस्ती रेंज, बस्ती  
उत्तर प्रदेश

श्री राम शंकर  
कमाण्डेन्ट  
44 बटालियन, पीएसी, मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री रतन कुमार श्रीवास्तव  
पुलिस अधीक्षक  
कांशीराम नगर  
उत्तर प्रदेश.

श्री विजय कुमार दीक्षित  
पुलिस अधीक्षक  
एस सी आर बी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

कु. श्रीपर्णा गांगुली  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला बाराबंकी  
उत्तर प्रदेश

श्री योगेश सिंह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री कृष्ण बहादुर सिंह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला मुजफ्फरनगर  
उत्तर प्रदेश

श्रीमती गीता सिंह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
एमएसपी, सीबी सीआईडी मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

- श्री महेश सिंह राना  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला बदायूं  
उत्तर प्रदेश
- श्री विनोद कुमार सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक/  
सहायक कमांडेंट  
49 बटालियन, मऊ  
उत्तर प्रदेश
- श्री राम प्रताप सिंह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट  
26 बटालियन पीएसी, गोरखपुर  
उत्तर प्रदेश
- श्री केहर सिंह राना  
उप पुलिस अधीक्षक  
एल आई यू, मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश
- श्री खिलावन लाल चौधरी  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला महोबा  
उत्तर प्रदेश
- श्री गंगा नाथ त्रिपाठी  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला बुलंदशहर  
उत्तर प्रदेश
- श्री खलीकुज्जमा खान  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला प्रतापगढ़  
उत्तर प्रदेश
- श्री श्रीकृष्ण  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला आगरा  
उत्तर प्रदेश
- श्री श्याम नाथ सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
एस सी आर बी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश
- श्री जगदीश शर्मा  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/  
उप कमांडेंट  
38 बटालियन पीएसी अलीगढ़,  
उत्तर प्रदेश
- श्री दिलीप कुमार  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला कुशी नगर  
उत्तर प्रदेश
- श्री रवीन्द्र नाथ राय  
उप पुलिस अधीक्षक  
रेलवे गोरखपुर  
उत्तर प्रदेश
- श्री राकेश प्रकाश सिंह  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश
- श्री अशोक कुमार पाण्डेय  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला हमीरपुर  
उत्तर प्रदेश
- श्री जय प्रकाश सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
पीटीसी, सीतापुर  
उत्तर प्रदेश
- श्री जगत राम जोशी  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला महामायानगर (हाथरस)  
उत्तर प्रदेश
- श्री हरीश कुमार  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
जिला वाराणसी  
उत्तर प्रदेश
- श्री बिजेन्द्र पाल सिंह  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री भगवान सिंह पोखरिया  
निरीक्षक (एम)  
डीआईजी पीएसी सेक्टर, बरेली  
उत्तर प्रदेश

श्री अर्जुन प्रसाद  
प्लाटून कमाण्डर  
27 बटालियन पीएसी, सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री वीरेन्द्र सिंह यादव  
उप-निरीक्षक  
जिला शाहजहाँपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री जय नारायण  
कांस्टेबल  
जिला मैनपुरी  
उत्तर प्रदेश

श्री जहांगीर खान  
कांस्टेबल (बिगुलर)  
12 बटालियन पीएसी, फतेहपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री कृष्ण पाल सिंह  
उप-निरीक्षक(एम)/स्टेनो  
सतर्कता स्थापना, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री लक्ष्मण कुमार तोमर  
उप-निरीक्षक  
जिला बाराबंकी, संबद्ध विशेष पूछताछ, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राम बाबू  
कांस्टेबल  
जिला पीलीभीत  
उत्तर प्रदेश

श्री महेन्द्र सिंह  
उप-निरीक्षक  
जिला बरेली  
उत्तर प्रदेश

श्री शशि कान्त राय  
कांस्टेबल  
जिला महाराजगंज  
उत्तर प्रदेश

श्री वाजिद अली  
कांस्टेबल  
जिला गोरखपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री बालक राम  
उप-निरीक्षक (एम)  
एस पी(आर) आसूचना, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री बुद्ध सिंह  
कांस्टेबल  
जिला मेरठ  
उत्तर प्रदेश

श्री महेन्द्र सिंह  
उप-निरीक्षक (अध्यापक)  
12 बटालियन पीएसी, फतेहपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री कमलेश्वर सिंह  
कांस्टेबल  
जिला फैजाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री राम नारायण  
कांस्टेबल  
जीआरपी आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री रमा शंकर दीक्षित  
कांस्टेबल  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री सैयद अलमदार हुसैन रिज़वी  
निरीक्षक  
यू.पी.पी.सी.एल. लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री विश्वनाथ राम उप पुलिस अधीक्षक जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश	श्री मोहम्मद मोसिम प्लाटून कमाण्डर 43 बटालियन, पीएसी, एटा उत्तर प्रदेश
श्रीमती शकुंतला देवी उप पुलिस अधीक्षक जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश	श्री अहिबरन सिंह हेड कांस्टेबल 45 बटालियन, पीएसी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश
श्री अवध बिहारी उप पुलिस अधीक्षक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री गोबर्धन उपाध्याय हेड कांस्टेबल (एम टी) जिला देवरिया उत्तर प्रदेश
श्री विक्रम सिंह उप पुलिस अधीक्षक जिला रामपुर उत्तर प्रदेश	श्री महावीर सिंह प्लाटून कमाण्डर 8 बटालियन, पीएसी, बरेली उत्तर प्रदेश
श्री इकबाल सिंह मलिक उप पुलिस अधीक्षक जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश	श्री अब्दुल जलील कांस्टेबल (झाड़वर) जीआरपी, झांसी उत्तर प्रदेश
श्री जवाहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला देवरिया उत्तर प्रदेश	श्री बाबू लाल यादव कंपनी कमांडर 36 बटालियन, पीएसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश
श्री अनिल कुमार सिंह उप पुलिस अधीक्षक/उप कमांडेंट 36 बटालियन पीएसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश	श्री भृगु नाथ सिंह प्लाटून कमाण्डर 02 बटालियन पीएसी, सीतापुर उत्तर प्रदेश
श्री कृपा शंकर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी बी सी आई डी मुख्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री रति राम कांस्टेबल जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी बी सी आई डी मुख्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री सत्यवीर उप निरीक्षक जिला बरेली उत्तर प्रदेश

श्री देवी शरण सिंह  
हेड कांस्टेबल  
एटीएस मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह  
उप निरीक्षक  
जिला बाराबंकी  
उत्तर प्रदेश

श्री मुबीन मियां  
रेडियो स्टेशन अधिकारी  
जिला शाहजहाँपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री मुरारी लाल  
रेडियो स्टेशन अधिकारी  
रेडियो मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री रघु नाथ सिंह  
हेड कांस्टेबल  
27 बटालियन, पीएसी, सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री लल्लन प्रसाद मिश्रा  
उप निरीक्षक (एम)  
पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री रिजवानुल्लाह  
कांस्टेबल  
जिला देवरिया  
उत्तर प्रदेश

श्री सूरज पाल  
हेड कांस्टेबल  
38 बटालियन, पीएसी अलीगढ़,  
उत्तर प्रदेश

श्री राजेन्द्र सिंह  
हेड कांस्टेबल  
15 बटालियन, पीएसी, आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री जनार्दन राय  
उप निरीक्षक  
चंदौली  
उत्तर प्रदेश

श्री राजेश कुमार पाठक  
हेड कांस्टेबल  
जिला मथुरा, सम्बद्ध आईजी रेंज आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रभात कुमार सिंह  
प्रमुख संचालक  
जिला सुल्तानपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह  
कांस्टेबल (ड्राइवर)  
एसटीएफ लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राज कुमार ओबेराय  
उप निरीक्षक (एम)  
आईजी रेंज, कानपुर  
उत्तर प्रदेश

श्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया  
उप निरीक्षक (एम)/स्टेनो  
सी बी, सी आई डी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री योगेन्द्र नाथ त्रिपाठी  
कांस्टेबल (एमटी)/ड्राइवर  
आसूचना मुख्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री राज नारायण शुक्ला  
कांस्टेबल  
जिला मथुरा, सम्बद्ध आईजी रेंज आगरा  
उत्तर प्रदेश

श्री शान्ति स्वरूप  
कांस्टेबल  
जिला गाजियाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री रनवीर सिंह हेड कांस्टेबल 45 बटालियन, पी ए सी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश	श्री कन्हई लाल कांस्टेबल (ड्राइवर) 11 बटालियन पीएसी, सीतापुर उत्तर प्रदेश
श्री सूर्य प्रकाश यादव कांस्टेबल जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश	श्री तेज बहादुर सिंह उप-निरीक्षक जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश
श्री रमा कान्त पाण्डेय उप निरीक्षक जिला प्रतापगढ़ सम्बद्ध पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	श्री राम सिंह पवार उप-निरीक्षक जिला खीरी उत्तर प्रदेश
श्री स्वतेन्द्र प्रकाश सिंह कांस्टेबल जिला गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश	श्री सुबराती खान हेड कांस्टेबल 25 बटालियन पीएसी, रायबरेली उत्तर प्रदेश
श्री करम अली कांस्टेबल जिला जालौन उत्तर प्रदेश	श्री सुघर सिंह हेड कांस्टेबल 43 बटालियन पीएसी, एटा उत्तर प्रदेश
श्री सुभाष चन्द्र तिवारी कांस्टेबल आसूचना मुख्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश	श्री जमीरूल हसन उप-निरीक्षक जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश
श्री सुरेश सिंह यादव हेड कांस्टेबल 37 बटालियन पीएसी, कानपुर उत्तर प्रदेश	श्री चन्द्र शेखर कौशिक उप-निरीक्षक जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश
श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव उप-निरीक्षक (एम) पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	श्री शिव चरण सिंह हेड कांस्टेबल (एम.टी.) 44 बटालियन पीएसी, मेरठ उत्तर प्रदेश
श्री जगदीश प्रसाद वर्मा उप-निरीक्षक जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश	श्री विजय नारायण सिंह उप-निरीक्षक (एम)/स्टेनो ए सी ओ मुख्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश

श्री जयेन्द्र सिंह सजवान  
प्लाटून कमांडर  
8 बटालियन पीएसी, बरेली  
उत्तर प्रदेश

श्रीमती सत्या सिंह  
उप-निरीक्षक  
इ ओ डब्ल्यू, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री अनन्त राम चौहान  
पुलिस अधीक्षक  
जिला चमोली,  
उत्तराखण्ड

श्री विजय पाल सिंह  
पुलिस अधीक्षक  
कानून और व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय, देहरादून  
उत्तराखण्ड

श्री राम सरण जयन्त  
उप पुलिस अधीक्षक  
जिला अल्मोड़ा  
उत्तराखण्ड

श्री राजेन्द्र प्रसाद बलूनी  
उप पुलिस अधीक्षक/  
सीएसओ, माननीय मुख्यमंत्री  
उत्तराखण्ड

श्री धनी राम  
उप पुलिस अधीक्षक/सहायक कमांडेंट  
31 बटालियन, पीएसी, रुद्रपुर  
उत्तराखण्ड

श्री प्रभात चन्द्र शर्मा  
उप-निरीक्षक (एम)/स्टेनो  
पुलिस मुख्यालय, देहरादून  
उत्तराखण्ड

श्रीमती चेलिंग सिमिक लेपचा  
विशेष पुलिस अधीक्षक  
उत्तरी बंगाल स्कंध, सिलीगुड़ी  
पश्चिम बंगाल

श्री श्यामा कान्त त्रिपाठी  
निरीक्षक  
जीआरपी, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री प्रताप नारायण गुप्ता  
उप-निरीक्षक (एम)  
जिला सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री निर्मल कुमार पंत  
ए.डी.जी. एस.आई.टी. के डी.आई.एम./सीए  
विशेष जांच दल, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार  
कांस्टेबल/ड्राइवर  
जिला मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री अतर बाज  
हेड कांस्टेबल  
2 बटालियन पीएसी, सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री अमर पाल सिंह  
उप-निरीक्षक  
जिला मुरादाबाद  
उत्तर प्रदेश

श्री वीर सिंह  
निरीक्षक  
जिला सीतापुर  
उत्तर प्रदेश

श्री यशवीर सिंह  
निरीक्षक  
जिला बदायूं  
उत्तर प्रदेश

श्री भगवान सहाय  
निरीक्षक  
जिला शाहजहाँपुर  
उत्तर प्रदेश



श्री जावेद सामिम संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री शंकर चौधुरी उप पुलिस निरीक्षक वायरलेस शाखा, लालबाजार, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री बरुण कुमार मल्लिक विशेष पुलिस महानिरीक्षक और डीआईजीपी यातायात मुख्यालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री कमल कुमार थापा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात विभाग, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्रीमती सरबरी भट्टाचार्य (घोष दस्तीदार) पुलिस निरीक्षक सीआईडी पश्चिम बंगाल	श्री ब्रजेन्द्र मोहन दत्त सशस्त्र उप निरीक्षक सदर यातायात पश्चिम बंगाल
श्री महबूबल आलम सहायक पुलिस आयुक्त एचक्यूएफ, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री लक्ष्मी कान्त मंडल कांस्टेबल डीएपी पश्चिम बंगाल
श्री शोभेन बनर्जी पुलिस निरीक्षक 3 बटायिलन के ए पी, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री मोहन लाल पाठक सहायक उप पुलिस निरीक्षक मुख्यालय बल, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री अशोक कुमार गुरुंग उप निरीक्षक डीआईजी कार्यालय, एपी सेल, बैरकपुर पश्चिम बंगाल	श्री कार्तिक चन्द्र बोस कांस्टेबल राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता पश्चिम बंगाल
श्री अर्धेन्दु कुमार बसु सहायक पुलिस आयुक्त 6 बटालियन के ए पी, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री सत्य नारायण डे सहायक उप निरीक्षक(यू.बी.) पीटीसी बैरकपुर पश्चिम बंगाल
श्री तपन कुमार राय उप पुलिस अधीक्षक सीआईडी पश्चिम बंगाल	श्री राज कुमार मैती सहायक उप - निरीक्षक रिजर्व ऑफिस, बांकुरा पश्चिम बंगाल
श्री अशोक भट्टाचार्य पुलिस निरीक्षक आसूचना शाखा, कोलकाता पश्चिम बंगाल	श्री गौस-ई-फिरदौस पुलिस सूबेदार 7 बटालियन, कोलकाता सशस्त्र पुलिस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

श्री लक्ष्मी कर्मकार  
पुलिस ड्राइवर  
आसूचना शाखा, कोलकाता  
पश्चिम बंगाल

श्री राजा किस्कु  
पुलिस सूबेदार  
4 बटालियन, के ए पी  
पश्चिम बंगाल

श्री दिलबाग सिंह  
हेड कांस्टेबल  
पुलिस मुख्यालय  
चडीगढ़

श्री पटेल भगवानजी रणछोड़जी  
उप पुलिस निरीक्षक  
मसत ओपी  
दादरा और नगर हवेली

श्री अजय कुमार  
पुलिस अधीक्षक  
कावारत्ती  
लक्षद्वीप

श्री ए कृष्णराज  
उप पुलिस निरीक्षक  
लाउसपेट पुलिस स्टेशन  
पुडुचेरी

श्री राधाकृष्णन नायर  
सेकेण्ड-इन्-कमाण्ड  
मंत्रीपुकरी, मणिपुर  
मुख्यालय आई जी ए आर, दक्षिण, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री राजशेखर नायक पन्डपा,  
उप कमांडेंट  
ट्रांजिट कैम्प, दिमापुर  
असम राइफल्स

श्री मनबीर सिंह  
सहायक कमांडेंट  
मंत्रीपुकरी, मणिपुर  
मुख्यालय आई.जी.ए.आर., दक्षिण, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री पदम प्रसाद उपाध्याय  
सहायक कमांडेंट  
दीमापुर, नागालैंड, नंबर 1 मैन्ट. ग्रुप  
असम राइफल्स

श्री पाऊखागिन गांगटे  
सूबेदार मेजर (क्लर्क)  
कोहिमा, नागालैंड  
मुख्यालय आई.जी.ए.आर. (उत्तर), सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री भूपाल सिंह  
सूबेदार (ओ आर एल)  
मुख्यालय 26 सेक्टर, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री मनद्योज घाले  
सूबेदार मेजर  
तुएनसांग, नागालैंड, 1st असम राइफल्स सी/ओ  
99 ए पी ओ असम राइफल्स

श्री भुवन दत्त भट्ट  
नायब सूबेदार (जी डी)  
6 असम राइफल्स, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री राधे श्याम मंडल  
नायब सूबेदार (क्लर्क)  
6 असम राइफल्स, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री प्रीतम सिंह  
सूबेदार (क्लर्क)  
मोकोकचुंग, 9 असम राइफल्स, सी/ओ 99 ए पी ओ  
असम राइफल्स

श्री सर्वेश कुमार त्यागी  
नायब सूबेदार (जी डी)  
थीनघाट, चुराचांदपुर, मणिपुर  
असम राइफल्स

श्री केदार सिंह कार्की  
सूबेदार (जी डी)  
38 असम राइफल्स, आइना, मणिपुर  
असम राइफल्स

श्री बिष्णु प्रसाद सुबेदी  
नायब सूबेदार (क्लर्क)  
एल.ओ.आर. दिल्ली  
असम राइफल्स

श्री राम बालक सिंह  
सूबेदार मेजर  
शिलांग  
असम राइफल्स

डॉ. इन्द्रजीत  
उपमहानिरीक्षक (संचार)  
एफ टी आर मुख्यालय बीएसएफ कश्मीर,  
सनतनगर, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)  
सीमा सुरक्षा बल

डॉ. कोराबाथिना नरसिंम्हा राव  
उपमहानिरीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक  
कम्पोजिट अस्पताल,  
पी.ओ. जेमाबाऊक, आइजोल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेश चन्द्र यादव  
उप महानिरीक्षक  
बीएसएफ अकादमी टेकनपुर  
ग्वालियर, मध्य प्रदेश  
सीमा सुरक्षा बल

श्री महेन्द्र सिंह देव  
उप महानिरीक्षक  
एफ एच क्यू, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री जितेन्द्र कुमार रूडोला  
उप महानिरीक्षक  
फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरजीत सिंह  
उप महानिरीक्षक  
एफ एच क्यू, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पुशपेंदर सिंह राठोड  
उप महानिरीक्षक  
फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अर्जुन सिंह राठौड  
कमांडेंट  
एस एच क्यू बीएसएफ जैसलमेर (दक्षिण) डाबला  
जिला जैसलमेर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मोहम्मद बिलाल खान  
कमांडेंट  
192 बटालियन, श्रीगंगानगर, राजस्थान  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुरेश चन्द्र यादव  
कमांडेंट  
मुख्यालय 182 बटालियन बीएसएफ, सी/ओ 56 एपीओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रणवीर सिंह शक्तावत  
कमांडेंट  
एफ एच क्यू, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अजित कुमार टेटे  
कमांडेंट (ऑप्स)  
मुख्यालय विशेष महानिदेशक (पूर्व)  
कोलकाता, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री राजीव रंजन शर्मा  
कमांडेंट

एस एच क्यू बीएसएफ गुवाहाटी, पोस्ट-हजारा  
जिला कामरूप, गुवाहाटी, असम  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुनाल मजूमदार  
कमांडेंट

सी एस एम टी बी एस एफ टेकनपुर  
ग्वालियर, मध्य प्रदेश  
सीमा सुरक्षा बल

श्री के.एच. नितोवी सेमा  
कमांडेंट

111 बटालियन, बीएसएफ, सताखा (नागालैंड)  
सी/ओ 99 ए पी ओ सीमा सुरक्षा बल

डॉ.(श्रीमती) नीरजा कुमारी चौहान  
कमांडेंट (मेडिकल)/चीफ मेडिकल ऑफिसर (एस जी)  
कम्पोजिट अस्पताल  
बीएसएफ कैम्पस, जालंधर कैण्ट, पंजाब  
सीमा सुरक्षा बल

डॉ दुरगा प्रसाद पटनायक  
कमांडेंट (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी)  
एफ टी आर मुख्यालय बीएसएफ त्रिपुरा, सालबगान  
अगरतला, त्रिपुरा (पश्चिम)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री अरविन्द दत्त अब्दाली  
उप कमांडेंट (आईटी)

आईटी विंग, एफ एच क्यू बीएसएफ, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री त्रिबेणी कुमार महापात्रा  
उप कमांडेंट

10 बटालियन बीएसएफ राधाबरी, पीओ - भुटकी दंगपा  
जिला जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल  
सीमा सुरक्षा बल

श्री मनमोहन सिंह रावत

उप कमांडेंट 173 बटालियन, ओल्ड एयर फील्ड,  
तुरियल पीओ-जेमबाक  
जिला आइजोल

श्री मो. शाने आहमद  
उप कमांडेंट (प्रोव.)

मुख्यालय महानिदेशक बीएसएफ सीजीओ परिसर,  
लोधी रोड, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल

श्री मुरली सिंह तंवर

उप कमांडेंट

43 बटालियन बी एस एफ, पी ओ ममदोत,  
जिला-फिरोजपुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल

श्री लखविन्दर सिंह साही

उप कमांडेंट

73 बटालियन बीएसएफ, अम्बासा, पीओ - अम्बासा,  
जिला त्रिपुरा (पश्चिम)  
सीमा सुरक्षा बल

श्री नरेन्द्र पाल सिंह

उप कमांडेंट/डी जी, बी एस एफ के एस ओ  
मुख्यालय महानिदेशक बीएसएफ सीजीओ परिसर,  
नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल

श्री एल खोजेतो सेमा

सहायक

कमांडेंट 111 बटालियन बीएसएफ सताखा, नागालैंड  
सी/ओ 99 ए पी ओ सीमा सुरक्षा बल

श्री गिरीश चन्द्र जोशी

उप कमांडेंट

193 बटालियन बीएसएफ, आर एस पुरा,  
सी/ओ 56 ए पी ओ सीमा सुरक्षा बल

श्री हेमराज सोनी

सहायक कमांडेंट

150 बटालियन  
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुखवीर सिंह

सहायक कमांडेंट (टेक)

एस टी एस बीएसएफ बंगलूरू  
पोस्ट-येलाहंका, बंगलूरू, कर्नाटक  
सीमा सुरक्षा बल

श्री जरनैल सिंह डडवाल सहायक कमांडेंट 148 बटालियन सीमा सुरक्षा बल	श्री बलजीत सिंह निरीक्षक 30 बटालियन बीएसएफ, फल्लियन वाला, जलालाबाद सीमा सुरक्षा बल
श्री बाबु थोमस सहायक कमांडेंट एसटी एस, बी एस एफ बंगलूरु पोस्ट-येलाहंका, बंगलूरु, कर्नाटक सीमा सुरक्षा बल	श्री सूरज भान यादव निरीक्षक 65 बटालियन बीएसएफ खासा, पीओ - छेहराता जिला अमृतसर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल
श्री बास्करन अशोकन सहायक कमांडेंट (पी एस) मुख्यालय महानिदेशक, बीएसएफ, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री रंजीत सिंह बिष्ट निरीक्षक एस एच क्यू बीएसएफ बीकानेर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल
श्री टी वी बालन सहायक कमांडेंट (मिन.) एफ टी आर, एच क्यू बीएसएफ बंगलूरु एयर फोर्स स्टेशन पी.ओ. येलाहंका, बंगलूरु सीमा सुरक्षा बल	श्री सतीश चन्द कटोच निरीक्षक 153 बटालियन बीएसएफ सीकर जिला गुरदासपुर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल
श्री हरि प्रसाद थापलियाल निरीक्षक 22 बटालियन बी एस एफ पी.ओ. आलमगंज जिला धुबरी, असम सीमा सुरक्षा बल	श्री नाहर सिंह निरीक्षक 195 बटालियन पीओ - पोखरन, जिला जैसलमेर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल
श्री भोला सिंह निरीक्षक सी एस डब्ल्यू टी बीएसएफ, इंदौर, मध्य प्रदेश सीमा सुरक्षा बल	श्री इन्द्र सिंह निरीक्षक 13 बटालियन बीएसएफ कोइरेंगी, इम्फाल, मणिपुर सीमा सुरक्षा बल
श्री राम कृष्ण चटर्जी निरीक्षक 12 बटालियन बीएसएफ, सीमानगर कैम्पस, पीओ. सीमानगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा बल	श्री पी एल कुमारेसन निरीक्षक (टेक) एस टी एस बीएसएफ बंगलूरु येलाहंका बंगलूरु सीमा सुरक्षा बल
श्री जगराम सिंह यादव निरीक्षक (मिन.) 33 बटालियन बीएसएफ, हिसार, हरियाणा सीमा सुरक्षा बल	श्री राज कुमार निरीक्षक (साइफर) एस एच क्यू, भुज, कच्छ (गुजरात) सीमा सुरक्षा बल

श्री निर्मलजीत सिंह  
हेड कांस्टेबल  
एसयू, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री रघुविन्दर सिंह  
हेड कांस्टेबल  
एस सी-III, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री मुंशी लाल  
हेड कांस्टेबल  
एसयू, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री लक्ष्मी चन्द  
कांस्टेबल  
एसयू, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री आई.बी. श्रीनिवासन  
कांस्टेबल  
एसीबी, कोचीन  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री संजय कुमार भट्ट  
कांस्टेबल  
एसी-II, नई दिल्ली  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अजय कुमार  
वरिष्ठ कमांडेंट  
बी एस पी, भिलाई  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री शुभालोक सरकार  
वरिष्ठ कमांडेंट  
बी सी सी एल-सी सी डब्ल्यू ओ, धनबाद  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री प्रकाश कुमार  
सहायक महानिरीक्षक  
डब्ल्यू एस हेडक्वार्टर्स, नवी मुंबई  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मोहिन्द्र सिंह  
उप-निरीक्षक (जी)  
मुख्यालय महानिदेशक, बीएसएफ, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री बूटा सिंह  
उप-निरीक्षक  
25 बटालियन छावला कैम्प, पीओ-छावला, नई दिल्ली  
सीमा सुरक्षा बल

श्री गणेश टुडू  
उप-निरीक्षक  
82 बटालियन पीओ-करहल्ली  
जिला बंगलूरु, कर्नाटक  
सीमा सुरक्षा बल

श्री कृष्ण बिहारी दुबे  
सहायक उप-निरीक्षक (फार्मासिस्ट)  
सी एस डब्ल्यू टी बीएसएफ, इंदौर, मध्य प्रदेश  
सीमा सुरक्षा बल

श्री रघुनाथ सिंह  
कांस्टेबल (धोबी)  
04 बटालियन बीएसएफ निशात, सी/ओ 56 ए पी ओ  
सीमा सुरक्षा बल

श्री पदमा कुमार एल एस  
अपर पुलिस अधीक्षक  
एसीबी, चेन्नई  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री नागेन्द्र प्रसाद  
अपर पुलिस अधीक्षक  
एसीबी, कोलकाता  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सी.एस. मोनी  
उप पुलिस अधीक्षक  
एसीबी, कोचीन  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री महेश कुमार पुरी  
उप पुलिस अधीक्षक  
एसीबी, शिमला  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सूर्यकांत खण्डेराव अडगुले कमांडेंट जी पी हेडक्वार्टर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री मनीष शर्मा निरीक्षक/एकज्युक्तिव एन आई एस ए, हैदराबाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री भीम सेन वशिष्ठ कमांडेंट (लोकल रैंक) आई ओ सी जीआर, बड़ोदा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री मुकुल कुमार सिन्हा निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट बीएसएल बोकारो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री के. कोरप्पन उप कमांडेंट (लोकल रैंक) बीपीसीएल (के.आर.) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री संजय मेहता सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) पांचवीं आर बी, गाजियाबाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री पोडीमट्टम करियन जॉ उप कमांडेंट (लोकल रैंक) सीआईएसएफ यूनिट एसएसपी सेलम, तमिलनाडु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री ओ राजेन्द्रन नायर निरीक्षक/मिन. नॉर्थ सेक्टर, मुख्यालय दिल्ली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री गौतम नन्दी पुराकास्था उप कमांडेंट (लोकल रैंक) ओ आई एल दुलियाजान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री विप्लव कुमार साहा निरीक्षक/स्टेनो सीआईएसएफ ई एस हेडक्वार्टर्स पटना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री विनय कुमार शर्मा सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) सीआईएसएफ यूनिट हवाई अड्डा भुन्तार जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री नलवाडे जे.बी. उप निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट, ओएनजीसी मुंबई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री ई तनिगाचलम निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट एस डी एस सी शार श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री राजेन्द्र सिंह उप निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी नजीरा जिला शिवसागर, असम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री आर बालाशणमुगम निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट एनएलसी नेवेली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री गणेश चन्द्र मोहान्ती उप निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ ए एस जी, आई जी आई ए, नई दिल्ली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
श्री हरि केश मीणा निरीक्षक/एकज्युक्तिव सीआईएसएफ यूनिट आर सी एफ एल मुंबई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	श्री दीपक चन्द्रा डेका हेड कांस्टेबल (जीडी) सीआईएसएफ यूनिट ओएनजीसी नजीरा जिला शिवसागर, असम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री लाल सिंह बिष्ट  
हेड कांस्टेबल  
सीआईएसएफ यूनिट इस्तारक  
लखनऊ सेक्टर-सी  
जानकीपुरम, उत्तर प्रदेश  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री एस चिन्नायन  
हेड कांस्टेबल/जी डी  
यूनिट एनएलसी नेवेली, जी-14 जे एन सलाई  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री जगत राम  
हेड कांस्टेबल/जी डी  
डी ए ई, कलपक्कम  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अप्पोजी अरुणाचलम  
हेड कांस्टेबल/जी डी  
सीआईएसएफ यूनिट, रेयर मैटीरियल्स प्रोजेक्ट,  
मैसूर, कर्नाटक  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिरमा राम बिशनोई  
हेड कांस्टेबल  
सीआईएसएफ आरटीसी देवली, जिला टोंक, राजस्थान  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राम सुन्दर मिश्रा  
हेड कांस्टेबल/जी डी  
सीआईएसएफ यूनिट बीसीसीएल सी सी डब्ल्यू ओ, धनबाद  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सलीला बिहारी दासमहापात्र  
सहायक उप निरीक्षक/एकज्युक्तिव  
सीआईएसएफ यूनिट बीसीसीएल सी सी डब्ल्यू ओ, धनबाद  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री उज्जल कुमार दत्ता  
कांस्टेबल/कुक्  
सीआईएसएफ इकाई ओएनजीसी नजीरा  
जिला सिवसागर, असम  
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री रमेश चन्द तयाल  
पुलिस महानिरीक्षक  
मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र, इम्फाल  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम निवास यादव  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप सेंटर, अमेठी (जीसी लखनऊ शिविर)  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम चरित्र  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप सेंटर-1, अजमेर, राजस्थान  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार कनौजिया  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
ग्रुप सेंटर, पुराना एयरपोर्ट पंडिला,  
पीओ इस्माइलगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गोपाल लाल मीना  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
केन्द्रीय क्षेत्र मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जेनामणी प्रदीप कुमार रे  
उप पुलिस महानिरीक्षक  
अगरतला रेंज, अगरतला (त्रिपुरा)  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

डा. विजय बहादुर  
उप पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा)  
कम्पोजिट अस्पताल  
रामपुर, उत्तर प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

डा. धन्नजय पिन्गुआ  
उप पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा)  
कम्पोजिट अस्पताल, अहमदाबाद, गुजरात  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल



श्री ए मनी कमांडेंट ग्रुप केन्द्र, अवाडी, चेन्नई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री जसपाल सिंह मिन्हास सेकण्ड- इन- कमांड उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, रेंज कार्यालय जालंधर, पंजाब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री राज कुमार डागर कमांडेंट 160 बी एन जम्मू, जम्मू और कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री भानी सहाय सेकण्ड-इन-कमांड उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, रेंज नीमच नीमच, मध्य प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री कृष्ण गोपाल शर्मा कमांडेंट 213 (एम) बी एन, जीसी II कैम्पस, अजमेर, राजस्थान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री सुरेश कुमार सेकण्ड-इन-कमांड 70 बी एन, बवाना शिविर, नई दिल्ली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री अरविन्दर सिंह कमांडेंट 129 बी एन ए पी ओ - बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह चौहान सेकण्ड-इन-कमांड 174 बी एन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री एस एम विनोद विजय कमांडेंट 154 बी एन बडगाम, जम्मू एवं कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री देवी लाल मीना सेकण्ड-इन-कमांड 148 बी एन, साहूपुरी चंदौली, उत्तर प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री हरशरनजीत सिंह कमांडेंट ग्रुप केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री बलबीर सिंह उप कमांडेंट 45 बी एन, सुम्बल, जम्मू और कश्मीर, सी/ओ 56 ए पी ओ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री बृद्धदेव दास कमांडेंट ग्रुप केन्द्र, रामपुर, उत्तर प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री नीमा लामा उप कमांडेंट ग्रुप सेन्टर, दुर्गापुर अमरावती, पश्चिम बंगाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
डॉ. चंद्रसेखर शिवरूद्रप्पा अलबल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सलेक्शन ग्रेड) कम्पोजिट अस्पताल, येलाहंका, बंगलौर, कर्नाटक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री नारायण चंद्र साह उप कमांडेंट 107 बी एन आरएएफ, पीओ बंग्यासिया भोपाल जिला, मध्य प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार डागर  
उप कमांडेंट  
112 बी एन, ए पी ओ अवन्तिपुरा  
जिला पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कैलाश चन्द  
उप कमांडेंट  
ग्रुप केन्द्र, नीमच, मध्य प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री निर्मल सिंह  
सहायक कमांडेंट  
5 सिग्नल बी एन, हल्लोमाजरा चंडीगढ़  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कृष्ण सिंह यादव  
सहायक कमांडेंट  
157 बी एन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गुरमीत सिंह  
सहायक कमांडेंट  
67 बी एन, शिलांग, मेघालय  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रामजी लाल  
सहायक कमांडेंट  
144 बी एन, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आर ईलांगोवन  
सहायक कमांडेंट  
ग्रुप केन्द्र, बंग्रासिया  
भोपाल, मध्य प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पी. राघवन  
अनुभाग अधिकारी  
वित्त शाखा बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गौरी शंकर शुक्ल  
प्रशासनिक अधिकारी  
ग्रुप केन्द्र, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी मधुशुधनन नायर  
प्रशासनिक अधिकारी  
केन्द्रीय क्षेत्र मुख्यालय, गोमती नगर,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री टी वेलायुधन  
वरिष्ठ निजी सचिव  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अरविन्द कुमार निगम  
वरिष्ठ निजी सचिव  
प्रोविजनिंग ब्रांच, बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री समरेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय  
सूबेदार मेजर (कार्यालय अधीक्षक)  
ग्रुप सेन्टर, तेलगाँव, पुणे, महाराष्ट्र  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री धरम सिंह  
निरीक्षक  
ग्रुप सेन्टर, केशोगिरि (पीओ)  
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मुखतियार सिंह  
निरीक्षक  
133 बी एन, सेक्टर -2, धुर्वा, रांची  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम सिंह  
निरीक्षक  
182 बी एन, पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलबीर चन्द निरीक्षक 138 बी एन, सिंकीव्यू, ईटानगर पपुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री दलजीत सिंह उप निरीक्षक 177 बी एन, सोपोर जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री मिथिलेश कुमार सिंह निरीक्षक 174 बी एन, संत नगर श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री श्री राम प्रसाद उप निरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार क्षेत्र पीओ आशियाना नगर, पटना, बिहार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री देश राज सिंह निरीक्षक ग्रुप सेन्टर ग्रैंटर नोएडा, उत्तर प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री लालू प्रसाद सिंह उप निरीक्षक विशेष महानिदेशक का कार्यालय, सेंट्रल जोन, कोलकाता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री नित्या नन्द सिंह निरीक्षक (रेडियो ऑपरेटर) सीटीसी (टी एंड आईटी), पीओ - धुर्वा राँची, झारखंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री सुरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक ग्रुप सेन्टर, बंग्रासिया भोपाल, मध्य प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्रीमती के. मालति निरीक्षक (मिन.) ग्रुप केन्द्र, पल्लीपुरम, केरल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री मोहम्मद हुसैन लोन उप निरीक्षक विशेष महानिदेशक का कार्यालय, सेंट्रल जोन, कोलकाता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री राजेन्द्र प्रसाद उप निरीक्षक 180 बी एन, पुलवामा जिला, जम्मू और कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री वन्सीधर साहु उप निरीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, भुवनेश्वर रेंज भुवनेश्वर, उड़ीसा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री पकरी चिदम्बरम उप निरीक्षक 182 बी एन, पुलवामा जिला, जम्मू व कश्मीर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री बिशन दास उप निरीक्षक 22 बी एन, हजारीबाग, झारखंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
श्री एच.डी. बसवय्या उप निरीक्षक ग्रुप केन्द्र, येलाहंका, बंगलूरु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	श्री कुलदीप सिंह उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) सी आई ए टी स्कूल, शिवपुरी, मध्य प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती रंजिता टुडु सोना  
सिस्टर-इन-चार्ज  
कम्पोजिट अस्पताल, भुवनेश्वर, उड़ीसा  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मोहम्मद अब्दुल मजीद  
फार्मासिस्ट  
कम्पोजिट अस्पताल, भरनी  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री कृष्णस्वामी नटेशन  
लैब टेक्नीशियन  
कम्पोजिट अस्पताल, तलेगांव, पीओ - विष्णुपुरी  
पुणे, महाराष्ट्र  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री समीर कुमार बल्लभ  
हेड कांस्टेबल  
177 बी एन. सोपोर  
जिला बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रेम नारायण सिंह  
हेड कांस्टेबल (फिटर)  
ग्रुप सेन्टर, भुवनेश्वर, उड़ीसा  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री युमनाम बीरेन सिंह  
हेड कांस्टेबल (बढ़ई)  
49 बीएन श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर  
सी/ओ 56 ए पी ओ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अमर लाल सैनी  
कांस्टेबल (दफ्तरी)  
ग्रुप केन्द्र, नीमच, मध्य प्रदेश  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री निताई दास  
कुक्  
ग्रुप सेन्टर, सिंदरी, धनबाद, झारखंड  
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी.ए.जे. नेहरू  
संयुक्त उप निदेशक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री के.एल. कौल  
संयुक्त उप निदेशक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री आर.एस. गुलेरिया  
सहायक निदेशक  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री नवांग शेरिंग  
सहायक निदेशक  
मुख्यालय नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री ए डी. वेंकटचालम  
सहायक निदेशक/तकनीकी  
चेन्नई  
गृह मंत्रालय

श्री ए.के. मित्तल  
सहायक निदेशक,  
नई दिल्ली  
गृह मंत्रालय

श्री एस.के. दौरास्वामी  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
बंगलूरु  
गृह मंत्रालय

श्री एस.के. महापात्र  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
भुवनेश्वर  
गृह मंत्रालय

श्री के.पी. अल्बेन कुमार  
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी  
मुंबई  
गृह मंत्रालय

श्री प्रेम सिंह सामन्त उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी दिल्ली गृह मंत्रालय	श्री आर.एस. पावस्कर जूनियर आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी मुंबई गृह मंत्रालय
श्री एन.के.सील उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी कोलकाता गृह मंत्रालय	श्री टी एन शंकरनकुट्टी जूनियर आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी त्रिवेन्द्रम गृह मंत्रालय
श्री सुशील कुमार अनुभाग अधिकारी नई दिल्ली गृह मंत्रालय	श्री एन.के. दास जूनियर आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी नई दिल्ली गृह मंत्रालय
श्री एस.के. वर्मा अनुभाग अधिकारी नई दिल्ली गृह मंत्रालय	श्री पी.डब्ल्यू. शेरपा जूनियर आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी गंगटोक गृह मंत्रालय
श्री टी.आर. मान्डला सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी जम्मू गृह मंत्रालय	श्री पी.के. राधाकृष्ण पिल्लै जूनियर आसूचना अधिकारी - ग्रेड-1/डब्ल्यू टी त्रिवेन्द्रम गृह मंत्रालय
श्री ए.एस. पलानी सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी चेन्नई गृह मंत्रालय	श्री संजय यादव जूनियर आसूचना अधिकारी, ग्रेड-11/जी भोपाल गृह मंत्रालय
श्री केसांग शेरिंग सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-1/जी गंगटोक गृह मंत्रालय	श्री गुरलाल सिंह विक न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल/उपमहानिरीक्षक बल मुख्यालय, नई दिल्ली भारत तिब्बत सीमा पुलिस
श्री सेवांग रिग्जीन सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-11/जी आई टी बी एफ लेह, गृह मंत्रालय	श्री स्वाम कार्तिक शर्मा उपमहानिरीक्षक मुख्यालय विशेष फ्रंटियर, आर.के. पुरम, नई दिल्ली भारत तिब्बत सीमा पुलिस
श्री एम. रेक्स पालराज सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-11/जी बंगलूरु गृह मंत्रालय	श्री अशोक कुमार नेगी कमांडेंट 43 वीं बीएन, पटियाला, पंजाब भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री रविन्द्र पाण्डेय  
कमांडेंट (अभियंता)  
सेक्टर मुख्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री पूर्वा शेरपा  
उप कमांडेंट (जी.डी.)  
13 बी एन, लिंगडम, सिक्किम  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री लाल बहादुर सिंह राठौर  
सहायक कमांडेंट (कार्यालय)  
प्रशिक्षण क्षेत्र, मसूरी, उत्तराखंड  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्रीमती दमयन्ती नेगी  
सहायक कमांडेंट(शिक्षा)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री कृष्ण कुमार शर्मा  
निरीक्षक (शिक्षा)  
बल मुख्यालय, नई दिल्ली  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री रघुनाथ सिंह  
निरीक्षक  
41 बी एन, भुवनेश्वर, उड़ीसा  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री कांशी सिंह  
निरीक्षक  
17 बी एन, रेकोंग पेवो, हिमाचल प्रदेश  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री भोला नाथ  
निरीक्षक  
21 बी एन, पंथाचौक  
श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री गजेन्द्र सिंह रावत  
निरीक्षक (सी एम)  
29 बी एन, जबलपुर, मध्य प्रदेश  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री सुरेन्द्र सिंह गुसाई  
निरीक्षक (सी एम)  
सेक्टर मुख्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री विजय कुमार  
हेड कांस्टेबल (चिकित्सा)  
सेक्टर मुख्यालय, लखनऊ  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रकाश चन्द्र  
कांस्टेबल/पी.एन.आर.  
8 वीं बी एन, गौचर,  
जिला चमोली, उत्तराखंड  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री गुरुशक्ति सिंह सोढ़ी  
ग्रुप कमांडर  
बल मुख्यालय, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा  
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

श्री राजेन्द्र सिंह खरदवाल  
स्क्वाड्रन कमांडर  
बल मुख्यालय, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा  
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

श्री अनिल कुमार बंसल  
सहायक कमांडर - I/पी ए  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

श्री राज कुमार  
सहायक कमांडर-I/मिन  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

श्री दीपक कुमार  
उपमहानिरीक्षक  
एफ टी आर, मुख्यालय, रुकुनपुर सदन  
पटना, बिहार  
सशस्त्र सीमा बल

श्री लीला कान्ता गोहाई उपमहानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय, रानीडंगा सशस्त्र सीमा बल	श्री राकेश कुमार हेड कांस्टेबल(जी डी) 38 बी एन, तवांग अरुणाचल प्रदेश, सशस्त्र सीमा बल
श्री राज सिंह शेखावत कमांडेंट 13 बी एन, पिपराकोठी बिहार सशस्त्र सीमा बल	श्री अमर सिंह हेड कांस्टेबल (जी डी) 16 बी एन, अडाबारी, असम सशस्त्र सीमा बल
श्री असित कुमार दास क्षेत्र ऑर्गनाइजर बल मुख्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली सशस्त्र सीमा बल	श्री सूर्य कांत शर्मा सहायक महानिरीक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली विशेष सुरक्षा समूह
श्री कैलाश चन्द्र पांडे उप कमांडेंट 37 बी एन, मंगलगोई सशस्त्र सीमा बल	श्री प्रदीप कुमार पालीवाल सहायक महानिरीक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली विशेष सुरक्षा समूह
श्री रमेश चन्द्र पांडे सहायक कमांडेंट 14 बी एन, जयनगर सशस्त्र सीमा बल	श्री हरधन अधिकारी सुरक्षा अधिकारी-1 मुख्यालय, नई दिल्ली विशेष सुरक्षा समूह
श्री चिरंजीव कुमार बसुमतारी निजी सचिव बल मुख्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली सशस्त्र सीमा बल	श्री एन वी रामदास सुरक्षा अधिकारी-11(टी) मुख्यालय, नई दिल्ली विशेष सुरक्षा समूह
श्री जितेन्द्र कुमार सिंह उप क्षेत्र अधिकारी (दूरसंचार) बल मुख्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली सशस्त्र सीमा बल	श्री गुरप्रीत सिंह अनुभाग अधिकारी (प्रशिक्षण) सी डी टी एस, गाजियाबाद पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
श्री राम प्रकाश शर्मा उप निरीक्षक (जी डी) 39 बी.एन., पलिया कलां, जिला खेरी, उत्तर प्रदेश सशस्त्र सीमा बल	श्री सुरेश कुमार पाल सहायक मुख्यालय, नई दिल्ली पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
श्री लोबसंग नोरबु उप निरीक्षक (जी डी) 38 बी एन, तवांग, अरुणाचल प्रदेश सशस्त्र सीमा बल	श्री देश राज तोमर कांस्टेबल मुख्यालय, नई दिल्ली पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री सुखबीर सिंह  
कांस्टेबल  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री एस डेविडसन देवासिरवादम  
जोनल निदेशक  
राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई  
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो

श्री पी उदयकुमार  
निरीक्षक (एफपी)  
ईस्ट ब्लॉक 7 आर.के. पुरम, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

डॉ. अविनाश चन्द्र राजवंशी  
अपर निदेशक  
सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली  
एन.आई.सी.एफ.एस

श्री एल कृष्णा मूर्ति  
उप निरीक्षक (बैंड)  
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश  
एस वी पी एन.पी.ए.

श्री डी. जया चन्द्र नायडु  
हेड कांस्टेबल (ए डी आई)  
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश  
एस वी पी एन.पी.ए.

श्री पी. बलराज  
हेड कांस्टेबल/जी.डी.  
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश  
एस वी पी एन.पी.ए.

श्री रवि गंभीर  
उप पुलिस अधीक्षक  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

श्री बाबु सी पपाचेन  
हेड कांस्टेबल  
मुख्यालय, नई दिल्ली  
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

श्री जयपाल यादव  
कमांडेंट  
8 वीं बी एन, सूरजपुर  
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश  
एन डी आर एफ

श्री सुखदेव राज  
कमांडेंट  
2 बी एन, पीओ - अब्दुलपुर  
जिला 24 पीजीएस (उत्तर) कोलकाता  
एन डी आर एफ

श्री बिजय कुमार मलिक  
सहायक कमांडेंट  
5 वीं बीएन, तलेगांव  
पीओ विष्णुपुरी, पुणे, महाराष्ट्र  
एन डी आर एफ

श्री मोहन एस.  
उप निरीक्षक/स्टेनो  
4 बी एन, अरक्कोणम, तमिलनाडु  
एन डी आर एफ

श्री गुलेर चन्द्र  
उप निरीक्षक/जी डी  
7 वीं बी एन, भटिंडा, पंजाब  
एन डी आर एफ

श्री ब्रह्म प्रकाश दत्ता  
उप निदेशक/पी एंड टी एस  
रेलवे सुरक्षा बल  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली  
रेल मंत्रालय

श्री अशोक कुमार साहु  
सहायक सुरक्षा आयुक्त एवं स्टाफ अधिकारी  
ईस्ट कोस्ट रेलवे,  
सामंत विहार, भुवनेश्वर  
रेल मंत्रालय

श्री एम. चेन्चैया  
निरीक्षक  
रेलवे सुरक्षा बल  
रायनपाडु  
रेल मंत्रालय

श्री शेर सिंह बैनीवाल  
उप निरीक्षक  
आरपीएफ/सीआईबी/मुख्यालय, बड़ौदा सदन, नई दिल्ली  
रेल मंत्रालय

श्री रामकर्ण  
सहायक उप - निरीक्षक  
आरपीएफ, एसआर. डी एस सी/रिजर्व कम्पनी,  
दिल्ली पूर्व प्रभाग रेल मंत्रालय



श्री बी आदिमुलम  
हेड कांस्टेबल  
रेलवे सुरक्षा बल  
प्रशिक्षण केन्द्र, किम्बर गार्डन, त्रिची  
रेल मंत्रालय  
श्री संजय कुमार सिंह  
निरीक्षक  
आरपीएफ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश  
रेल मंत्रालय

श्री अनिल कुमार मिश्रा  
उप निरीक्षक  
आरपीएफ, रेलवे स्टेशन बबीना  
रेल मंत्रालय

श्री राकेश कुमार तिवारी  
हेड कांस्टेबल  
आरपीएफ, एसआर. डीएससी/कार्यालय जे एच एस  
रेल मंत्रालय  
श्री इन्द्र राज यादव  
हेड कांस्टेबल  
रेलवे सुरक्षा बल  
एस आर.एस सी का कार्यालय/आर पी एफ इलाहाबाद  
रेल मंत्रालय

श्री अभिनन्दन सिंह सैंगर  
कांस्टेबल  
टी ई कम्पनी आगरा,  
रेल मंत्रालय

श्री अरुण कुमार पांडे  
उप निरीक्षक  
आर पी एफ, माटुंगा वर्कशाप, मुंबई  
रेल मंत्रालय

श्री बिजेन्द्र सिंह शेखावत  
निरीक्षक  
आरपीएफ, रेल भवन, नई दिल्ली  
रेल मंत्रालय

श्री पी. नागराजन  
निरीक्षक (एम)  
12 बी एन. आरपीएसएफ/ठाकुरली /मध्य रेलवे/मुंबई  
रेल मंत्रालय

श्री दूलाल चंद्र राय  
सहायक उप-निरीक्षक(एकज्युकिटव)  
4 बी एन,आरपीएसएफ पी ओ-भक्तनगर,  
जिला जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल  
रेल मंत्रालय

श्री कमल सिंह  
निरीक्षक  
आरपीएफ, दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर  
रेल मंत्रालय

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के तहत प्रदान किए जाते हैं।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

### सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक: 18.10.2011

#### संकल्प

संख्या ई-11015/8/2008-हिन्दी : इस मंत्रालय के दिनांक 04.06.2010 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुरेश तिवारी, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को श्री मोहन प्रकाश दुबे, राष्ट्रीय संयोजक, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के स्थान पर इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री सुरेश तिवारी का कार्यकाल वर्तमान समिति के कार्यकाल तक रहेगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अमरेन्द्र सिन्हा  
संयुक्त सचिव,

New Delhi, the 15<sup>th</sup> August 2011

No. 113-Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the under mentioned persons for the acts of gallantry:-

1. **G/5004672 RIFLEMAN ANIRUDDH YADAV, 3 ASSAM RIFLES**

(Effective date of the award: 10 February 2010)

On 10 February 2010, when own sources tipped off about a terrorist hide out, a search team was launched into the Assam – Arunachal border jungle in Udalgiri district of Assam in their pursuit. Once the team reached near the hide out, Rifleman Aniruddh Yadav volunteered to probe the area to collect more intelligence about the terrorists to enable the commander to launch deliberate assault on the terrorist hideout. As the party moved forward, it came under heavy fire. Rifleman Aniruddh Yadav showing presence of mind and great determination dashed towards the firing terrorist. This sudden action totally unnerved the terrorist and before he could react, he was shot down by Rifleman Aniruddh Yadav. Without resting, Rifleman Aniruddh Yadav dashed towards the terrorist taking cover of thick vegetation and in a close combat neutralized the second terrorist also.

Rifleman Aniruddh Yadav displayed high standard of professionalism, raw courage and utter disregard to personal safety in eliminating two armed terrorists.

2. **IC-67860 MAJOR S KARTIK RAJA, REGIMENT OF ARTILLERY / 21 ASSAM RIFLES**

(Effective date of the award: 14 May 2010)

On receiving information about the movement of 08-10 armed terrorists in general area in a village in Thoubal District of Manipur, an operation, meticulously planned by Major S. Kartik Raja was launched in the night of 13/14 May 2010. At around 0025 hours on 14 May 2010, one team came under indiscriminate firing. Major S Kartik Raja displaying aggressive spirit swiftly led his team to the place of contact. On reaching the site he saw 08-10 suspected persons running, who on being challenged replied by indiscriminate fire on the officer and his team. The officer displaying nerves of steel replied back with retaliatory fire and with utter disregard to personal safety, he and his buddy gave a hot pursuit to the fleeing terrorists through the difficult hilly jungle terrain. They rolled down the nearby hillock and closed in on terrorists who were entrenched behind a boulder and lobbing grenades.

The officer maneuvered himself to a tactical position and skills single handedly eliminated two terrorists. The officer amidst a hail of bullets then closed in onto another entrenched terrorist and gunned him down from close quarters.

Major S Kartik Raja displayed conspicuous bravery, intelligence and planning such an exceptional operation wherein he personally eliminated three terrorists thereby upholding the true traditions of Indian Army.

3. **SHRI ASHISH KUMAR TIWARY, CONSTABLE. (GENERAL DUTY), CENTRAL RESERVE POLICE FORCE, (POSTHUMOUS)**

(Effective date of the award: 26 July 2010)

On July 25, 2010 at 1700 hours, Dy. Superintendent of Police received information about presence of a group of 40 - 50 armed CPI (Maoist), including the Maoist Commander Sidhu Soren camping in thick jungles of Kayma under Police Station - Goaltore, district-West Midnapur, West Bengal, which held a secret meeting to attack police stations and other police units in order to loot arms and ammunition from the Police forces after killing them. On the basis of that information, a special operation team was formed and an operation was launched on 25/26 July, 2010 at around 3.30 hours.

When the special team reached close to the targeted point, the Maoists started firing indiscriminately from sophisticated weapons taking cover behind trees inside the dense forest and triggered multiple IED blasts. The officers for special operation team opened fire to counter the Maoists.

Shri Tiwary accompanying his team commander, tactically negotiated minefields and launched a daring close quarter battle assault and neutralized the most wanted squad commander Sidhu Soren and while doing so sustained bullet injuries. Though fatally injured, he gave firing support to his fellow commandos who could gain access to the hideout. He succumbed to the injuries on way to the hospital.

Shri Ashish Kumar Tiwary displayed conspicuous gallantry, unparalleled courage against overwhelming numbers under heavy indiscriminate firing and IED blasts leading to outstanding operational success and also laid down his life.

4. **LIEUTENANT COMMANDER FIRDAUS DARABSHAH MOGAL, (04730-Z), (POSTHUMOUS)**

(Effective date of the award: 30 August 2010)

Lieutenant Commander Firdaus Darabshah Mogal assumed the duties of the Executive Officer of the submarine on 26 May, 2010. On 29 August, 2010, whilst

the submarine was enroute for a deployment, a defect was observed on the starboard outer exhaust flap. All attempts to rectify the defect from within the submarine proved futile.

At about 0655 hour on 30 August 2010, a team comprising of 3 sailors led by the Engineer Officer of the submarine was sent on the casing for defect rectification. As the team was approaching the flap on the after casing, a strong wave swept two of the sailors and the Engineer Officer overboard. The third sailor was badly injured and was hanging overboard with his storm belt with major abrasive injuries on his leg, Lieutenant Commander Firdaus Darabshah Mogal who was on bridge, immediately realised the gravity of the situation. Since the injured sailor hanging on the after casing was required to be recovered immediately, he himself proceeded to rescue the injured sailor.

After about 20 min of frightening struggle, the officer reached the ladder on the fin that had to be climbed for handing over the injured sailor to bridge. The recovery of the first casualty infused hope in the overboard men to hang on and they looked at their Executive Officer for their rescue. He managed to pull the overboard men close to the submarine.

Once all were onboard, the officer attempted to climb up and as he was about to reach another unfateful wave washed him overboard. It appeared that he had sustained head injuries due to this wave. Realizing this, the ASWO of the submarine proceeded to his rescue. Simultaneously, assistance of a SAR helicopter was called for from Mumbai. Lieutenant Commander Firdaus Darabshah Mogal was rescued by the helo and evacuated to INHS Asvini, was pronounced Dead on Arrival.

Lieutenant Commander Firdaus Darabshah Mogal displayed exceptional courage, unmatched show of fearless valour in the face of death and made supreme sacrifice in saving the lives of six men.

5. **4190732 LANCE NAIK CHANDAN SINGH, 17<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT**

(Effective date of the award: 03 September 2010)

At 2300 hrs on 03 September 2010, an infiltration bid from across the Line of Control in Kupwara district of Jammu & Kashmir was detected by Pant Key Defended Locality (KDL). Support weapons of the post were immediately grouped for fire assault on terrorists. Lance Naik Chandan Singh was manning the Automatic Grenade Launcher (AGL). He immediately sited his weapon in manner as to bring effective fire on the infiltrating column. Heavy volume of fire was brought upon the terrorists as they approached the Area of sight (AIOS) and one of them was killed instantaneously while the rest began to retreat in disarray. Taking

advantage of the situation, Lance Naik Chandan Singh unmindful of his personal safety and grave danger to his life continued to fire on fleeing terrorists at close range and killed two more terrorists.

Lance Naik Chandan Singh displayed conspicuous act of bravery, exceptional valour and raw courage while fighting the terrorist.

6. **13619947 HAVILDAR PANCHU GOPAL ROY, PARACHUTE REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES**

(Effective date of the award: 13 September 2010)

On receiving information of presence of terrorists in general area in a village in Bandipur district of Jammu & Kashmir, a six men squad under Havildar Panchu Gopal Roy was inducted into operations for surveillance.

On 13 September 2010 at 0840 hours suspicious move was observed. On being challenged terrorists opened fire and ran. Havildar Panchu Gopal Roy maneuvered himself and pursued the terrorists. Outflanked, the terrorists entered a cave and started firing. With utter disregard to his personal safety and under heavy volume of fire, Havildar Roy climbed on top of the cave and eliminated the first terrorist at close range. Remaining two terrorists ran out. With a daring move and tactical acumen Havildar Panchu Gopal Roy jumped down, chased the second terrorist who hid behind a boulder and shot him dead at close quarters.

Havildar Panchu Gopal Roy displayed conspicuous valour, dogged determination and exemplary courage in the face of hostile fire while fighting the terrorists.

7. **IC-69025 CAPTAIN SAURABH DHAMIJA, 3<sup>RD</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

(Effective date of the award: 16 September 2010)

On 16 September 2010, Captain Saurabh Dhamija while leading his troop as scout number 02 on search and destroy mission in general area in Pulwama district of Jammu & Kashmir, found himself face to face with three armed terrorists. Showing extreme presence of mind, the officer challenged the terrorists to surrender. During the firefight he fired from his hip and eliminated one terrorist. The other terrorists then hid behind a boulder. While trying to outflank them, the officer came under heavy automatic fire from a nearby height. Not losing his nerves under fire, he redeployed his squads. Realising the proximity of own troops after redeployment, Capt Saurabh realized engaging the terrorist would have resulted in injury to own troops, he crawled up the boulder. Displaying raw courage the officer grappled with the terrorist and snatched his weapon and eliminated him. The third terrorist tried to break contact and flee. The officer using the slain terrorist's weapon injured the fleeing terrorist, who was later neutralised.

Captain Saurabh Dhamija displayed raw courage, grit and bravery much beyond the call of duty while fighting the terrorists.

8. **13620144 NAIK RAJESH KUMAR, 3<sup>RD</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

(Effective date of the award: 16 September 2010)

On 16 September 2010, Naik Rajesh Kumar was the commander of a squad which was on search and destroy mission in general area in Pulwama district of Jammu & Kashmir.

At approx 0745 hours, his troop commander established contact with the terrorists, when he saw two terrorists opening up heavy automatic fire on own troops in contact from a neighbouring height.

Realizing the grave threat on his comrades, Naik Rajesh Kumar took initiative and redeployed his squad and ensured heavy retaliatory automatic effective fire on the terrorists. The terrorists, who were behind cover, continued to fire on own troops in contact. Understanding the gravity of the situation and with utter disregard to personal safety, Naik Rajesh Kumar charged at the terrorists, lobbing a grenade and firing from his hip. This act took the terrorists by surprise and he single handedly killed two hard core terrorists at close quarters.

Naik Rajesh Kumar displayed conspicuous bravery, exemplary courage and devotion beyond call of duty in fighting the terrorists.

9. **SS-41822 MAJOR DUSHYANT SINGH SHEKHAWAT, 8<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT**

(Effective date of the award: 01 October 2010)

On receiving information about presence of terrorists, Major Dushyant Singh Shekhawat led a search party in a village in Kupwara district of Jammu & Kashmir. On 01 October 2010 at 1030 hours, the party came under heavy fire of terrorists. Major Shekhawat showing raw courage closed in towards a terrorist and eliminated him in close combat. In the ensuing firefight one officer was wounded. Major Shekhawat and his buddy, undeterred by overwhelming fire extricated the officer. Major Shekhawat closed towards the other terrorist under effective covering fire by his buddies and eliminated him in fierce combat lasting twenty minutes.

On 02 October 2010 at 1000 hours intense fire fight resumed with terrorist hiding in a cave. Major Shekhawat crawled and reached on top of the cave with his buddy under accurate covering fire by another buddy. Major Shekhawat lobbed a grenade inside cave and his buddy shot the terrorist by jumping right in front.

Major Dushyant Singh Shekhawat displayed conspicuous gallantry, exceptional courage and inspiring leadership in fighting the terrorists.

10. **IC-69766 CAPTAIN TAPAS KUMAR DEKA, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

(Effective date of the award: 03 October 2010)

Captain Tapas Kumar Deka led a Hostage Rescue Operation in East Siang District of Arunachal Pradesh on the Assam–Arunachal Border.

A terrorist organization had unleashed a spate of terrorist activities in Upper Assam by attacking security forces, killing and abducting innocent civilians and demanding heavy ransoms. On 24 September 2010, a businessman was abducted from Dhemaji district and a ransom of rupees fifty lac was demanded.

Building up on the information, Capt Tapas along with squad launched surveillance cum raid operation to rescue the hostage. On 03 Oct 2010, after five days of continuous surveillance he established the exact location of the hostage and 12 armed terrorists inside jungle on Assam-Arunachal border. Exercising extreme caution, maintaining complete surprise by crawling 500 meters and making full use of thick undergrowth he alongwith his squad reached 5-7 meters of the camp. Deploying his squad members at appropriate tactical positions, Capt Tapas crawled towards the sentry who was holding the hostage. Achieving complete stealth, unmindful of personal safety he eliminated the sentry from close quarters. Suddenly, he came under heavy fire from remaining terrorists. Acting with speed Capt Tapas dragged the hostage to cover, returned fire and directed his squad members for counter attack. Under his directions, squad members quickly eliminated three more terrorists.

Captain Tapas Kumar Deka displayed resolute leadership, indomitable courage under fire in rescuing hostage businessman.

11. **13626415 PARATROOPER PADAM BAHADUR POUDEL, 21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

(Effective date of the award: 03 October 2010)

Paratrooper Padam Bahadur Poudel was a member of the squad which launched surveillance-cum-raid operation to rescue the hostage. On 03 October 2010 during an Hostage Rescue Operation in East Siang district of Arunachal Pradesh, the leader of the squad moved towards the sentry who was holding the hostage, under the cover provided by Paratrooper Padam Bahadur. As the officer eliminated the sentry and secured the hostage, he came under heavy fire from two terrorists who were near sentry position. Paratrooper Padam quickly came out in open and engaged the terrorists from a flank. His brave act surprised the terrorists

and drew their attention away from the officer and hostage. Taking advantage of confusion in the terrorist ranks, displaying high marksmanship skills, he killed two terrorists in quick succession.

Paratrooper Padam Bahadur Poudel displayed conspicuous gallantry in face of withering terrorist fire, presence of mind against heavy odds, in order to save his comrades, eliminating two terrorists single handedly.

12. **IC-72578 LIEUTENANT ABHINAV TRIPATHI, 15<sup>TH</sup> BATTALION  
THE DOGRA REGIMENT**

(Effective date of the award: 15 October 2010)

Lieutenant Abhinav Tripathi was incharge of one of the ambush party which was on search mission to lay ambushes in the suspected areas in Kokrajhar district of Assam. On 15 Oct 2010, he quickly appreciated the ground, briefed his party and laid the ambush. At about 2230 hours, two persons approached the site on a motor cycle. They were completely surprised when they were challenged by the stop. Impulsively, they accelerated the motorcycle and also started spraying bullets in the direction of the stop. Lieutenant Abhinav Tripathi retaliated by firing quick shots, which injured the driver fatally and the motorcycle fell down. The pillion rider sprinted towards the bamboo grove along the road, firing indiscriminately in all directions to break contact. Without getting unnerved under hostile fire, Lieutenant Abhinav Tripathi moved to outflank the fleeing terrorist and engaged him in close quarter combat killing him with a burst from his weapon.

Lieutenant Abhinav Tripathi displayed high standards of professionalism, sheer disregard to personal safety and executed a successful operation.

13. **IC-66865 MAJOR ABHISHEK CHAKRABARTY, ARMY AIR  
DEFENCE / 23 RASHTRIYA RIFLES**

(Effective date of the award: 08 February 2011)

Major Abhishek Chakrabarty planned, executed and personally led an operation in a village in Ramban district of Jammu & Kashmir. Officer swung into action, with his team of six soldiers and cordoned the area by 0030 hours on 08 February 2011. The officer with his buddy moved towards the hideout, where he was fired upon by the terrorists. Undeterred, the officer fired back and killed one terrorist from a dangerously close range. Second terrorist was eliminated by his team. After seven hours of fire-fight, the officer burnt the bushes near the hideout using Molotov cocktail. He then personally led a party of three Other Ranks, to the roof of the hideout, lobbed a grenade and a rammer charge inside the hideout and fired with his AK-47, killing the third terrorist.



Major Abhishek Chakrabarty displayed conspicuous gallantry of highest order, meticulous planning and flawless execution while fighting the terrorists.

14. **15347880 SAPPER AMARJIT SINGH, CORPS OF ENGINEERS/42 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)**

(Effective date of the award: 05 April 2011)

On 05 April 2011, Sapper Amarjit Singh as part of the house clearing team at a village in Pulwama district of Jammu & Kashmir was clearing a suspected hide lodging a terrorist. The hiding terrorist opened fire. The team commander pinned him down and ordered his teammates to clear out. Sapper Amarjit Singh, gauging the gravity of the situation, disregarding his own safety engaged the terrorist with effective fire to facilitate the team's move to safety. In the ensuing fire fight he daringly inflicted grievous injuries to the terrorist and continued engaging him at point blank range thereby enabling safe movement of his teammates. In the process he sustained grievous gun shot wounds to his face and succumbed to his injuries.

Sapper Amarjit Singh displayed unflinching devotion to duty and indomitable courage in the face of terrorist's fire and made the supreme sacrifice in the service of the Nation.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 114-Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Sena Medal/Army Medal**” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage:

1. IC-63389 MAJOR PRANAY PADMAKAR PAWAR, SENA MEDAL, 4<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
2. IC-63398 MAJOR RAJ ABHINAV, SENA MEDAL, RAJPUTANA RIFLES / 21 ASSAM RIFLES
3. IC-68881 CAPTAIN PAWAN KUMAR SACHAN, SENA MEDAL, CORPS OF SIGNALS / 8 ASSAM RIFLES

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 115-Pres/2011 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. MR-06053 LT COL SANJIV KUMAR KAKKAR  
ARMY MEDICAL CORPS / EMBASSY OF INDIA, KABUL
2. IC-58605 MAJOR DHEERAJ KOTWAL  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
3. IC-58790 MAJOR NEERAJ PANT  
DOGRA REGIMENT / 11 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-58929 MAJOR GAURAV KANWAL  
17<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT
5. IC-60552 MAJOR MAYANK FARWAHA  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
6. IC-60568 MAJOR SC MURAGUNDI  
CORPS OF ENGINEERS / 44 RASHTRIYA RIFLES
7. IC-62530 MAJOR RAKESHWAR JASWAL  
ARMY SERVICE CORPS / 16 RASHTRIYA RIFLES
8. IC-62687 MAJOR GURJINDER SINGH GUJRAL  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
9. IC-62740 MAJOR SIDHARTH SINGH NATHAWAT  
ARMoured CORPS / 6 ASSAM RIFLES
10. IC-63013 MAJOR ATUL GARJE,  
REGIMENT OF ARTILARY/669 ARMY AVIATION SQUADRON  
(RECONNAISSANCE AND OBSERVATION)  
**(POSTHUMOUS)**
11. IC-63861 MAJOR VARUN VIJAY GIDH  
PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES

12. IC-63943 MAJOR DEEPAK KUMAR  
GARHWAL RIFLES / 14 RASHTRIYA RIFLES
13. IC-64115 MAJOR SUJIT KUMAR KRISHNAN  
MADRAS REGIMENT / 38 RASHTRIYA RIFLES
14. IC-64118 MAJOR RAJEEV BHANDARI  
MAHAR REGIMENT / 3 ASSAM RIFLES
15. IC-64201 MAJOR SUSHEEL KUMAR MAHAPATRO  
ARMY AIR DEFENCE / 38 RASHTRIYA RIFLES
16. IC-64530 MAJOR BHANU CHANDAR  
MECHANISED INFANTRY, 669 ARMY AVIATION SQUADRON  
(RECONNAISSANCE AND OBSERVATION) (POSTHUMOUS)
17. IC-65078 MAJOR ANUBHAV GAIROLA  
ARMOURED CORPS / 24 RASHTRIYA RIFLES
18. IC-65151 MAJOR PRAVEEN KUMAR  
1/5 GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCE)
19. IC-65356 MAJOR PARAB AMIT ANAND  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
20. IC-65439 MAJOR PUNEET SHARMA  
ARMY SERVICE CORPS / 1 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-65459 MAJOR VIKRAMJIT SINGH VIRK  
GARHWAL RIFLES / 15 ASSAM RIFLES
22. IC-65920 MAJOR AMANDEEP SINGH AULAKH  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
23. IC-66647 MAJOR SUNIL KUMAR  
REGIMENT OF ARTILLERY / 6 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-67215 MAJOR SAURABH SUYAL  
ARMOURED CORPS / 22 RASHTRIYA RIFLES
25. IC-67493 MAJOR MANOJ DOBRIYAL  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT

26. IC-68501 MAJOR AMAN AHLUWALIA  
12<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
27. MR-07284 MAJOR SUMIT ARORA  
ARMY MEDICAL CORPS / EMBASSY OF INDIA, KABUL
28. MR-07287 MAJOR SIBASISH METIA  
ARMY MEDICAL CORPS / EMBASSY OF INDIA, KABUL
29. SS-41791 MAJOR NIKHIL KUMAR SINGH  
CORPS OF ENGINEERS / 24 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-68748 CAPTAIN AMAN MEHTA  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
31. IC-69437 CAPTAIN MUKUL NEGI  
CORPS OF SIGNALS / 26 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-69887 CAPTAIN VIPIN  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
33. SS-41959 CAPTAIN UPMANYU SINGH  
ARMOURED CORPS / 22 RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)
34. SS-42411 CAPTAIN BALDEV SINGH  
CORPS OF SIGNALS / 24 RASHTRIYA RIFLES
35. IC-71284 LIEUTENANT MANDEEP SINGH NEGI  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
36. IC-71803 LIEUTENANT PRADEEP SINGH  
REGIMENT OF ARTILLERY / 315 FIELD REGIMENT
37. IC-71809 LIEUTENANT VINAY PHOGAT SINGH  
ARMY ORDNANCE CORPS / 15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA  
REGIMENT
38. IC-71999 LIEUTENANT SHAMSHER SINGH  
INTELLIGENCE CORPS / 5/1 GORKHA RIFLES

39. IC-72031 LIEUTENANT PRASHANT MISHRA  
21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
40. SL-05024 LIEUTENANT RATI KANTA MOHAPATRA  
GENERAL SERVICE / 9<sup>TH</sup> BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
41. JC-412999 SUBEDAR AJIT KUMAR  
6<sup>TH</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT
42. JC-439728 SUBEDAR RAVI KUMAR D  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
43. JC-489414 SUBEDAR SHYAM SUNDER  
11<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
44. JC-489436 SUBEDAR VIJENDER SINGH  
11<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
45. JC-508373 SUBEDAR LABH SINGH  
SIKH LIGHT INFANTRY / 2 RASHTRIYA RIFLES
46. JC-540392 SUBEDAR PADAM SINGH KUNWAR  
KUMAON REGIMENT / 26 RASHTRIYA RIFLES
47. JC-440083 NAIB SUBEDAR GOPALANNAIR RAJESH  
3<sup>RD</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
48. JC-499812 NAIB SUBEDAR BAL WINDER SINGH  
SIKH REGIMENT / 16 RASHTRIYA RIFLES
49. JC-634850 NAIB SUBEDAR MAHENDRA KUMAR LIMBU  
6/11 GORKHA RIFLES
50. G/2600670 NAIB SUBEDAR RAVINDRAN S  
26 ASSAM RIFLES
51. G/38209 HAVILDAR LALIT SINGH  
3 ASSAM RIFLES

52. 2596271 HAVILDAR THAMPAN S  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
53. 3186606 HAVILDAR SURENDER SINGH  
11<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
54. 3991154 HAVILDAR PARKASH CHAND  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
55. 4188653 HAVILDAR RAM KUMAR SINGH GAUTAM  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT
56. 4273348 HAVILDAR RATHVA RAJESH BHAI JAIMAL SINH BHAI,  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
57. 5453199 HAVILDAR JANGA BAHADUR THAPA  
1/5 GORKHA RIFLES (FRONTIER FORCE)  
**(POSTHUMOUS)**
58. 5847925 HAVILDAR VIJAY SINGH CHHETRI  
2/9 GORKHA RIFLES / 32 RASHTRIYA RIFLES
59. 14702710 HAVILDAR A SANI  
1<sup>ST</sup> BATTALION THE NAGA REGIMENT
60. 2599907 LANCE HAVILDAR LAVA KB  
19<sup>TH</sup> BATTALION THE MADRAS REGIMENT
61. 13621014 LANCE HAVILDAR ARJANJIT SINGH  
PARACHUTE REGIMENT / 21 RASHTRIYA RIFLES
62. 13759282 LANCE HAVILDAR WALI MOHD KHAN  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 RASHTRIYA RIFLES
63. 15483477 ACTING LANCE DAFADAR BRAHMBHATT NITENDRA  
KUMAR, ARMoured CORPS /22 RASHTRIYA RIFLES
64. 2488408 NAIK BALRAJ SINGH  
PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES

65. 2795861 NAIK TANAJI SIDAGONDA PUJARI  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
66. 2995958 NAIK DEVENDRA SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 23 RASHTRIYA RIFLES
67. 2997706 NAIK DHARA SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
68. 3995590 NAIK VARINDER SINGH  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
69. 9421441 NAIK KAMAL BAHADUR THAPA  
21<sup>ST</sup> BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL  
FORCES)
70. 12944378 NAIK TALIB HUSSAIN  
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME  
AND HEARTH) DOGRA / 26 RASHTRIYA RIFLES
71. 2490840 LANCE NAIK PACHITAR SINGH  
PUNJAB REGIMENT / 37 RASHTRIYA RIFLES
72. 2692591 LANCE NAIK MANOJ  
GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
73. 3000577 LANCE NAIK PARWAT SINGH  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
74. 3193426 LANCE NAIK VIJAY SINGH  
18<sup>TH</sup> BATTALION THE JAT REGIMENT
75. 3994900 LANCE NAIK RAGHBIR SINGH  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
76. 3998520 LANCE NAIK JEEVAN SINGH  
7<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT
77. 4077141 LANCE NAIK RAM SWAROOP  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 RASHTRIYA RIFLES

78. 4276755 LANCE NAIK SANJAY LAKRA  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE BIHAR REGIMENT
79. 9099203 LANCE NAIK MOHAMMAD LATIEF  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / 31 RASHTRIYA  
RIFLES
80. 13762268 LANCE NAIK SANJAY KUMAR  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)
81. 2498052 SEPOY SURINDER SHARMA  
PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES
82. 2498435 SEPOY AJAY SINGH SAINI  
PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES
83. 2801338 SEPOY RAMU BAVAKAR  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
84. 2805608 SEPOY RAJURKAR MANOJ SHAMRAOJI  
5<sup>TH</sup> BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
85. 3004731 SEPOY BALRAM  
RAJPUT REGIMENT / 23 RASHTRIYA RIFLES
86. 3004914 SEPOY PHOOL SINGH GURJAR  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
87. 3005791 SEPOY SANJAY KUMAR  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
88. 3006034 SEPOY NARENDER KUMAR  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
89. 3006538 SEPOY VIKAS KUMAR  
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
90. 4009463 SEPOY KAKU KUMAR  
15<sup>TH</sup> BATTALION THE DOGRA REGIMENT



91. 4192013 SEPOY BHOOPAL SINGH RAWAT  
17<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT
92. 4195129 SEPOY TARA SINGH  
17<sup>TH</sup> BATTALION THE KUMAON REGIMENT  
(POSTHUMOUS)
93. 4373419 SEPOY LALHMACHHUANA  
ASSAM REGIMENT / 42 RASHTRIYA RIFLES
94. 4575215 SEPOY NARAD NATH  
8<sup>TH</sup> BATTALION THE MAHAR REGIMENT
95. 4575748 SEPOY SOHANVIR SINGH  
MAHAR REGIMENT / 1 RASHTRIYA RIFLES
96. 12944831 SEPOY SURESH KUMAR  
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND  
HEARTH) DOGRA / 11 RASHTRIYA RIFLES
97. 12994412 SEPOY LANU AKUM  
164 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY)  
(HOME AND HEARTH) NAGA
98. 13014507 SEPOY NIKUL KHERKATARY  
166 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND  
HEARTH) ASSAM
99. 4087340 RIFLEMAN PRADEEP SAYAL  
GARHWAL RIFLES / 14 RASHTRIYA RIFLES
100. 4088014 RIFLEMAN RAMESH SINGH GUSAIN  
10<sup>TH</sup> BATTALION THE GARHWAL RIFLES
101. 9098076 RIFLEMAN GULAM MARTAZA KALGAN  
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / 47 RASHTRIYA  
RIFLES
102. 13771585 RIFLEMAN GURDEEP SINGH  
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 52 RASHTRIYA RIFLES
103. G/38616 RIFLEMAN DIGANTA PAYENG, 3 ASSAM RIFLES

104. G/124849 RIFLEMAN LIVINGSTONE WEZAH, 12 ASSAM RIFLES
105. G/2103638 RIFLEMAN RAJINDER SINGH, 21 ASSAM RIFLES
106. G/5003709 RIFLEMAN ILLU ZELIANG, 26 ASSAM RIFLES
107. G/5007404 RIFLEMAN S ARENG KOM, 28 ASSAM RIFLES
108. G/5010049 RIFLEMAN TAKHU WANGPAN, 3 ASSAM RIFLES
109. 15618202 GUARDSMAN H BIRAMANI SINGHA  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
110. 15619471 GUARDSMAN SURENDER KUMAR  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
111. 15621117 GUARDSMAN MANOJ KUMAR  
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
112. 15483484 SOWAR UMAR FAROOK KHAN  
ARMoured CORPS / 24 RASHTRIYA RIFLES
113. 15492524 SOWAR PATEL LALJI BHAI  
ARMoured CORPS / 60 RASHTRIYA RIFLES
114. 15783900 GUNNER T KISHORE KUMAR SINGHA  
ARMY AIR DEFENCE / 38 RASHTRIYA RIFLES  
(POSTHUMOUS)

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 116-Pres/2011—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. COMMANDER ARUN BAHUGUNA, (04704R)
2. COMMANDER S MUTHU KUMARAN (03985-F)
3. COMMANDER JOJI TOM MUNDAKEL, 03605-T

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 117-Pres/2011—The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air force Medal" to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage.

1. WING COMMANDER VIVEK AHLUWALIA (21578) FLYING (PILOT)
2. SQUADRON LEADER DHARUV KUMAR (28186) FLYING (PILOT)
3. FLIGHT LIEUTENANT HASHEER HAMEED (29736) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 118-Pres/2011—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :-

SHRI SANTOKH SINGH  
DY. CHIEF FIRE OFFICER  
DELHI

SHRI ARUN KUMAR SARANGI  
ASSTT. FIRE OFFICER  
ORISSA

SHRI SASHANKA SEKHAR MOHAPATRA  
STATION OFFICER  
ORISSA

SHRI SRIBATSHA KUMAR BEHERA  
ASSTT. STATION OFFICER  
ORISSA

SHRI HEMANTA KUMAR DAS  
DRIVER HAVILDAR  
ORISSA

SHRI KEDARNATH SAMAL  
FIREMAN  
ORISSA

SHRI ARVIND KUMAR  
DY. DIRECTOR (TECH)  
UTTAR PRADESH

SHRI MOHAMMAD RAFEEQ  
LEADING FIREMAN  
UTTAR PRADESH

SHRI JAGDISH PRASAD PANDEY  
FIRE SERVICE DRIVER  
UTTAR PRADESH

SHRI GOPAL KRISHNA BHATTACHARYA  
DIRECTOR  
WEST BENGAL

SHRI BIBHAS GUHA  
DEPUTY DIRECTOR  
WEST BENGAL

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 119-Pres/2011—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers :-

SHRI T. PRASADA RAO  
LEADING FIREMAN  
ANDHRA PRADESH

SHRI B. SATYANARAYANA MURTHY  
LEADING FIREMAN  
ANDHRA PRADESH

SHRI V. VENKATA SWAMY  
LEADING FIREMAN  
ANDHRA PRADESH

SHRI VIJAY BAHADUR  
DIVISIONAL OFFICER  
DELHI

SHRI OMPRAKASH  
STATION OFFICER  
DELHI

SHRI BACHI SINGH ASWAL  
SUB OFFICER  
DELHI

SHRI NATHU RAM  
LEADING FIREMAN  
DELHI

SHRI RAMESH CHAND  
SUB FIRE OFFICER  
HIMACHAL PRADESH

SHRI RAJINDER KUMAR  
LEADING FIREMAN  
HIMACHAL PRADESH

SHRI KUBAJ SINGH  
FIREMAN  
HIMACHAL PRADESH

SHRI SANTOSH SHRIDHAR WARICK  
DY. CHIEF FIRE OFFICER  
MAHARASHTRA

SHRI JIBAN SINGH WAHENGBAM  
DRIVER  
MANIPUR

SHRI JISWELL NONGSPUNG  
ASSTT. FIRE PREVENTIVE OFFICER  
MEGHALAYA

SHRI HARI KUMAR KUTTAM  
SUB OFFICER  
MEGHALAYA

SHRI LALREMMAWIA  
STATION OFFICER  
MIZORAM

SHRI K. THANSANGA  
LEADING FIREMAN  
MIZORAM

SHRI PRAVAT KUMAR MOHAPATRA  
STATION OFFICER  
ORISSA

SHRI BIBEKANANDA DAS  
ASSTT. STATION OFFICER  
ORISSA

SHRI KARTIK CHANDRA BEHERA  
LEADING FIREMAN  
ORISSA

SHRI BINOD KUMAR MUKHI  
DRIVER HAVILDAR  
ORISSA

SHRI BHASKAR DASH  
FIREMAN  
ORISSA

SHRI SONAM TSHERING LEPCHA  
SUB FIRE OFFICER  
SIKKIM

SHRI N. SUBRAMANIAN  
DIVISIONAL OFFICER  
TAMIL NADU

SHRI A. KUMARASAMY  
DIVISIONAL OFFICER  
TAMIL NADU

SHRI A. PALANIVEL  
ASSTT. DIVISIONAL OFFICER  
TAMIL NADU

SHRI K. SRINIVASAGAM  
STATION OFFICER  
TAMIL NADU

SHRI S. KRISHNAMURTHY  
FIREMAN  
TAMIL NADU

SHRI SARVESH KUMAR SINGH KUSHWAHA  
CHIEF FIRE OFFICER  
UTTAR PRADESH

SHRI BADRI VISHAL MISHRA  
LEADING FIREMAN  
UTTAR PRADESH

SHRI RIZWAN AHMAD  
LEADING FIREMAN  
UTTAR PRADESH

SHRI YOGENDRA MISHRA  
FIREMAN  
UTTAR PRADESH

SHRI RANJIT KUMAR PAL  
STATION OFFICER  
WEST BENGAL

SHRI RATAN KUMAR HALDER  
STATION OFFICER  
WEST BENGAL

SHRI ATANU CHANDA  
SUB-OFFICER  
WEST BENGAL

SHRI LOKO RANJAN DAS  
L.F.O.  
WEST BENGAL

SHRI NARHARI ROUT  
ASSTT. COMMANDANT/FIRE  
CISF, MHA

SHRI KHAGEN CHANDRA PATAR  
ASSTT. SUB INSPECTOR/FIRE  
CISF, MHA

SHRI V. CHIRANJEEVI  
HEAD CONSTABLE/FIRE  
CISF, MHA

SHRI NAGESH BHUJANGRAO SHINGNE  
CHIEF MANAGER(FIRE)  
M/O PET. & NATURAL GAS

SHRI HEMANT SHANKARLAL SHARMA  
FIRE OFFICER  
M/O PET. & NATURAL GAS

SHRI HEMA KANTA DUTTA  
ASST. CHIEF INSPECTOR (FIRE)  
M/O PET. & NATURAL GAS

2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 120-Pres/2011 - The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Delhi Fire Service: -

**SHRI NAND KISHORE TIWARI (POSTHUMOUS)  
SUB OFFICER**

2. On dated 06.10.2010 at 0110 hours a call was received in the control room of Delhi Fire Service informing that a fire has broken out in a factory premises located at 8/45, Nehru Galli, Vishwas Nagar, Delhi. Immediately on receipt of call, fire tenders were responded to the scene of fire. On reaching the spot, the officer-in-charge observed that the fire is in a factory premises used for manufacturing of electric wires/cables and also for the storage, retreading facilities of tyres, which are highly flammable and explosive in nature. He alongwith crew members started fire fighting operations and requisitioned for additional fire tenders and senior officers at the fire scene.

In the effort to control the fire Shri Nand Kishore Tiwari engaged himself in breaking open the premises as otherwise it was impossible to reach the seat of fire. Suddenly there was a huge explosion occurred and he was severely injured. He was immediately rushed to the hospital where he was declared brought dead.

3. Sub-Officer late Nand Kishore Tiwari thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 06.10.2010.

**BARUN MITRA**  
Jt. Secy.



No. 121-Pres/2011-The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Delhi Fire Service: -

SHRI MAHAVIR SINGH  
LEADING FIREMAN

SHRI CHARANJEET (POSTHUMOUS)  
FIREMAN

2. On 28.11.2010 at 1647 hours a call was received in the fire control room of Delhi Fire Service informing that a fire has broken out at 1034, Galli Gurwali Maliwar, Nai Sarak, New Delhi. Immediately on receipt of call, fire tenders were rushed to the spot. On reaching the scene of incident, the officer-in-charge observed that flames are coming out of the windows on all the floors of a four storied building. It was informed that there is a huge storage of plastic rolls, sarees and chemical drums. He alongwith crew members started fire fighting and rescue operations.

Shri Mahavir Singh, Leading Fireman and Shri Charanjeet, Fireman were fighting fire from top of the building to control the spread of fire to the adjoining buildings. Suddenly an explosion occurred in the chemical drums resulting in collapse of the part of the building. Both of them fell from fourth floor and sustained multiple fracture and burn injuries. Immediately they were rushed to the nearby hospital where Shri Charanjeet succumbed to injuries on 30.11.2010 and Shri Mahavir Singh undergone series of operations.

3. Leading Fireman Shri Mahavir Singh and Fireman Late Charanjeet thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 28.11.2010.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 122-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officers of Jammu & Kashmir Fire & Emergency Services: -

SHRI GHULAM NABI SHEIKH  
DIVISIONAL FIRE OFFICER

SHRI MOHAMAD AKRAM GUROO  
STATION OFFICER

SHRI RAFIQ AHMAD PARRAY  
FIREMAN

SHRI MOHAMMAD YOUNIS KUTTAY  
FIREMAN

On 06.10.2009 a call was received in Srinagar fire control room informing that fire has occurred in the Shahenshah Palace Hotel, Boulevard Road, Dalgate. Immediately on receipt of call, fire tenders were rushed to the spot from Gawkadal and Batamaloo Fire Stations. On reaching the scene of incidents the officer-in-charge alongwith crew members started fire fighting operations to control the spread of fire to the neighbouring buildings mostly hotels. In spite of great danger to their lives from fire and hot gases emanating in the hotel building, Divisional Officer Shri Ghulam Nabi Sheikh, Station Officer Shri Mohamad Akaram Guroo, Fireman Shri Rafiq Ahmad Parray and Shri Mohammad Younis Kutty rescued all the guests.

2. Divisional Officer Shri Ghulam Nabi Sheikh, Station Officer Shri Mohamad Akaram Guroo, Fireman Shri Rafiq Ahmad Parray and Shri Mohammad Younis Kutty thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 06.10.2009.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 123-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Orissa Fire Service: -

**SHRI DHABALESWAR PRADHAN**  
FIREMAN

2. On 16.08.2010 at 1750 hours a call was received at Bhanjanagar Fire Station informing that a man has fallen in a well at village Kuliangi, P.S. Gangapur Distt. Ganjam. Immediately on receipt of call, Shri Gopal Ch. Moharana, Station Officer with his team rushed to the spot. On reaching the scene of incident the officer-in-charge observed that a man has fallen in the well and lying unconscious and nobody in the crowd is ready to go inside. Knowing fully well the presence of poisonous gases Shri Dhableswar Pradhan, Fireman dared to enter the well and tied a rope around the waist of the victim. The crew thus managed to pull out the victim as well as Sh. Dhableswar Pradhan, Fireman both in unconscious condition. Shri Dhableswar Pradhan, Fireman and the victim were rushed to the Government hospital for treatment.

3. Fireman Shri Dhableswar Pradhan thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 16.08.2010.

**BARUN MITRA**  
Jt. Secy.

No. 124-Pres/2011 - The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned Officer of Orissa Fire Service: -

**SHRI SITAKANTA MOHANTA**  
FIREMAN

On 05<sup>th</sup> July, 2010 at 1040hours a call was received at the Rourkela Fire Station informing that two persons have fallen in a deep well at Bisra, Distt. Sundargarh. Immediately on receipt of call, Shri Pravakar Pradhan alongwith his team rushed to the spot. On reaching at the scene of incident the officer-in-charge observed that two persons are lying unconscious position in the well. Without wasting time Shri Sitakanta Mohanta, Fireman dared to go down in the well with the help of a rope. When he reached at about 20 feet deep he felt difficulty in breathing due to shortage of oxygen and came out. Then two fans were operated at different levels to pump in fresh air in the well. Shri Mohanta tried again. In spite of all difficulties he managed to reach the bottom of the well and rescued both of them one after another and also giving artificial respiration. Both the injured persons were rushed to the Bishra Community Health Centre for further treatment.

2. Fireman, Shri Sitakanta Mohanta thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 05.07.2010.

**BARUN MITRA**  
Jt. Secy.

No. 125-Pres/2011—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers:-

SHRI VED PRAKASH KAUSHIK  
INSTRUCTOR CIVIL DEFENCE  
DELHI

SHRI DALJIT SINGH POONIA  
SENIOR STAFF OFFICER (HG)  
HARYANA

SHRI SANJIV KUMAR  
JUNIOR STAFF OFFICER (HG)  
HARYANA

SHRI HARI SUKH SAUKTA  
COMMANDANT (HG)  
HIMACHAL PRADESH

SHRI SHREE GIAN NEGI  
COMPANY COMMANDER (HG)  
HIMACHAL PRADESH

SHRI RAM SWAROOP SINGH  
PLATOON COMMANDER (HG)  
RAJASTHAN

SHRI M. SALAI BAJAVANNAN  
AREA COMMANDER (HG)  
TAMIL NADU

SHRI RITU RAJ  
DY. DIVISIONAL WARDEN (CD)  
UTTAR PRADESH

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 126-Pres/2011—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:-

SHRI LAKHIRAM BORDOLOI  
DIVL. COMMANDANT (HG)  
ASSAM

SHRI PRAFULLA CHETIA  
RESERVE INSPECTOR  
ASSAM

SHRI DEBEN CHETIA  
SUBEDAR (HG)  
ASSAM

SHRI FIRANTA DAS MANIKPURI  
DISTRICT COMMANDANT (HG)  
CHHATTISGARH

SHRI CHAMAR RAI BHOYAR  
COMPANY COMMANDER (HG)  
CHHATTISGARH

SHRI MATHURESH KUMAR CHANDRAKAR  
HAV. STOREMAN (HG)  
CHHATTISGARH

SHRI BASANT LAL SHUKLA  
NAIK (HG)  
CHHATTISGARH

SHRI GIRWAR SINGH  
INSTRUCTOR CIVIL DEFENCE  
DELHI

SHRI KIRAN PAL SINGH  
JUNIOR DISTT. STAFF OFFICER (HG)  
DELHI

SHRI DALIP KUMAR  
JUNIOR INSTRUCTOR (HG)  
DELHI

SHRI GOKAL CHAND  
COMPANY COMMANDER (HG)  
HARYANA

SHRI ISHWAR DASS  
COMPANY COMMANDER (HG)  
HIMACHAL PRADESH

SMT. DEVA KUMARI  
PLATOON COMMANDER (HG)  
HIMACHAL PRADESH

MS. SUNITA DEVI  
COMPANY COMMANDER (HG)  
HIMACHAL PRADESH

SHRI CHANDRAKANT MACHCHHINDRA SONAWANE  
COMPANY COMMANDER (HG)  
MAHARASHTRA

SMT. RAJESHREE DEVJI LAKHAN  
PLATOON OFFICER (HG)  
MAHARASHTRA

SHRI MANGAL NAMDEO PATIL  
INSTRUCTOR (HG)  
MAHARASHTRA

SHRI ANSAR HUSSAIN MEHBOOB SHAIKH  
CENTRE COMMANDER (HG)  
MAHARASHTRA

SHRI ASHOK MAHADEO SARANG  
FIREMAN/RESCUER (CD)  
MAHARASHTRA

SMT. SUSHAMA SATISH KHATAVKAR  
HQS. OFFICER (CD)  
MAHARASHTRA

SHRI P.C. LALFALA  
ASSISTANT (HG)  
MIZORAM

SHRI BRIJ RAJ SINGH  
COMMANDANT (HG)  
RAJASTHAN

SHRI RAJENDER SINGH SHEKHAWAT  
PLATOON COMMANDER (HG)  
RAJASTHAN

SHRI RAMKUMAR CHATURVEDI  
PLATOON COMMANDER (HG)  
RAJASTHAN

SHRI SHIVRAJ SINGH RAJAWAT  
PLATOON COMMANDER (HG)  
RAJASTHAN

SHRI S.P. BALASUBRAMANIAN  
COMPANY COMMANDER (HG)  
TAMIL NADU

SHRI S. SUNDARARAJ  
PLATOON COMMANDER (HG)  
TAMIL NADU

SHRI V. CHANDRAN  
SECTION LEADER  
TAMIL NADU

SHRI N. NAGARAJAN  
COMPANY COMMANDER (HG)  
TAMIL NADU

SHRI VEER SAIN JAIN  
POST WARDEN (CD)  
UTTAR PRADESH

SHRI RAGHUVVEER SINGH GAUTAM  
DIVISIONAL WARDEN (CD)  
UTTAR PRADESH

SHRI ABHAY MISHRA SUDHIR  
DIVISIONAL WARDEN (CD)  
UTTAR PRADESH

SHRI ALOK KUMAR PANDEY  
POST WARDEN (CD)  
UTTAR PRADESH

SHRI NARENDRA KUMAR RAIKWAR  
INCIDENT CONTROL OFFICER  
UTTAR PRADESH

SHRI SHYAMENDRA KUMAR SAHU  
CHIEF ASSISTANT (HG)  
UTTRAKHAND

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 127-Pres/2011 – The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2011, to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel:-

SHRI K. DODDAKAMAIHAH  
ASSISTANT SUPERINTENDENT  
BANGALORE CENTRAL PRISON  
KARNATAKA

SHRI BRUNDABAN BEHERA  
JAILOR-CUM-SUPERINTENDENT  
ASKA SUB-JAIL  
ORISSA

2. These awards are made under rule 4 of the rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.



No. 128-Pres./2011- The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel :-

SMT RAJALA SHARADA  
SUPERINTENDENT (DEPUTY SUPERINTENDENT)  
SPECIAL PRISON FOR WOMEN, RAJAHMUNDRY  
ANDHRA PRADESH

SHRI SHAIK YOUSUF  
CHIEF HEAD WARDER  
HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI GANAGADARA MALLESHAM  
HEAD WARDER, DISTRICT JAIL  
KARIMNAGAR  
ANDHRA PRADESH

SHRI SHIVAN RAM THAKUR  
ASSITANT JAIL SUPDT  
CENTRAL JAIL, RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI RAMESHWAR DUTT  
HEAD WARDER  
CENTRAL JAIL, TIHAR  
DELHI

SHRI DINESH SHARMA  
SUPRINTENDENT JAIL  
CENTRAL JAIL, SRINAGAR  
JAMMU & KASHMIR

SHRI FAROOQ AHMAD SHAWL  
SUPRINTENDENT JAIL  
DISTRICT JAIL, BARAMULLA  
JAMMU & KASHMIR

SHRI HARISH CHANDRA JENA  
SUB-ASSISTANT JAILOR  
BARIPADA CIRCLE JAIL  
ORISSA

SMT V. SIVAGAMI  
GRADE I WARDER (FEMALE)  
SPECIAL PRISON FOR WOMEN, VELLORE  
TAMIL NADU

SMT S. RAJAM  
GRADE II WARDER(FEMALE)  
FEMALE SPECIAL SUB JAIL  
KOKKIRAKULAM  
TAMIL NADU

SHRI C. JOGAIAH  
ASSISTANT SUPERINTENDENT  
MYSORE  
KARNATAKA

SHRI A.J. MATHEW  
SUPERINTENDENT (DEPUTY JAILOR CATEGORY)  
SPECIAL SUB JAIL, PALAKKAD, THIRUVANANTHAPURAM  
KERALA

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medals for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 129-Pres/2011-The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2011, to award the President's Correctional Service Medal for Gallantry posthumously to Shri Raghbir Singh, Warder, Central Jail, Patiala, Punjab.

In December 2008 Ravinder Singh @ Chhanga, a dacoit who was lodged at Central Jail, Patiala was taken to Rajindra Hospital, Patiala because of his infirmity and admitted as a patient. Shri Raghbir Singh, Warder was then on duty at the Hospital. On the night of December 06, 2008, some accomplices of the dacoit with fire-arms barged in the hospital in an attempt to free him. The undertrial Ravinder Singh was taken away from the ward and though alone and outnumbered, Shri Raghbir Singh single-handedly took them on. He chased and grappled with them all along as they took away the under-trial in MUV Scorpio and tried to escape. The brave jawan unmindful for his own safety stood in front of their vehicle and tried to stall the escape. But he was ruthlessly crushed under the getaway vehicle as the criminals managed to escape. Shri Raghbir Singh while performing his duty with exemplary courage lost his life.

This award is made under Rule 4(iv) of the rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance as is admissible under Rule 5 with effect from 6.12.2008.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 130-Pres/2011- The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2011, to award the Correctional Service Medal for Gallantry to Shri Tadaka Shiva Shankar, Warder, Central Prison, Warangal, Andhra Pradesh.

On the night of 19.03.2007, when Shri Tadaka Shiva Shankar was on duty four prisoners attempted to escape from Central Prison, Warangal. He prevented them with courage and conviction at high security Block-II of the Jail, when four prisoners broke out of the cell by dislodging rod of the cell from the welding done at bottom, by force using bed sheet, when sentry was away on rounds at other area of his duty. They switched off the lights in the area and hid themselves at the entrance cell of the block. When Shri Tadaka Shiva Shankar, Warder arrived at that place, they pounced upon him and tried to strangle him. He resisted them with courage, shouted loudly in order to alert other warders. A siren was also sounded and the four prisoners realizing that escape was now impossible went back into cell, crawling through the way, through which they had come out. His valour was appreciated by superior officers and also reported in the press and electronic media.

This award is made under Rule 4(iv) of the rules governing the grant of Correctional Service Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance as is admissible under Rule 5 with effect from the 6.12.2008.

No. 131- Pres/2011 – The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers : -

SHRI RAJIV TRIVEDI  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
ANDHRA PRADESH POLICE ACADEMY  
HIMAYAT SAGAR, HYDERABD  
ANDHRA PRADESH

SHRI R. P. THAKUR  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
TECHNICAL SERVICES, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI VAJJA VENUGOPALA KRISHNA  
JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI P. MADHUSUDANA RAO  
SUB-DIVISIONAL POLICE OFFICER  
TENALI SUB DIVISION, GUNTUR DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI SYED SIRAJUDDIN  
INSPECTOR OF POLICE  
SPECIAL INTELLIGENCE BRANCH, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI PALLAB BHATTACHARYYA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CENTRAL WESTERN RANGE, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI PRATUL CHANDRA PHUKON  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
WESTERN RANGE, BONGAIGAON  
ASSAM

SHRI ARUN CHANDRA VERMA  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
BIHAR MILITARY POLICE, PATNA  
BIHAR

SHRI SUNIL KUMAR  
SPECIAL SECRETARY  
HOME DEPARTMENT  
GOVERNMENT OF BIHAR, PATNA  
BIHAR

SHRI RAVINDRA KUMAR JHA  
SERGEANT MAJOR  
PATNA DISTRICT  
BIHAR

SHRI MOHD WAZIR ANSARI  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE/DIRECTOR  
PUBLIC PROSECUTION, RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI A S KHAN  
DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
HOME GUARDS, DELHI  
N.C.T OF DELHI

SHRI RAJAN BHAGAT  
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
PRO&CRO  
N.C.T OF DELHI

SMT. YASHODA RAWAT  
INSPECTOR(EXE)  
CAW/CELL/ S.S. PURI/ SED  
N.C.T OF DELHI

SHRI GUNVANTRAY DEVRAM TRIVEDI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
VALSAD DISTRICT, VALSAD  
GUJARAT

SHRI TEJPAL SINGH BISHT  
SECRETARY (HOME)  
GANDHINAGAR, GOVERNMENT OF GUJARAT  
GUJARAT

SHRI K SELVARAJ  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE/PERSONNEL  
PANCHKULA  
HARYANA

SHRI K K SINDHU  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
AMBALA RANGE, AMBALA CANTT.  
HARYANA

SHRI HARDESH BISHT  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
SOLAN  
HIMACHAL PRADESH

SHRI S M SAHAI  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KASHMIR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI DILBAGH SINGH  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
JAMMU  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI REZI DUNGDUNG  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
RANCHI ZONE  
JHARKHAND

SHRI PRAVEEN SOOD  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE &  
ADDITONAL COMMISSIONER OF POLICE  
BANGLORE CITY  
KARNATAKA

SHRI PADAM KUMAR GARG  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE & MD, MPM  
KPTCL, BANGALORE  
KARNATAKA

SHRI K V GAGAN DEEP  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
NER, GULBARGA  
KARNATAKA

SHRI U.P. SHIVARAMA REDDY  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
CHITRADURGA DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI MAHESH KUMAR SINGLA  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (PCR)  
POLICE HEAD QUARTERS, THIRUVANANTHAPURAM  
KERALA

SHRI N GOPALAKRISHNAN  
DISTRICT POLICE CHIEF  
KOLLAM CITY  
KERALA

SHRI UMAKANT LAL  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL (COMPLAINT & HUMAN  
RIGHT)  
PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI SWARN SINGH  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE (AJK)  
PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

DR SHAILENDRA KUMAR SHRIVASTAVA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
BHOPAL ZONE, BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI KAILASH NATH TIWARI  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CID, PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI PRAVIN NARAYAN DIXIT  
PRINCIPAL SECRETARY (SPECIAL)  
HOME DEPARTMENT, MANTRALAYA MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI BHAGWANT DATTAJIRAO MORE  
SPECIAL INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KOLHAPUR RANGE, KOLHAPUR  
MAHARASHTRA

SHRI MEGHSHYAM RAMCHANDRA MALEGAONKAR  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
BARAMATI, PUNE (RURAL)  
MAHARASHTRA

SHRI LISHAM IBOBI SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
STATE VIGILANCE COMMISSION  
MANIPUR

SHRI BISHNU RAM RANA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE(CID)  
SHILLONG  
MEGHALAYA

SHRI SANJEEV MARIK  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
HEADQUARTERS, CUTTACK  
ORISSA

SHRI SURENDRA PANWAR  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
VIGILANCE, CUTTACK  
ORISSA

SHRI RAJPAL MEENA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PATIALA  
PUNJAB

SHRI PARAMJIT SINGH GILL  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE,  
ZONAL-I, PATIALA  
PUNJAB

DR SUDHAKAR JAUHARI  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
RAJASTHAN POLICE TRAINING CENTRE, JODHPUR  
RAJASTHAN

SHRI MAHIPAL SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
CID(CB) JAIPUR  
RAJASTHAN



SHRI SANJEEV KUMAR  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
HEADQUARTERS, OFFICE OF THE DGP  
MYLAPORE, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI M. ASHOKKUMAR  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
Q BRANCH, CID CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI VIJAY SINGH YADAV  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE (ADMN)  
AGARTALA  
TRIPURA

SHRI RAM NARAYAN SINGH  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
EOW, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI ASHOK KUMAR DHAR DWIVEDI  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI BHANU PRATAP SINGH  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PAC, EASTERN ZONE, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI PRATAP KUMAR SRIVASTAVA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
INTELLEGENGE HQRS, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAJ BAHADUR YADAV  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BASTI  
UTTAR PRADESH

SHRI ANIL K RATUR  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
INTELLIGENCE/ SECURITY, DEHRADUN  
UTTARAKHAND

SHRI K HARI RAJAN  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
TELECOMMUNICATION, 3 MANIK BANDOPADHYAY SARANI,  
KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI ANIL KUMAR JANA  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
SOUTH DIVISION, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI ASIT BARAN SIL  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
DETECTIVE DEPARTMENT (STF), KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI K.N. KALIAPERUMAL  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
FOOD CELL  
PUDUCHERRY

SHRI ARUN KUMAR SINHA  
INSPECTOR GENERAL  
FTR HQ BSF GUJARAT, PO CRPF GROUP CENTRE  
GANDHINAGAR, GUJARAT  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PRADEEP KISHEN WAHAL  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (AIR)  
AIR WING, CGO COMPLEX, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MANOHAR LAL BATHAM  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL /PSO  
FTR HQ, M&C , MASIMPUR,  
ARUNACHAL, DISTRICT CACHAR (ASSAM)  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SRI RAM DAS  
SECOND IN COMMAND  
61 BN BSF , KHASIAMANGAL,  
TELIAMURAH TRIPURA (WEST)  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ARVIND MISHRA  
DEPUTY COMMANDANT  
121 BN, PRAHARI NAGAR,  
TURA DISTRICT, WEST GARO HILLS, MEGHALAYA  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BHANU PRATAP BAGCHI  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
ACB DEHRADUN  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI RAMAN RAJARAM TYAGI  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
CBI ACADEMY, GHAZIABAD  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SOMRAJ THAKUR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
SC-II, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SANTRAM NAGAR  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
CBI ACADEMY, GHAZIABAD  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI JAGDISH CHAND  
HEAD CONSTABLE  
SC-II, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SWARAJ BIR SINGH  
INSPECTOR GENERAL  
FHQ, CGO COMPLEX, NEW DELHI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI VELANGANNY MARIA JOSEPH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
CISF UNIT, NLC NAYVELI (TAMIL NADU)  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RAVINDER KUMAR SHARMA  
COMMANDANT (LOCAL RANK)  
AMRITSAR AIRPORT, PUNJAB  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

DR. N.C. ASTHANA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
BLOCK NO.11 OLD SECRETARIAT, CIVIL LINES, DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI K S BHANDARI  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
PROVISIONING BRANCH (MT/ORD)  
FHQ, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PRADEEP KUMAR SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SRINAGAR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SATENDER PAL SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
COMMUNICATION BRANCH, FHQ, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI C H VIJAYAN  
ADMINISTRATIVE OFFICER  
WESTERN SECTOR HQR, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI A.S RAJAN  
JOINT DIRECTOR  
AHMEDABAD  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SWAGAT DAS  
JOINT DIRECTOR  
HQRS, NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI N.P SINGH  
ASSISTANT DIRECTOR  
PATNA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI Y.K. CHAUDHRY  
ASSISTANT DIRECTOR  
HQRS, NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI H.A. SAH  
ASSISTANT DIRECTOR  
GUWAHATI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A.P. BARNWAL  
ASSISTANT DIRECTOR  
HQRS, NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI P.K. BHARDWAJ  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S. SARWATE  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
JAIPUR  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI HARBHAJAN SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
NW FRONTIER, CHANDIGARH  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI RAM KANWAR SAINI  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SHQr, ITANAGAR  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI RAJ KUMAR DHIREN SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SHQr (TEZPUR), SONITPUR (ASSAM)  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SATYA LAL SARKAR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SECTOR HQRS, PITHORAGARH  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI BHANU UPADHYAY  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SECTOR HQRS, BONGAIGAON, ASSAM  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI G. PREMACHANDRAN  
SUB-INSPECTOR  
HYDERABAD  
SVP N.P.A

SHRI G. RAVI  
HEAD CONSTABLE/GD  
HYDERABAD  
SVP N.P.A

SHRI KHADAK SINGH THAKUR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
HQ, NEW DELHI  
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

SHRI MAHAN BHARAT SAGAR  
CHIEF VIGILANCE OFFICER  
THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LIMITED  
MUMBAI, MAHARASHTRA  
MINISTRY OF SHIPPING

SHRI S. BALASUBRAMANIAN  
ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER/ SO TO CSC  
RAILWAY PROTECTION FORCE, SOUTHERN RAILWAY,  
CHENNAI  
M/O RAILWAYS

SHRI TUSHAR KANTI CHATTOPADHYAY  
ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER  
RAILWAY PROTECTION FORCE  
CSC OFFICE/WCR  
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4 (ii) of the rules governing the grant of President's Police Medal for Distinguished service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 132-Pres/2011 – The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2011 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers: -

DR R S PRAVEEN KUMAR  
JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
OFFICE OF COMMISSIONER OF POLICE  
HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI V. V. SRINIVASA RAO  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE & JOINT  
DIRECTOR  
ANDHRA PRADESH POLICE ACADEMY,  
HIMAYAT SAGAR, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI ATUL SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
RAILWAYS, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI MAHESH MURALIDHAR BHAGWAT  
JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
OFFICE OF COMMISSIONER OF POLICE  
BASHEERBAGH, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SMT SWATI LAKRA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
HYDERABAD RANGE  
ANDHRA PRADESH

SHRI A. ABRAHAM LINCOLN  
JOINT DIRECTOR  
ANTI-CORRUPTION BUREAU, CITY REGION, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI CH. VENKATESWARLU  
SQUADRON COMMANDER/ADDITIONAL COMMANDANT  
GREYHOUNDS, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI MURUGANI KISTAIAH  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
MIRCHOWK DIVISION, SOUTH ZONE, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI N. CHANDRA SEKHAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
ANTI-CORRUPTION BUREAU, HYDERABAD RANGE,  
HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI V. SURENDER REDDY  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
VIGILANCE & ENFORCEMENT DEPARTMENT  
HQ, TASK FORCE, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI G. MURALI KRISHNA  
ASSISTANT COMMANDANT  
6TH BN. APSP, MANGALAGIRI, GUNTUR DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI M. MADHUSUDHAN REDDY  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
CYBER CRIMES, CYBERABAD, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI A.S. MOHAMMED ISMAIL  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
SANTOSHNAGAR DIVISION, SOUTH ZONE, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI VASAM DEVENDER KUMAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
HOME GUARD, CYBERABAD  
ANDHRA PRADESH



SHRI SHAIK SYED BASHA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CID, CSO, OFFICE OF DGP, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI MADHAVARAPU MADHUSUDANA RAO  
INSPECTOR OF POLICE  
LALAPET POLICE STATION, GUNTUR DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI TIRUPATI SRINIVASA VENKATARAMANA  
INSPECTOR OF POLICE  
ANTI-CORRUPTION BUREAU, CITY RANGE-1, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI CHAMARTHI JAYARAMA RAJU  
INSPECTOR  
INTELLIGENCE, KADAPA ZONE  
ZONAL INTELLIGENCE OFFICE,  
ANDHRA PRADESH

SHRI NARENDER NARAYANRAO CHUNGI  
INSPECTOR OF POLICE  
COUNTER INTELLIGENCE CELL, INTELLIGENCE  
ANDHRA PRADESH

SHRI B. SANKARA RAO  
RAILWAY POLICE SUB-INSPECTOR  
VIJAYAWADA RS  
ANDHRA PRADESH

SHRI ABDUL RASHEED  
ASSISTANT RESERVE SUB-INSPECTOR  
ISW, KHAIRATABAD, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SHRI M. PRATHAP  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
DISTRICT CRIME RECORD BUREAU  
KRISHNA DISTRICT, MACHILIPATNAM  
ANDHRA PRADESH

SHRI K. ARUN KUMAR  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
TRAINING CENTRE, JADCHERLA  
MAHABUBNAGAR DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI GUNDETI KANKAIAH  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE  
DISTRICT CRIME RECORD BUREAU, KARIMNAGAR,  
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE  
ANDHRA PRADESH

SHRI M. MOHANJEE  
HEAD CONSTABLE  
OFFICE OF INSPR. COMMNS. MAHABUBNAGAR  
ANDHRA PRADESH

SHRI B. BALAPPA  
HEAD CONSTABLE  
POLICE TRAINING COLLEGE, ANANTAPUR  
ANDHRA PRADESH

SHRI K. YADAGIRI REDDY  
ARMED RESERVE HEAD CONSTABLE  
CYBER CRIMES, CID, HYDERABD  
ANDHRA PRADESH

SHRI MANERI ROSHAIAH  
HEAD CONSTABLE  
PTM POLICE STATION, CHITTOOR DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI PEDIREDLA VENKATA SATYANARAYANA  
SUB-INSPECTOR OF POLICE  
CID, RCIU, VISAKHAPATNAM  
ANDHRA PRADESH

SHRI BADA POCHAIAH  
HEAD CONSTABLE  
PCR, RANGE CRIME CONTROL SQUAD  
NIZAMABAD DISTRICT  
ANDHRA PRADESH

SHRI B. SATYANARAYANA MURTHY  
HEAD CONSTABLE  
ANDHRA PRADESH POLICE ACADEMY  
HIMAYAT SAGAR, HYDERABAD  
ANDHRA PRADESH

SMT. D. NAYOMI  
WOMEN POLICE CONSTABLE  
1- TOWN POLICE STATION  
ANDHRA PRADESH

SHRI DEVESH CHANDRA SRIVASTVA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PHQ ITANAGAR  
ARUNACHAL PRADESH

SHRI LOD TARI  
SUB-INSPECTOR  
PO & PS- MAHADEVPUR  
DISTRICT LOHIT  
ARUNACHAL PRADESH

SHRI LAL BABU SINGHA  
SUPERINTENDENT OF POLICE (COMMUNICATION)  
ASSAM POLICE RADIO ORGANIZATION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI INDRA KALITA  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE  
VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION BUREAU, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI BHAGINDRA MAHANTA  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (OPR.)  
ASSAM POLICE RADIO ORGANIZATION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI PANKAJ BIHARI KAKATI  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (TECHNICAL)  
ASSAM POLICE RADIO ORGANIZATION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI BASANTA BAISHYA  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
STATE FIRE SERVICE ORGANIZATION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI BIREN CHANDRA BAISHYA  
CONSTABLE  
VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI RAJEN CHANDRA BARUAH  
CONSTABLE  
VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI DIMBESWAR KATHAT  
CONSTABLE  
ASSAM POLICE RADIO ORGANIZATION, GUWAHATI  
ASSAM

SHRI SUSHIL KHOPDE  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
SHAHABAD RANGE, DEHRI-ON-SONE  
BIHAR

SHRI MD. RAHMAN  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
SAHARSA  
BIHAR

SHRI BIJAY KUMAR VERMA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
BHAGALPUR  
BIHAR

SHRI SURESH KUMAR  
SERGEANT MAJOR  
PATNA TRAFFIC, PATNA  
BIHAR

SHRI RAKESH KUMAR BRAHMCHARI  
INSPECTOR OF POLICE  
CID HQRS, PATNA  
BIHAR

SHRI BINOD KUMAR TIWARI  
SUB-INSPECTOR  
OFFICE OF THE ZONAL INSPECTOR GENERAL  
PATNA ZONE, PATNA  
BIHAR

SHRI ARJUN RAM  
HAVILDAR  
CID HQRS, PATNA  
BIHAR

SHRI UDAI RAM  
HAVILDAR  
BIHAR MILITARY POLICE-14, PATNA  
BIHAR

SHRI EJAZ AHMAD KHAN  
SEPOY  
SPECIAL BRANCH, PATNA  
BIHAR

SHRI DINESH KUMAR PASWAN  
CONSTABLE  
OFFICE OF DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
OLD SECRETARIAT, PATNA  
BIHAR

SHRI ASHOK KUMAR OJHA  
CONSTABLE  
OFFICE OF DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
OLD SECRETARIAT, PATNA  
BIHAR

SHRI MAHARAJ KANISKA KUMAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU, PATNA  
BIHAR

SHRI VISHWANATH RAI  
CONSTABLE  
VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU, PATNA  
BIHAR

SHRI PAWAN DEO  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
ADMINISTRATION, PHQ RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI HETRAM MANHER  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE (CID)  
PHQ RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI JAYANT BANDYOPADHYAY  
INSPECTOR  
SPECIAL BRANCH, PHQ RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI PHOOL DEO MISHRA  
SUB-INSPECTOR (MT)  
POLICE LINE RAJANANDGAON  
CHHATTISGARH

MISS KRISHNA SISODIYA  
ASSISTANT SUB -INSPECTOR  
SPECIAL BRANCH, PHQ RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI BIR BAHADUR RAI  
SECTION COMMANDER  
2ND BN, CAF BILASPUR  
CHHATTISGARH

SHRI SURESH BAHADUR RAI  
ASSISTANT PLATOON COMMANDER  
8TH BN, I/R CAF RAJNANDGAON  
CHHATTISGARH

SHRI SANTHA RAM SAHU  
HEAD CONSTABLE  
9TH BN, CAF DANTEWADA  
CHHATTISGARH

SHRI DABAL BAHADUR  
HEAD CONSTABLE  
10TH BN, CAF SARGUJA  
CHHATTISGARH

SHRI JAGAT BAHADUR  
HEAD CONSTABLE  
12TH BN, CAF RAMANUJGANJ  
CHHATTISGARH

SHRI GANESH RAM GURUPANCH  
HEAD CONSTABLE  
AJK SECTION, KABIRDHAM  
CHHATTISGARH

SHRI SATYA NARAYAN DEWANGAN  
PS TO DGP/INSPECTOR (M)  
RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI KRISHNA KUMAR SHRIVASTAVA  
SENIOR REPORTER  
SPECIAL BRANCH, PHQ RAIPUR  
CHHATTISGARH

SHRI UDAY KANT CHOUDHARY  
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
SECURITY LINES, NEW DELHI  
N.C.T OF DELHI

SMT. KAMLESH KUMARI  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
CPCR/PHQ  
N.C.T OF DELHI

SHRI RAJINDER SINGH MANKU  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
ACBT/EOW  
N.C.T OF DELHI

SHRI JAI KISHAN  
INSPECTOR  
CRIME BRANCH  
N.C.T OF DELHI

SHRI KARAM CHAND NEGI  
INSPECTOR  
SECURITY UNIT  
N.C.T OF DELHI

SHRI SANJEEV KUMAR TYAGI  
INSPECTOR  
EOW, CRIME BRANCH, NEW DELHI  
N.C.T OF DELHI

SHRI SAWAI SINGH  
INSPECTOR  
OFFICE OF SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE  
CRIME BRANCH/PHQ  
N.C.T OF DELHI

SMT. SHARDA DEVI  
W/SUB-INSPECTOR (EXECUTIVE)  
EAST DISTRICT  
N.C.T OF DELHI

SMT. VEENA BALA  
W/SUB-INSPECTOR(SUPERVISOR/OPERATION)  
COMMUNICATION UNIT  
OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
N.C.T OF DELHI

SHRI BALRAJ SINGH  
SUB-INSPECTOR  
(SUPERVISOR/COMMUNICATION-TECHNICAL)  
COMMUNICATION UNIT  
OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
N.C.T OF DELHI

SHRI OMKAR SINGH  
SUB-INSPECTOR  
SECURITY UNIT  
N.C.T OF DELHI

SHRI KARAN SINGH  
SUB-INSPECTOR  
SECURITY WING, VINAY MARG  
N.C.T OF DELHI

SHRI CHAND SINGH  
SUB-INSPECTOR  
PTC  
N.C.T OF DELHI



SHRI KRISHAN SWAROOP  
SUB-INSPECTOR  
SECURITY UNIT, VINAY MARG  
N.C.T OF DELHI

SHRI YAD RAM MEENA  
SUB-INSPECTOR (EXECUTIVE)  
FRRO  
N.C.T OF DELHI

SHRI SOHAN PAL  
SUB-INSPECTOR(MIN)  
SPECIAL BRANCH  
N.C.T OF DELHI

SHRI FAZIL ALI KHAN  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (EXECUTIVE)  
NORTH-WEST DISTRICT  
N.C.T OF DELHI

SHRI BIJENDER SINGH  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (EXECUTIVE)  
SECURITY UNIT, NEW DELHI  
N.C.T OF DELHI

SHRI BALBIR SINGH  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
PTC  
N.C.T OF DELHI

SHRI CHARAN SINGH  
HEAD CONSTABLE (ARMOROUR)  
NORTH-EAST DISTRICT  
N.C.T OF DELHI

SHRI TONY M. FERNANDES  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
SECURITY & IMMIGRATION, PHQ PANAJI  
GOA

SHRI MALEK NASRULLA AHMEDMIYA  
UNARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE  
OFFICE OF JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
CRIME BRANCH, AHMEDABAD CITY  
GUJARAT

SHRI PARMAR SAMJIBHAI TALSIBHAI  
UNARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE  
PALANPUR CITY POLICE STATION  
DISTRICT BANASKANTHA  
GUJARAT

SHRI MAGANBHAI JOITABHAI VAGHELA  
INTELLIGENCE OFFICER  
OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF  
POLICE  
INTELLIGENCE, GANDHINAGAR  
GUJARAT

SHRI PARMAR PRAVINCHANDRA HARILAL  
UNARMED HEAD CONSTABLE  
LOCAL CRIME BRANCH, PALANPUR  
GUJARAT

SHRI RATHOD GIRVARSINH MAHENDRASINH  
UNARMED POLICE HEAD CONSTABLE  
OFFICE OF JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
CRIME BRANCH, AHMEDABAD CITY  
GUJARAT

SHRI GOHEL MOHANBHAI LAVJIBHAI  
UNARMED HEAD CONSTABLE  
VIGILANCE BRANCH  
OFFICE OF DG & IGP, GANDHIGANGAR  
GUJARAT

SHRI MAKRANI ABDULWAHAB ABDULKADAR  
UNARMED POLICE CONSTABLE  
VADODARA RURAL  
GUJARAT

SHRI BABULAL RAMLAL PANDOR  
ARMED HEAD CONSTABLE  
GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED  
POLICE STATION SABARMATI, AHMEDABAD  
GUJARAT

SHRI HITESH NALINKANT JANI  
ARMED POLICE CONSTABLE  
PCB CONTROL, RAJKOT CITY  
GUJARAT

SHRI BAVALIYA DHIRUBHAI JERAMBHAI  
ARMED POLICE CONSTABLE  
SRPF GR.11, VAV, SURAT  
GUJARAT

SHRI GAMIT GAMANLAL KASANJIBHAI  
ARMED POLICE CONSTABLE  
SRPF GR.11, VAV, SURAT  
GUJARAT

SHRI PARMAR HAMIRBHAI HIRABHAI  
ARMED POLICE CONSTABLE  
SRPF GR.11, VAV, SURAT  
GUJARAT

SHRI CHITRANJAN SINGH  
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL & DIRECTOR  
ACB, DAFNALA, SHAHIBAGH, AHMEDABAD  
GUJARAT

SHRI VIJAYRAJSINGH GAUTAM  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
AND CHIEF VIGILANCE OFFICER  
GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED, VADODARA  
GUJARAT

SHRI ISHVARBHAI DESAI  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CID CRIME & RAILWAYS, GANDHINAGAR  
GUJARAT

SHRI SANDEEP KHIRWAR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE/CID  
PANCHKULA  
HARYANA

SHRI VED PARKASH GODARA  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE /COMMANDANT  
1<sup>ST</sup> BATTALION, HARYANA ARMED POLICE, AMBALA CITY  
HARYANA

SHRI SURESH KUMAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CHIEF MINISTER SECURITY, PANCHKULA  
HARYANA

SHRI GHANSHYAM  
INSPECTOR  
LINE OFFICER, TELECOM PANCHKULA  
HARYANA

SHRI PARAS RAM  
SUB INSPECTOR  
INCHARGE SPECIAL CELL, CID HQRS, PANCHKULA  
HARYANA

SHRI BHUPINDER SINGH  
SUB INSPECTOR  
VIGILANCE/HVPNL PANCHKULA  
HARYANA

SHRI RAMESH CHAND  
SUB INSPECTOR  
TH BATTALION, HARYANA ARMED POLICE, MADHUBAN  
HARYANA

SHRI AVTAR SINGH  
EXEMPTEE SUB INSPECTOR  
GOVERNMENT RAILWAY POLICE, AMBALA CITY  
HARYANA

SHRI RAM NIWAS  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
CHANDIGARH  
HARYANA

SHRI CHATTAR BHUJ  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GURGAON  
HARYANA

SHRI ONKAR SINGH  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
IT CELL/TELECOM PANCHKULA  
HARYANA

SHRI RAM KUMAR  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
HARYANA POLICE ACADEMY, MADHUBAN  
HARYANA

SHRI KAPIL SHARMA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
PRISON  
HIMACHAL PRADESH

SHRI ANAND KUMAR DHIMAN  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
SHIMLA  
HIMACHAL PRADESH

SHRI MUKESH KUMAR BAKSHI  
INSPECTOR  
SV&ACB, SOLAN  
HIMACHAL PRADESH

SHRI BABU RAM  
HEAD CONSTABLE  
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF POLICE, SHIMLA  
HIMACHAL PRADESH

SHRI ABDUL GHANI MIR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CENTRAL KASHMIR RANGE, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI KAILASH CHANDER  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
PRINCIPAL, STC TALWARA  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SAIF DIN SHAH  
SUPERINTENDENT OF POLICE/ COMMANDANT  
AUX POLICE, 1ST BN, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI RANJIT KANWAR MANHAS  
SUPERINTENDENT OF POLICE/ COMMANDANT  
IRP-19TH BN, JAMMU  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ABDUL RASHID BHAT  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
AHJ, AIRPORT, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ASHOK KUMAR SHARMA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
PRINCIPAL PTS KATHUA  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHAN LAL KAITH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
SDPO (SOUTH), GANDHI NAGAR, JAMMU  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI GUL MIR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
HQRS, CRIME BRANCH, KASHMIR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI BASHIR AHMAD KHAN  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DAR BUDGAM  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHD. RAJAB  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
TELECOM, RAJOURI  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI GULZAR AHMAD SHAH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
PHQ, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SONAM WANGCHOK  
INSPECTOR  
DPL. LEH  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI NAZIR AHMAD BHAT  
INSPECTOR  
IRP -7TH. BN., BARAMULLA  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI KULDEEP SINGH  
SUB-INSPECTOR(M)  
PHQ, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SHABIR AHMAD KHAN  
SUB-INSPECTOR  
SOG, ANANTNAG  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI HARBANS LAL  
SUB-INSPECTOR  
CRIME BRANCH, JAMMU  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MUZAFFAR HUSSAIN MALIK  
SUB-INSPECTOR  
CID, SBK, SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI BABU RAM  
HEAD CONSTABLE  
SKPA UDHAMPUR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI GHULAM AHMAD GANIE  
HEAD CONSTABLE  
PCR SRINAGAR  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI GHULAM NABI BHAT  
HEAD CONSTABLE  
IRP 18TH BN, AWANTIPORA  
JAMMU AND KASHMIR

SHRI KISHAN SINGH MEENA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
JHARKHAND ARMED POLICE , RANCHI  
JHARKHAND

SHRI NIRMAL KUMAR MISHRA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENEREAL  
CID, RANCHI  
JHARKHAND

SHRI RAM NATH SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
TRAFFIC RANCHI  
JHARKHAND

SHRI KISHORE CHANDRA  
SERGEANT MAJOR  
PHQ DHURWA, RANCHI  
JHARKHAND

SHRI DENJU KUMAR SHERPA  
HAVALDAR  
STF (J.J) DHURWA, RANCHI  
JHARKHAND

SHRI BULBUL RAI  
HAVALDAR  
STF (J.J) DHURWA, RANCHI  
JHARKHAND

SHRI SHAILENDRA KUMAR  
CONSTABLE  
CID JHARKHAND  
JHARKHAND

SHRI SATYA NARAYAN PANDEY  
CONSTABLE  
OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL, CID  
JHARKHAND

DR B A MAHESH  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
BANGALURU DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI T R SURESH  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
TUMKUR DISTRICT, TUMKUR  
KARNATAKA

SHRI ISHWARCHANDRA VIDYASAGAR  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KOPPAL DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI DODDAIAH DHARMAIAH  
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
VVIP SECURITY  
POLICE COMMISSIONER OFFICE, BANGALORE CITY  
KARNATAKA



SHRI S. TURUVEKERE SHAKUNIAIAH NATARAJA  
COMMANDANT  
III BN KSRP, BANGALORE  
KARNATAKA

SHRI S.M. JAGADEESH PRASAD  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KLA, TUMKUR DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI SHIVASHANKARAPPA GURUBASAPPA OTAGERI  
SUPERINTENDENT OF POLICE/PRINCIPAL  
ARMED POLICE TRAINING SCHOOL, MEENAHALLI, HAGARI  
BELLARY DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI MOODI KAJJER SOLABESHWARAPPA  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
CHICKPET SUB DIVISION, BANGALORE CITY  
KARNATAKA

SHRI H.M. ONKARAIHAH  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
SHESHADRIPURAM SUB-DIVISION  
BANGALORE CITY  
KARNATAKA

SHRI S.G. VIJAYAKUMAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
INTELLIGENCE, MYSORE  
KARNATAKA

SHRI G. HANUMANTH REDDY  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
INTELLIGENCE, TUMKUR  
KARNATAKA

SHRI P. PRAKASH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
FINGER PRINT BUREAU, EASTERN RANGE  
DAVANGERE  
KARNATAKA

SHRI N.S. PATIL  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
NORTH SUB DIVISION, HUBLI CITY  
KARNATAKA

SHRI K. PRABHAKARA BAYARI  
POLICE INSPECTOR  
HALSUR GATE, TRAFFIC POLICE STATION  
BANGALORE CITY  
KARNATAKA

SHRI T. VENKATESH  
POLICE INSPECTOR  
MADIVALA TRAFFIC POLICE STATION, BANGALORE CITY  
KARNATAKA

SHRI T RAVINDRA KUMAR  
POLICE INSPECTOR (WIRELESS)  
DISTRICT CONTROL ROOM, MANDYA  
KARNATAKA

SHRI M.P. NAGARAJ  
CIRCLE POLICE INSPECTOR  
HONNALI CIRCLE, DAVANGERE DISTRICT  
KARNATAKA

SHRI S SAMIULLA  
POLICE SUB INSPECTOR  
INTELLIGENCE, CHITRADURGA  
KARNATAKA

SHRI PRABHAKAR  
SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR  
III BN KSRP, BANGALORE  
KARNATAKA

SHRI T.V. RAMACHANDRAIAH  
HEAD CONSTABLE  
ORGANIZED CRIME WING  
CENTRAL CRIME BRANCH, BANGALORE CITY  
KARNATAKA

SHRI H. RAMASWAMY  
HEAD CONSTABLE  
INTELLIGENCE, CHAMARAJANAGAR  
KARNATAKA

SHRI C S BHOOPANNA  
HEAD CONSTABLE  
IX BN KSRP BANGALORE  
KARNATAKA

SHRI T K VINOD KUMAR  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE &  
DEPUTY DIRECTOR (ESTT&SR.C)  
SVP NPA, HYDRABAD  
KERALA

SHRI YOGESH GUPTA  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE /CHAIRMAN & MD  
KERALA CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED, KOCHI  
KERALA

SHRI MANOJ ABRAHAM  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE/  
DISTRICT POLICE CHIEF  
THIRUVANANTHAPURAM CITY  
KERALA

SHRI JACOB JOB  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
TELECOMMUNICATION, PATTOM  
THIRUVANANTHAPURAM CITY  
KERALA

SHRI M MURALEEDHARAN NAIR  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
POLICE COMPUTER CENTRE  
SCRB, PATTOM, THIRUVANANTHAPURAM  
KERALA

SHRI C. SOFI  
COMMANDANT  
KAP V BATTALION, MANIYAR  
KERALA

SHRI K S SKARIA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
VIGILANCE & ANTI CORRUPTION BUREAU, SPECIAL CELL  
KOZHIKODE  
KERALA

SHRI SREEKUMAR K S  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, NARCOTICS CELL  
THIRUVANANTHAPURAM CITY  
KERALA

SHRI K C KURIACHAN  
ARMED POLICE INSPECTOR  
KAP 4 BN  
KERALA

SHRI P RAJAN  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (GRADE-SI)  
SB CID, KANNUR  
KERALA

SHRI VIJAYAN K  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (GRADE-SI)  
CI OFFICE, PAYYANUR  
KERALA

SHRI ANIL KUMAR GUPTA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
HOSHANGABAD RANGE, HOSHANGABAD  
MADHYA PRADESH

SMT MEENAKSHI SHARMA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
NARCOTICS, INDORE  
MADHYA PRADESH

SHRI A SAI MANOHAR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (ADMN)  
PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI K P VENKATESHWAR RAO  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PHQ JAHANGIRABAD, BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI ARVIND KUMAR SAXENA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
STATE BUREAU OF INVESTIGATION OF ECONOMIC  
OFFENCES BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI UMASHANKAR GOSWAMI  
SECTION COMMANDER  
13TH BN SAF GWALIOR  
MADHYA PRADESH

SHRI RAMSAKHA TIWARI  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
KATNI  
MADHYA PRADESH

SHRI SHAMBU SINGH CHUNDAWAT  
HEAD CONSTABLE  
MANDSAUR DISTRICT  
MADHYA PRADESH

SHRI SHIROMANI SINGH YADAV  
HEAD CONSTABLE  
CID A/D, DATIA  
MADHYA PRADESH

SHRI DINESH SINGH KUSHWAH  
HEAD CONSTABLE  
17 BN SAF BHIND  
MADHYA PRADESH

SHRI GANI MOHAMMAD  
HEAD CONSTABLE  
POLICE STATION, TRAFFIC, RATLAM  
MADHYA PRADESH

SHRI RAM SHARAN SINGH  
HEAD CONSTABLE  
24TH BN SAF JAORA, RATLAM  
MADHYA PRADESH

SHRI ASHOK KUMAR PATHAK  
HEAD CONSTABLE  
DISTRICT SAGAR  
MADHYA PRADESH

Ku. AZRA KAZMI  
SUBEDAR (M)  
SCRB, PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI NARENDRA KUMAR GANGRADE  
SUBEDAR (M)  
OFFICE OF THE DGP, PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI SHIRISH SHARAD PALKAR  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (M)  
SPECIAL BRANCH, PHQ BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SHRI HARI SINGH YADAV  
CONSTABLE  
SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT, GWALIOR DIVISION  
MADHYA PRADESH

SHRI ABDUL NAIM KHAN  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (M)  
STATE BUREAU OF INVESTIGATION OF ECONOMIC  
OFFENCES BHOPAL  
MADHYA PRADESH

SMT LATA BIRBAL SHIRSATH  
DEPUTY COMMISSIONER  
SID MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI ARVIND SAKHARAM MAHABDI  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
VAKOLA DIVISION, MUMBAI CITY  
MAHARASHTRA

SHRI RAVIKANT DIGAMBAR MALEKAR  
POLICE INSPECTOR  
VITTHALWADI POLICE STATION, THANE CITY  
MAHARASHTRA

SHRI RAVINDRA DNYANESHWAR RATANJANKAR  
POLICE INSPECTOR  
SID, MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI RAJESH AUDUMBER DUDDALWAR  
POLICE INSPECTOR  
ACB, NAGPUR  
MAHARASHTRA

SHRI DEEPAK NARSU DHOLE  
POLICE INSPECTOR  
N M JOSHI MARG POLICE STATION, MUMBAI CITY  
MAHARASHTRA

SHRI SURESH EKNATHRAO WANKHEDE  
POLICE INSPECTOR  
SPECIAL BRANCH, AURANGABAD CITY  
MAHARASHTRA

SHRI SHAILESH PRABHAKAR JADHAV  
POLICE INSPECTOR  
HUMAN RESOURCE, S P OFFICE, NASHIK RURAL  
MAHARASHTRA

SHRI ARUN SHIVAJI WAYKAR  
POLICE INSPECTOR  
ACB, PUNE  
MAHARASHTRA

SHRI SANJAY AKARAM PATIL  
POLICE INSPECTOR  
LCB RAIGAD  
MAHARASHTRA

SHRI PRADIP PARSHURAM KANNALU  
POLICE WIRELESS INSPECTOR  
C P, NAVI MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI BHAGWAN RAMCHANDRA PATIL  
ASSISTANT POLICE INSPECTOR  
ACB, PUNE  
MAHARASHTRA

SHRI SAKHARAM GOPAL DESAI  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
SANGAVI POLICE STATION, PUNE CITY  
MAHARASHTRA

SHRI MANIKRAO RAGHUNATH CHACHE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
PCR, KOLHAPUR  
MAHARASHTRA

SHRI VIKRAM KASHINATH UBALE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
M T SECTION, AURANGABAD CITY  
MAHARASHTRA

SHRI UTTAM RAMRAO HOLSAMBRE  
ARMED ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
SRPF GR XI, NAVI MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI SHEIKH KADAR SHEIKH JABBAR SHEIKH  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
M T SECTION, GONDIA  
MAHARASHTRA

SHRI MEHBOOB ABDUL SHEIKH  
ARMED ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
SRPF GR.VIII MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI WAMAN JIVABA GODSE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
YERWADA POLICE STATION, PUNE CITY  
MAHARASHTRA

SHRI BHOJRAJ GOKUL MALODE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
NAGPUR, CITY  
MAHARASHTRA

SHRI PADMAKAR DATTATRAY NAWRANGE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
OSMANPURA POLICE STATION  
AURANGABAD CITY  
MAHARASHTRA

SHRI PRATAP PRABHAKAR KULKARNI  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
ACB OSMANABAD  
MAHARASHTRA



SHRI SURESH MURLIDHAR KHARAT  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
SOUTH CONTROL ROOM, MUMBAI CITY  
MAHARASHTRA

SHRI DNYANDEO SHIVRAM MHETRE  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
MUNDHWA POLICE STATION, PUNE CITY  
MAHARASHTRA

SHRI CHANDRAKANT BAPU CHAVAN  
ASSISTANT POLICE SUB INSPECTOR  
D S B, THANE (RURAL)  
MAHARASHTRA

SHRI JAGMOHANPRASAD TRIBHUVANPRASAD TIWARI  
POLICE HEAD CONSTABLE  
RAILWAY NAGPUR  
MAHARASHTRA

SHRI SURESH BHAURAO BHALEKAR  
POLICE HEAD CONSTABLE  
AGIRPADA POLICE STATION, MUMBAI CITY  
MAHARASHTRA

SHRI JAMSINGH MANSINGH GIRASE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
CONTROL ROOM, NANDURBAR  
MAHARASHTRA

SHRI KIRAN NAMDEORAO INGOLE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
RAILWAY NAGPUR  
MAHARASHTRA

SHRI TETURLIYAN THOMAS ALPHANSO  
POLICE HEAD CONSTABLE  
PHQ SINDHUDURG  
MAHARASHTRA

SHRI BABASAHEB ANNASAHEB MANE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
L C B SANGLI  
MAHARASHTRA

SHRI RAMCHANDRA TUKARAM AMTE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
DISTRICT SPECIAL BRANCH, BEED, SP OFFICE  
MAHARASHTRA

SHRI VASANT TATYABA ZANZANE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
DADAR RAILWAY POLICE STATION, MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI RAVINDRA PADMAKAR THOMBARE  
HEAD CONSTABLE/DRIVER  
M T SECTION, SATARA  
MAHARASHTRA

SHRI VISHNU GOPAL NAGALE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
SANGMESHWAR POLICE STATION, RATNAGIRI  
MAHARASHTRA

SHRI MANGESH KRISHNARAO SURVE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
SINDHUDURG  
MAHARASHTRA

SHRI SUBARAO SHANKAR LAD  
POLICE HEAD CONSTABLE  
SWARGATE POLICE STATION, PUNE CITY  
MAHARASHTRA

SHRI PRAKASH MANSING JADHAV  
POLICE HEAD CONSTABLE  
LCB SATARA  
MAHARASHTRA

SHRI RAMESH MAHADEV NAIK  
POLICE HEAD CONSTABLE  
SANGLI POLICE STATION  
MAHARASHTRA

SHRI JAMES ANTHONI REDDY  
POLICE HEAD CONSTABLE  
M T SECTION PHQ, BEED  
MAHARASHTRA

SHRI HANMANT MAHADEV DERE  
HEAD CONSTABLE  
PANVEL CITY POLICE STATION, NAVI MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI UMARAO KARU SHARNAGAT  
POLICE HEAD CONSTABLE  
RAMNAGAR POLICE STATION, GONDIA  
MAHARASHTRA

SHRI SHAHAJI PUNDLIK JADHAV  
POLICE HEAD CONSTABLE  
VISHRAMBAGH POLICE STATION, SANGLI  
MAHARASHTRA

SHRI KISHORE GOVIND JOSHI  
POLICE HEAD CONSTABLE  
ATS MUMBAI  
MAHARASHTRA

SHRI PANDHARINATH RAMBHAU DHAKNE  
POLICE HEAD CONSTABLE  
MT SECTION, PHQ JALNA  
MAHARASHTRA

SHRI L. KAILUN  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (RANGE-I)  
IMPHAL WEST  
MANIPUR

SHRI ISHAK SHAH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
BISHNUPUR DISTRICT  
MANIPUR

SHRI R K TEJBIR SINGH  
INSPECTOR  
OC/CITY POLICE STATION  
MANIPUR

SHRI SARANGTHEM GOPENDRO SINGH  
SUB INSPECTOR  
NARCOTICS AND AFFAIRS OF BORDER  
MANIPUR

SHRI ADDISON ROY MAWTHOH  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
EAST KHASI HILLS, SHILLONG  
MEGHALAYA

SHRI RICKY DKHAR  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
WEST GARO HILLS, TURA  
MEGHALAYA

SHRI CHOUENLAI SANGMA  
INSPECTOR  
TURA DSB  
MEGHALAYA

SHRI P.C. LALCHHUANAWMA  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PHQ, AIZAWL  
MIZORAM

SHRI L.R. DINGLIANA SAILO  
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE  
PRINCIPAL, POLICE TRAINING CENTRE  
THENZAWL  
MIZORAM

SHRI LALZUIMAWIA  
INSPECTOR  
1ST BN, MIZORAM ARMED POLICE  
MIZORAM

SHRI ROTHIHU TETSEO  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KOHIMA  
NAGALAND

SHRI SELICHEM SEJONGMONG SANGTAM  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
WOKHA  
NAGALAND

SHRI THEGUOLHOULIE ANGAMI  
HAVILDAR  
DEF, KOHIMA  
NAGALAND

DR (MRS.)SANTOSH BALA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
NCR, TALCHER  
ORISSA

SHRI DAYANIDHI GOCHHAIT  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KHORDHA DISTRICT  
ORISSA

SHRI RAMESH CHANDRA BEHERA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
CID, CRIME BRANCH, CUTTACK  
ORISSA

SHRI SURENDRA KUMAR SAHU  
DEPUTY COMMANDANT  
SPECIAL OPERATION GROUP, BHUBANESWAR  
ORISSA

SHRI SASHI BHUSAN MISHRA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK  
ORISSA

SHRI JAYAGOPAL PARIJA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK  
ORISSA

SHRI SAROJ KUMAR RATHA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CID, CRIME BRANCH, CUTTACK  
ORISSA

SHRI KSHETRAMOHAN MOHAPATRA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
HRPC, CUTTACK  
ORISSA

SHRI BIRENDRA KUMAR SASMAL  
ASSISTANT COMMANDANT  
SPECIAL INTELLIGENCE WING, UNIT IV, BHUBANESWAR  
ORISSA

SHRI RADHANATH NAYAK  
INSPECTOR OF POLICE  
SECURITY WING, BHUBANESWAR  
ORISSA

SHRI RAJ KUMAR NEWAR  
SUBEDAR  
OSAP 2ND BN, JHARSUGUDA  
ORISSA

SHRI NABA KISHORE MOHANTY  
SUBEDAR  
OSAP, 6<sup>TH</sup> BN, CUTTACK  
ORISSA

SHRI CHAKRADHAR MOHAPATRA  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE  
JAGATSINGHPUR DISTRICT  
ORISSA

SHRI PARIKSHITA DASH  
HAVILDAR  
APR, I.I.T, BHUBANESWAR  
ORISSA

SMT SHASHI PRABHA DWIVEDI  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CRIME, CHANDIGARH  
PUNJAB

SHRI AMIT PRASAD  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
ITBP, GANGTOK, EAST SIKKIM  
PUNJAB

SHRI PROMOD BAN  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PATIALA RANGE, PATIALA  
PUNJAB

SHRI MOHD FAIYAZ FAROOQUI  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
ROOPNAGAR RANGE, ROOPNAGAR  
PUNJAB

SHRI MUKHVINDER SINGH CHHINA  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
WELFARE & LITIGATION, CHANDIGARH  
PUNJAB

SHRI SURINDER KUMAR KALIA  
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
JALANDHAR  
PUNJAB

SHRI HARMANBIR SINGH GILL  
COMMANDANT  
3RD IRB, LUDHIANA  
PUNJAB

SHRI PRITPAL SINGH THIND  
SUPERINTENDENT OF POLICE (DETECTIVE)  
SANGRUR  
PUNJAB

SHRI MAHI PAL  
INSPECTOR  
POLICE COMMANDO TRAINING CENTRE, PATIALA  
PUNJAB

SHRI AJAY KUMAR  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
INTELLIGENCE HQRS, CHANDIGARH  
PUNJAB

SMT. MALWINDER KAUR  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (WOMEN)  
TRAFFIC STAFF GURDASPUR  
PUNJAB

SHRI ASHOK KUMAR SHARMA  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
RESERVE POLICE LINE, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI CHANDRA KANT PANT  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
POLICE TELE COMMUNICATION, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI ASHOK KUMAR PUNJABI  
INSPECTOR  
POLICE TELE COMMUNICATION, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI BHARAT SINGH  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
SHO, MEHANDWAS POLICE STATION,  
DISTRICT TONK  
RAJASTHAN

SHRI NATHU LAL  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
CID(CB), DISCOM JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI ASHU SINGH  
PLATOON COMMANDER  
4TH BATTALION, RAC, CHAINPURA, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI LADU SINGH  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
M O B, OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE  
SIKAR DISTRICT  
RAJASTHAN

SHRI DEVAKI NANDAN SHARMA  
ASSISTANT SUB INSPECTOR  
O/O OF THE ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE (HQ)  
ALWAR DISTRICT  
RAJASTHAN

SHRI NIRANJAN GEHLOT  
HEAD CONSTABLE  
CRIME BRANCH, DISTRICT JODHPUR  
RAJASTHAN

SHRI SAMPAT SINGH  
HEAD CONSTABLE  
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
RAILWAYS, JAIPUR  
RAJASTHAN



SHRI BHAGWANA RAM VISHNOI  
HEAD CONSTABLE  
RAJASTHAN POLICE TRAINING CENTRE, JODHPUR  
RAJASTHAN

SHRI PEP SINGH RAJPUT  
HEAD CONSTABLE  
1ST BATTALION, RAC, JODHPUR  
RAJASTHAN

SHRI MADAN SINGH  
HEAD CONSTABLE  
RESERVE POLICE LINE  
JAIPUR ATTACH POLICE HEADQUARTERS, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI BALA KRISHNAN NAIR  
CONSTABLE/DRIVER  
8TH BATTALION, RAC (IR), GAZIPUR, DELHI  
RAJASTHAN

SHRI SHER SINGH  
CONSTABLE  
DISTRICT SPECIAL BRANCH  
DISTRICT ALWAR  
RAJASTHAN

SHRI DEVI SINGH  
CONSTABLE  
O/O THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE  
ANTI CORRUPTION BUREAU, JAIPUR  
RAJASTHAN

SHRI BHIM KUMAR TAMANG  
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE  
NORTH DISTRICT, MANGAN  
SIKKIM

SHRI DAWA TAMANG  
SUB-INSPECTOR  
SIKKIM ARMED POLICE  
SIKKIM

SHRI G VENKATARAMAN  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
SALEM RANGE  
TAMIL NADU

SHRI P. MURALI  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI S. JAYAPANDIAN  
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
LAW AND ORDER, TRICHY CITY  
TAMIL NADU

SHRI A CHANDRASEKARAN  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
DINDIGUL DISTRICT  
TAMIL NADU

SHRI N. SIVANANTHAM  
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE  
ARMED RESERVE, CHENNAI POLICE  
TAMIL NADU

SHRI K. BALRAJ  
COMMANDANT,  
TSP REGIONAL CENTRE, AVADI, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI M XAVIER BONEVENTURE STANLY  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
SATHANKULAM SUB DIVISION, THOOTHUKUDI DISTRICT  
TAMIL NADU

SHRI P. BALASUBRAMANIAN  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
SPECIAL DIVISION, SIU, VELLORE DISTRICT  
TAMIL NADU

SHRI P. PANNEERSELVAM  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/VICE PRINCIPAL  
POLICE RECRUIT SCHOOL, PERURANI  
TAMIL NADU

SHRI M. GIRIDHAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CONTROL ROOM  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI N. P. RAJENDRAN  
INSPECTOR OF POLICE  
V-5, THIRUMANGALAM L&O PS  
ANNA NAGAR DISTRICT, CHENNAI POLICE  
TAMIL NADU

SHRI E. SORIMUTHU  
INSPECTOR OF POLICE  
SPECIAL TASK FORCE, ERODE  
TAMIL NADU

SHRI K RAVI  
INSPECTOR OF POLICE  
TAMIL NADU COMMANDO FORCE, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI M. PALANIAPPAN  
SUB-INSPECTOR OF POLICE  
SPECIAL BRANCH, SALEM DISTRICT  
TAMIL NADU

SHRI P. SUBBIAH  
SPECIAL SUB-INSPECTOR OF POLICE  
HIGHWAY PATROL MONITORING CELL, HQRS, CHENNAI  
TAMIL NADU

SHRI G. SUNDARARAJAN  
HEAD CONSTABLE  
AMMAPET POLICE STATION, THANJAVUR DISTRICT  
TAMIL NADU

SHRI PRADIP PAUL  
SUPERINTENDENT OF POLICE (PROCUREMENT)  
A D NAGAR, AGARTALA  
TRIPURA

SMT. RAMA RAKSHIT  
SUPERINTENDENT OF POLICE(MTF)  
MTF ORGANISATION, AGARTALA, TRIPURA WEST  
TRIPURA

SHRI ARINDAM NATH  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE (HQr)  
AGARTALA  
TRIPURA

SHRI SOUMITRA DHAR  
SUPERINTENDENT OF POLICE (CID)  
OFFICE OF THE SP (CID), AGARTALA  
TRIPURA

SHRI PINTU DEBBARMA  
SUB-DIVISIONAL POLICE OFFICER  
JIRANIA  
TRIPURA

SHRI SANAT KUMAR PAUL  
INSPECTOR OF POLICE  
ROI (WEST)  
TRIPURA

SHRI PRANAB SENGUPTA  
INSPECTOR OF POLICE  
WEST TRIPURA  
TRIPURA

SHRI DIPESH CHANDRA DATTA  
SUBEDAR (GD)  
HQRS 1ST BN, TSR  
GOKULNAGAR, WEST TRIPURA  
TRIPURA

SHRI SANJOY KUMAR BHOWMIK  
SUB-INSPECTOR  
KUMERGHAT POLICE STATION, NORTH TRIPURA  
TRIPURA

SHRI ABHAY KUMAR PRASAD  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KARMIK, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAVI KUMAR LOKKU  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
PAC, LUCKNOW SECTOR, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI GYAN SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
BASTI RANGE, BASTI  
UTTAR PRADESH

SHRI RAM SHANKAR  
COMMANDANT  
44TH BN. PAC, MEERUT  
UTTAR PRADESH

SHRI RATAN KUMAR SRIVASTAVA  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KANSHIRAM NAGAR  
UTTAR PRADESH

SHRI VIJAY KUMAR DIXIT  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
SCRB, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

Km. SRIPARNA GONGULEE  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BARABANKI  
UTTAR PRADESH

SHRI YOGESH SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DR. BHIMRAO AMBEDKER POLICE ACADEMY, MORADABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI KRISHNA BAHADUR SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT MUZAFFARNAGAR  
UTTAR PRADESH

SMT. GEETA SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
MSP, CB CID, HQ LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI JAGDISH SHARMA  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE/  
DEPUTY COMMANDANT  
38 BN, PAC, ALIGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI DILIP KUMAR  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT KUSHI NAGAR  
UTTAR PRADESH

SHRI RAVINDRA NATH RAI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
RAILWAY GORAKHPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI RAKESH PRAKASH SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
SECURITY HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI ASHOK KUMAR PANDEY  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT HAMIRPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI JAI PRAKASH SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
PTC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI JAGAT RAM JOSHI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT MAHA MAYA NAGAR (HATHRAS)  
UTTAR PRADESH

SHRI HARISH KUMAR  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT VARANASI  
UTTAR PRADESH

SHRI BIJENDRA PAL SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
C.M. SECURITY, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI MAHESH SINGH RANA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BADAUN  
UTTAR PRADESH

SHRI VINOD KUMAR SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/  
ASSISTANT COMMANDANT  
49 BN, PAC, MAU  
UTTAR PRADESH

SHRI RAM PRATAP SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE/  
DEPUTY COMMANDANT  
26 BN, PAC, GORAKHPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI KEHAR SINGH RANA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
LIU, MORADABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI KHILAWAN LAL CHOWDHARY  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT MAHOBA  
UTTAR PRADESH

SHRI GANGA NATH TRIPATHI  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BULANDSHAHAR  
UTTAR PRADESH

SHRI KHALIKUJJAMA KHAN  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT PRATAPGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI SRI KRISHNA  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT AGRA  
UTTAR PRADESH

SHRI SHYAM NATH SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
SCRB, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI VISHWANATH RAM  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT SONBHADRA  
UTTAR PRADESH

SMT. SHAKUNTALA DEVI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BIJNOR  
UTTAR PRADESH

SHRI AWADH BEHARI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
POLICE RECRUITMENT AND PROMOTION BOARD,  
LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI VIKRAM SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT RAMPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI IQBAL SINGH MALIK  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT BULANDSHAHR  
UTTAR PRADESH

SHRI JAWAHAR  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT DEORIA  
UTTAR PRADESH

SHRI ANIL KUMAR SINGH  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/ DEPUTY  
COMMANDANT  
36 BN, PAC, VARANASI  
UTTAR PRADESH



SHRI KRIPA SHANKER SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
CBCID HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SATYENDRA KUMAR SINGH  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
CBCID HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI MOHD. MOSIM  
PLATOON COMMANDER  
43 BN, PAC, ETAH  
UTTAR PRADESH

SHRI AHIBARAN SINGH  
HEAD CONSTABLE  
45 BN, PAC, ALIGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI GOBARDHAN UPADHYAY  
HEAD CONSTABLE (MT)  
DISTRICT DEORIA  
UTTAR PRADESH

SHRI MAHAVIR SINGH  
PLATOON COMMANDER  
8 BN, PAC, BAREILLY  
UTTAR PRADESH

SHRI ABDUL JALIL  
CONSTABLE (DRIVER)  
GRP, JHANSI  
UTTAR PRADESH

SHRI BABU LAL YADAV  
COMPANY COMMANDER  
36 BN, PAC, VARANASI  
UTTAR PRADESH

SHRI BHRAGU NATH SINGH  
PLATOON COMMANDER  
02 BN, PAC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI RATI RAM  
CONSTABLE  
DISTRICT ALIGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI SATYAVEER  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT BAREILLY  
UTTAR PRADESH

SHRI DEVI SHARAN SINGH  
HEAD CONSTABLE  
ATS HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI VEERENDRA KUMAR SINGH  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT BARABANKI  
UTTAR PRADESH

SHRI MUBIN MIAN  
RADIO STATION OFFICER  
DISTRICT SHAJAHANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI MURARI LAL  
RADIO STATION OFFICER  
RADIO HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAGHU NATH SINGH  
HEAD CONSTABLE  
27 BN, PAC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI LALLAN PRASAD MISHRA  
SUB-INSPECTOR(M)  
PHQ ALLAHABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI RIZWANULLAH  
CONSTABLE  
DISTRICT DEORIA  
UTTAR PRADESH

SHRI SURAJ PAL  
HEAD CONSTABLE  
38 BN, PAC, ALIGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI RAJENDRA SINGH  
HEAD CONSTABLE  
15 BN, PAC, AGRA  
UTTAR PRADESH

SHRI JANARDAN RAI  
SUB-INSPECTOR  
CHANDAULI  
UTTAR PRADESH

SHRI RAJESH KUMAR PATHAK  
HEAD CONSTABLE  
DISTRICT MATHURA, ATTACHED IG RANGE, AGRA  
UTTAR PRADESH

SHRI PRABHAT KUMAR SINGH  
HEAD OPERATOR  
DISTRICT SULTANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI SURENDRA SINGH  
CONSTABLE(DRIVER)  
STF LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAJ KUMAR OBEROI  
SUB-INSPECTOR(M)  
IG RANGE, KANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI RAMESH CHANDRA KANNAUJIYA  
SUB-INSPECTOR (M)/STENO  
CBCID, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI YOGENDRA NATH TRIPATHI  
CONSTABLE(MT)/DRIVER  
INTELLIGENCE HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAJ NARAYAN SHUKLA  
CONSTABLE  
DISTRICT MATHURA, ATTACHED IG RANGE, AGRA  
UTTAR PRADESH

SHRI SHANTI SWAROOP  
CONSTABLE  
DISTRICT GHAZIABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI RANVEER SINGH  
HEAD CONSTABLE  
45 BN, PAC, ALIGARH  
UTTAR PRADESH

SHRI SURYA PRAKASH YADAV  
CONSTABLE  
DISTRICT MAINPURI  
UTTAR PRADESH

SHRI RAMA KANT PANDEY  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT PRATAPGARH, ATTACHED PHQ, ALLAHABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI SWATENDRA PRAKASH SINGH  
CONSTABLE  
DISTRICT GHAZIPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI KARAM ALI  
CONSTABLE  
DISTRICT JALAUN  
UTTAR PRADESH

SHRI SUBHASH CHANDRA TIWARI  
CONSTABLE  
INTELLIGENCE HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SURESH SINGH YADAV  
HEAD CONSTABLE  
37 BN, PAC, KANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI DINESH CHANDRA SRIVASTAVA  
SUB-INSPECTOR(M)  
PHQ, ALLAHABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI JAGDHISH PRASAD VERMA  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT BALRAMPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI KANHAI LAL  
CONSTABLE (DRIVER)  
11 BN, PAC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI TEJ BAHADUR SINGH  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT SULTANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI RAM SINGH PAWAR  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT KHIRI  
UTTAR PRADESH

SHRI SHOBRATI KHAN  
HEAD CONSTABLE  
25 BN. PAC, RAEBAREILLY  
UTTAR PRADESH

SHRI SUGHAR SINGH  
HEAD CONSTABLE  
43 BN. PAC, ETAH  
UTTAR PRADESH

SHRI ZAMIRUL HASAN  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT HAMIRPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI CHANDRA SHEKHAR KAUSHIK  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SHIV CHARAN SINGH  
HEAD CONSTABLE(MT)  
44 BN, PAC, MEERUT  
UTTAR PRADESH

SHRI VIJAI NARAIN SINGH  
SUB-INSPECTOR(M)/STENO  
ACO HQ, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI BHAGWAN SINGH POKHARIA  
INSPECTOR (M)  
DIG PAC SECTOR, BAREILLY  
UTTAR PRADESH

SHRI ARJUN PRASAD  
PLATOON COMMANDER  
27 BN, PAC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI VIRENDRA SINGH YADAV  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT SHAHJAHANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI JAY NARAYAN  
CONSTABLE  
DISTRICT MAINPURI  
UTTAR PRADESH

SHRI JAHANGIR KHAN  
CONSTABLE (BIGULAR)  
12 BN, PAC, FATEHPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI KRISHNA PAL SINGH  
SUB-INSPECTOR(M)/STENO  
VIGILENCE ESTABLISHMENT, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI LAKSHENDRA KUMAR TOMAR  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT BARABANKI, ATTACHED SPECIAL ENQUIRY,  
LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI RAM BABU  
CONSTABLE  
DISTRICT PILIBHIT  
UTTAR PRADESH

SHRI MAHENDRA SINGH  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT BAREILLY  
UTTAR PRADESH

SHRI SHASHI KANT RAI  
CONSTABLE  
DISTRICT MAHARAJGANJ  
UTTAR PRADESH

SHRI WAJID ALI  
CONSTABLE  
DISTRICT GORAKHPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI BALAK RAM  
SUB-INSPECTOR(M)  
SP(R) INTELLIGENCE, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI BUDH SINGH  
CONSTABLE  
DISTRICT MEERUT  
UTTAR PRADESH

SHRI MAHENDRA SINGH  
SUB-INSPECTOR(Teacher)  
12 BN. PAC, FATEHPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI KAMLESHWAR SINGH  
CONSTABLE  
DISTRICT FAIZABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI RAM NARAYAN  
CONSTABLE  
GRP AGRA  
UTTAR PRADESH

SHRI RAMA SHANKAR DIXIT  
CONSTABLE  
U.P. POLICE RECRUITMENT & PROMOTION BOARD,  
LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SYED ALAMDAR HUSAIN RIZVI  
INSPECTOR  
U.P.P.C.L. LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SHYAMA KANT TRIPATHI  
INSPECTOR  
GRP LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI PRATAP NARAYAN GUPTA  
SUB-INSPECTOR(M)  
DISTRICT SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI NIRMAL KUMAR PANT  
DIM/CA TO ADG SIT  
SPEICAL INVESTIGATION TEAM, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI SURENDRA KUMAR  
CONSTABLE/DRIVER  
DISTRICT MORADABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI ATAR BAJ  
HEAD CONSTABLE  
2 BN. PAC, SITAPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI AMAR PAL SINGH  
SUB-INSPECTOR  
DISTRICT MORADABAD  
UTTAR PRADESH

SHRI VEER SINGH  
INSPECTOR  
DISTRICT SITAPUR  
UTTAR PRADESH



SHRI YASHVEER SINGH  
INSPECTOR  
DISTRICT BADAUN  
UTTAR PRADESH

SHRI BHAGWAN SAHAI  
INSPECTOR  
DISTRICT SHAHJAHANPUR  
UTTAR PRADESH

SHRI JAYENDRA SINGH SAJWAN  
PLATOON COMMANDER  
8 BN, PAC, BAREILLY  
UTTAR PRADESH

SMT. SATYA SINGH  
SUB-INSPECTOR  
EOW, LUCKNOW  
UTTAR PRADESH

SHRI ANANT RAM CHAUHAN  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT CHAMOLI  
UTTARAKHAND

SHRI VIJAY PAL SINGH  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
LAW & ORDER, POLICE HQRs, DEHRADUN  
UTTARAKHAND

SHRI RAM SARAN JAYANT  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
DISTRICT ALMORA  
UTTARAKHAND

SHRI RAJENDRA PRASAD BALONI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/  
CSO TO HON'BLE CHIEF MINISTER  
UTTARAKHAND

SHRI DHANI RAM  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE/  
ASSISTANT COMMANDANT,  
31 BN, PAC, RUDRAPUR  
UTTARAKHAND

SHRI PRABHAT CHANDRA SHARMA  
SUB-INSPECTOR(M)/ STENO  
POLICE HEAD QUARTER, DEHRADUN  
UTTARAKHAND

SMT. CHELLING SIMICK LEPCHA  
SPECIAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
NORTH BENGAL WING, SILIGURI  
WEST BENGAL

SHRI JAWED SHAMIM  
JOINT COMMISSIONER OF POLICE  
HQRS, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI BARUN KUMAR MULLICK  
SPECIAL INSPECTOR GENERAL AND DIGP  
TRAFFIC HQRS, KOLKATA  
WEST BENGAL

SMT. SARBARI BHATTACHARYA (GHOSH DASTIDAR)  
INSPECTOR OF POLICE  
CID  
WEST BENGAL

SHRI MAHBUBUL ALAM  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
HQF, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI SOVEN BANERJEE  
INSPECTOR OF POLICE  
3RD BN KAP, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI ASHOK KUMAR GURUNG  
SUB INSPECTOR  
O/o DIG, AP CELL, BARRACKPORE  
WEST BENGAL

SHRI ARDHENDU KUMAR BASU  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
6TH BN KAP, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI TAPAN KUMAR ROY  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CID  
WEST BENGAL

SHRI ASOKE BHATTACHARYA  
INSPECTOR OF POLICE  
INTELLIGENCE BRANCH, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI SANKAR CHOWDHURY  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
WIRELESS BRANCH, LALBAZAR, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI KAMAL KUMAR THAPA  
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE  
TRAFFIC DEPARTMENT, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI BRAJENDRA MOHAN DUTTA  
ARMED SUB INSPECTOR  
SADAR TRAFFIC  
WEST BENGAL

SHRI LAKSHMI KANTA MONDAL  
CONSTABLE  
DAP  
WEST BENGAL

SHRI MOHAN LAL PATHAK  
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE  
HEADQUARTER FORCE, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI KARTICK CHANDRA BOSE  
CONSTABLE  
WRITERS BUILDINGS, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI SATYA NARAYAN DEY  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (UB)  
PTC, BARRACKPORE  
WEST BENGAL

SHRI RAJ KUMAR MAITY  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
RESERVE OFFICE, BANKURA  
WEST BENGAL

SHRI GOUS-E-FIRDOUS  
SUBEDAR OF POLICE  
7 BN, KOLKATA ARMED POLICE, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI LAKSHMI KARMAKAR  
POLICE DRIVER  
INTELLIGENCE BRANCH, KOLKATA  
WEST BENGAL

SHRI RAJA KISKU  
SUBEDAR OF POLICE  
4 BATTALION, KAP  
WEST BENGAL

SHRI DILBAG SINGH  
HEAD CONSTABLE  
PHQ  
CHANDIGARH

SHRI PATEL BHAGWANJI RANCHHODJI  
POLICE SUB INSPECTOR  
MASAT OP  
DADRA AND NAGAR HAVELI

SHRI AJAY KUMAR  
SUPERINTENDENT OF POLICE  
KAVARATTI  
LAKSHADWEEP

SHRI A KRISHNARAJ  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
LAWSPET POLICE STATION  
PUDUCHERRY

SHRI RADHAKRISHNAN NAIR  
SECOND IN COMMAND  
MANTRIPUKHRI, MANIPUR  
HQ IGAR, SOUTH, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI RAJASHEKHAR NAYAK PANDAPPA  
DEPUTY COMMANDANT  
TRANSIT CAMP, DIMAPUR  
ASSAM RIFLES

SHRI MANBIR SINGH  
ASSISTANT COMMANDANT  
MANTRIPUKHRI, MANIPUR  
HQ IGAR, SOUTH, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI PADAM PRASAD UPADHYAY  
ASSISTANT COMMANDANT  
DIMAPUR, NAGALAND, NO.1 MAINT. GROUP  
ASSAM RIFLES

SHRI PAUKHOGIN GANGTE  
SUBEDAR MAJOR (CLERK)  
KOHIMA, NAGALAND  
HQ IGAR (NORTH), C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI BHUPAL SINGH  
SUBEDAR (ORL)  
HQ 26 SECTOR, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI MANDHOJ GHALE  
SUBEDAR MAJOR  
TUENSANG, NAGALAND, 1<sup>ST</sup> ASSAM RIFLES, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI BHUWAN DUTT BHATT  
NAIB SUBEDAR (GD)  
6 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI RADHE SHYAM MANDAL  
NAIB SUBEDAR (CLERK)  
6 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI PRITAM SINGH  
SUBEDAR(CLERK)  
MOKOKCHUNG, 9 ASSAM RIFLES, C/O 99 APO  
ASSAM RIFLES

SHRI SARVESH KUMAR TYAGI  
NAIB SUBEDAR (GD)  
THINGHAT, CHURACHANDPUR, MANIPUR  
ASSAM RIFLES

SHRI KEDAR SINGH KARKI  
SUBEDAR (GD)  
38 ASSAM RIFLES, AINA, MANIPUR  
ASSAM RIFLES

SHRI BISHNU PRASAD SUBEDI  
NAIB SUBEDAR (CLERK)  
LOAR, DELHI  
ASSAM RIFLES

SHRI RAM BALAK SINGH  
SUBEDAR MAJOR  
SHILLONG  
ASSAM RIFLES

DR. INDRAJIT  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (COMMUNICATION)  
FTR HQ BSF KASHMIR,  
SANATNAGAR, SRINAGAR (J&K)  
BORDER SECURITY FORCE

DR. KORABATHINA NARASIMHA RAO  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL /MEDICAL SUPERINTENDENT  
COMPOSITE HOSPITAL  
PO-ZEMABAWK , AIZAWL  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SURESH CHAND YADAV  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
BSF ACADEMY TEKANPUR  
GWALIOR, MADHYA PRADESH  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MAHENDRA SINGH DEO  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
FHQ, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JITENDRA KUMAR RUDOLA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
FRONTIER HQRS, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SURJIT SINGH  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
FHQ, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PUSHPENDRA SINGH RATHORE  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
FRONTIER HQRS, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ARJUN SINGH RATHORE  
COMMANDANT  
SHQ BSF JAISALMER (SOUTH) DABLA  
DISTRICT JAISALMER, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MOHEMMED BELAL KHAN  
COMMANDANT  
192 BN, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SURESH CHANDRA YADAV  
COMMANDANT  
HQ 182 BN BSF, C/O 56 APO  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RANVEER SINGH SHAKTAWAT  
COMMANDANT  
FHQ, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI AJIT KUMAR TETE  
COMMANDANT(Ops)  
HQ SPECIAL DG(EAST)  
KOLKATA, WEST BENGAL  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJIVA RANJAN SHARMA  
COMMANDANT  
SHQ BSF GUWAHATI, PO-HAZARA  
DISTRICT KAMRUP, GUWAHATI, ASSAM  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KUNAL MAZUMDAR  
COMMANDANT  
CSMT BSF TEKANPUR  
GWALIOR, MADHYA PRADESH  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI K H NITIVI SEMA  
COMMANDANT  
111 BN BSF SATAKHA, NAGALAND, C/O 99 APO  
BORDER SECURITY FORCE

DR (MRS) NEERJA KUMARI CHAUHAN  
COMMANDANT (MEDICAL)/CHIEF MEDICAL OFFICER (SG)  
COMPOSITE HOSPITAL  
BSF CAMPUS, JALANDHAR CANT, PUNJAB  
BORDER SECURITY FORCE

DR DURGA PRASAD PATNAIK  
COMMANDANT(MEDICAL)/CHIEF MEDICAL OFFICER (SG)  
FTR HQ BSF TRIPURA, SALBAGAN,  
AGARTALA, TRIPURA (WEST)  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ARVIND DUTT ABDALI  
DEPUTY COMMANDANT (IT)  
IT WING , FHQ BSF, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI TRIBENI KUMAR MAHAPATRA  
DEPUTY COMMANDANT  
10 BN BSF RADHABRI, PO-BHUTKI DANGAPARA  
DISTRICT JALPAIGURI, WEST BENGAL  
BORDER SECURITY FORCE



SHRI MANMOHAN SINGH RAWAT  
DEPUTY COMMANDANT  
173 BN, OLD AIR FIELD, TURIAL PO-ZEMABAWK  
DISTRICT AIZAWL  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MOHD. SHANE AHMAD  
DEPUTY COMMANDANT (PROV)  
HQ DG BSF CGO COMPLEX, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MURLI SINGH TANWAR  
DEPUTY COMMANDANT  
43 BN BSF PO-MAMDOT, DISTRICT FEROPUR, PUNJAB  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI LAKHWINDER SINGH SAHI  
DEPUTY COMMANDANT  
73 BN BSF, AMBASSA, PO-AMBASSA  
DISTRICT TRIPURA (WEST)  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI NARENDRA PAL SINGH  
DEPUTY COMMANDANT /SO TO DG, BSF  
HQ DG BSF CGO COMPLEX, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI L KHUZHETO SEMA  
ASSISTANT COMMANDANT  
111 BN BSF SATAKHA (NAGALAND), C/O 99 APO  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI GIRISH CHANDRA JOSHI  
DEPUTY COMMANDANT  
193 BN BSF, R S PURA, C/O 56 APO  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI HEMRAJ SONI  
ASSISTANT COMMANDANT  
150 BN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SUKHVIR SINGH  
ASSISTANT COMMANDANT (TECH)  
STS BSF BANGALORE  
PO-YELAHANKA, BANGALORE, KARNATAKA  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JARNAIL SINGH DADWAL  
ASSISTANT COMMANDANT  
148 BN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BABU THOMAS  
ASSISTANT COMMANDANT  
STS BSF BANGALORE  
PO-YELAHANKA, BANGALORE, KARNATAKA  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BHASKARAN ASHOKAN  
ASSISTANT COMMANDANT (PS)  
HQ DG BSF, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI T V BALAN  
ASSISTANT COMMANDANT (MIN)  
FTR HQ BSF BANGALORE AIR FORCE STATION  
PO-YELEHANKA, BANGALORE  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI HARI PRASAD THAPLIYAL  
INSPECTOR  
22 BN BSF PO-ALAMGANJ  
DISTRICT DHUBRI, ASSAM  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BHOLA SINGH  
INSPECTOR  
CSWT BSF, INDORE, MADHYA PRADESH  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM KRISHNA CHATTERJEE  
INSPECTOR  
12 BN BSF, SEEMANAGAR CAMPUS,  
PO-SEEMANAGAR, DISTRICT NADIA, WEST BENGAL  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JAGRAM SINGH YADAV  
INSPECTOR(MIN)  
33 BN BSF, HISAR, HARYANA  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BALJEET SINGH  
INSPECTOR  
30 BN BSF, FALLIAN WALA, JALALABAD  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SURAJ BHAN YADAV  
INSPECTOR  
65 BN BSF KHASA, PO-CHHEHRATA  
DISTRICT AMRITSAR, PUNJAB  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RANJIT SINGH BISHT  
INSPECTOR  
SHQ BSF BIKANER, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SATISH CHAND KATOCH  
INSPECTOR  
153 BN BSF SHIKAR  
DISTRICT GURDASPUR, PUNJAB  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI NAHAR SINGH  
INSPECTOR  
195 BN PO-POKHARAN,  
DISTRICT JAISALMER, RAJASTHAN  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI INDER SINGH  
INSPECTOR  
13 BN BSF KOIRENGI, IMPHAL, MANIPUR  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI P L KUMARESAN  
INSPECTOR (TECH)  
STS BSF BANGALORE  
YELEHANKA BANGALORE  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJ KUMAR  
INSPECTOR (CIPHER)  
SHQ, BHUJ, KUTCH(GUJARAT)  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MOHINDER SINGH  
SUB INSPECTOR (G)  
HQ DG BSF, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BUTA SINGH  
SUB INSPECTOR  
25 BN CHHAWLA CAMP, PO-CHHAWLA, NEW DELHI  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI GANESH TUDU  
SUB INSPECTOR  
82 BN PO-KARAHALLI  
DISTRICT BANGALORE, KARNATAKA  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KRISHAN BIHARI DUBEY  
ASSISTANT SUB INSPECTOR (PHARMACIST)  
CSWT BSF, INDORE, MADHYA PRADESH  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAGHUNATH SINGH  
CONSTABLE (WASHER MAN)  
04 BN BSF NISHAT, C/O 56 APO  
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PADMA KUMAR LS  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
ACB, CHENNAI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI NAGENDRA PRASAD  
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE  
ACB, KOLKATA  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI C.S MONI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
ACB, COCHIN  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI MAHESH KUMAR PURI  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
ACB, SHIMLA  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ROHIT SRIVASTAVA  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
OFFICE OF JOINT DIRECTOR (HOZ)  
LUCKNOW ZONE, LUCKNOW  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI MAHESH KUMAR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
CBI HQ, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI GOOL MOHAMMED ANSARI  
INSPECTOR OF POLICE  
AC-III DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI T V JOY  
INSPECTOR OF POLICE  
ACB, BANGALORE  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI BHARAT SINGH  
INSPECTOR OF POLICE  
ACU-VI, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SANJAY KUMAR  
SUB INSPECTOR OF POLICE  
CBI HQ, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI CYPRIN SAMAD  
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE  
SU, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI NAWAL KISHORE GUPTA  
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE  
ACB, JAIPUR  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI JEEVAN CHAND JOSHI  
HEAD CONSTABLE  
ACB, GHAZIABAD  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI NIRMALJEET SINGH  
HEAD CONSTABLE  
SU, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI RAGHUVINDER SINGH  
HEAD CONSTABLE  
SC-III, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI MUNSHI LAL  
HEAD CONSTABLE  
SU, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI LAXMI CHAND  
CONSTABLE  
SU, NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI I.B SREENIVASAN  
CONSTABLE  
ACB, COCHIN  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SANJAY KUMAR BHATT  
CONSTABLE  
AC-II NEW DELHI  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI AJAY KUMAR  
SENIOR COMMANDANT  
BSP, BHILAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SHUVALOKE SARKAR  
SENIOR COMMANDANT  
BCCL-CCWO, DHANBAD  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI PRAKASH KUMAR  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL  
WS HQ, NAVI MUMBAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SURYAKANT KHANDERAO ADGULE  
COMMANDANT  
GP HQRS, MUMBAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BHIM SAIN VASHISHT  
COMMANDANT (LOCAL RANK)  
IOC GR, BARODA  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI K KORAPPAN  
DEPUTY COMMANDANT (LOCAL RANK)  
BPCL (KR)  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI PODIMATTAM KURIAN JOY  
DEPUTY COMMANDANT (LOCAL RANK)  
CISF UNIT SSP SALEM, TAMIL NADU  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI GAUTAM NANDI PURKAYASTHA  
DEPUTY COMMANDANT (LOCAL RANK)  
OIL DULIAJAN  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI VINAY KUMAR SHARMA  
ASSISTANT COMMANDANT (LOCAL RANK)  
CISF UNIT AIRPORT BHUNTAR  
DISTRICT KULLU, HIMACHAL PRADESH  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI E THANIGACHALAM  
INSPECTOR /EXECUTIVE  
CISF UNIT SDSC SHAR  
SRIHARIKOTA, NELLORE, ANDHRA PRADESH  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI R BALASHANMUGAM  
INSPECTOR /EXECUTIVE  
CISF UNIT NLC NEYVELI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI HARI KESH MEENA  
INSPECTOR /EXECUTIVE  
CISF UNIT RCFL MUMBAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI MANISH SHAMRA  
INSPECTOR /EXECUTIVE  
NISA, HYDERABAD  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI MUKUL KUMAR SINHA  
INSPECTOR/EXECUTIVE  
CISF UNIT BSL BOKARO  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SANJAY MEHTA  
ASSISTANT COMMANDANT (LOCAL RANK)  
5TH RB, GHAZIABAD  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI O. RAJENDRAN NAIR  
INSPECTOR /MIN  
NORTH SECTOR, HQRS DELHI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BIPLAB KUMAR SAHA  
INSPECTOR/STENO  
CISF ES HQRS PATNA  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI NALAWADE J.B.  
SUB INSPECTOR /EXECUTIVE  
CISF UNIT, ONGC MUMBAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RAJENDRA SINGH  
SUB INSPECTOR/EXECUTIVE  
CISF UNIT ONGC NAZIRA  
DISTRICT SIVSAGAR, ASSAM  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI GANESH CHANDRA MOHANTY  
SUB INSPECTOR/EXECUTIVE  
CISF ASG IGIA, NEW DELHI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE



SHRI DIPAK CHANDRA DEKA  
HEAD CONSTABLE/GD  
CISF UNIT ONGC NAZIRA  
DISTRICT SIVSAGAR, ASSAM  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI LAL SINGH BISHT  
HEAD CONSTABLE  
CISF UNIT ISTARAC  
LUCKNOW SECTOR -C  
JANKIPURAM, UTTAR PRADESH  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI S. CHINNAYAN  
HEAD CONSTABLE /GD  
UNIT NLC NEYVELI, G-14 J N SALAI  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI JAGAT RAM  
HEAD CONSTABLE/GD  
DAE KALPAKKAM  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI APPOJI ARUNACHALAM  
HEAD CONSTABLE/GD  
CISF UNIT, RARE MATERIALS PROJECT  
MYSORE, KARNATAKA  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BIRMA RAM BISHNOI  
HEAD CONSTABLE  
CISF RTC DEOLI, DISTRICT TONK, RAJASTHAN  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RAM SUNDER MISHRA  
HEAD CONSTABLE/GD  
CISF UNIT BCCL-CCWO, DHANBAD  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SALILA BIHARI DAS MAHAPATRA  
ASSISTANT SUB INSPECTOR /EXECUTIVE  
CISF UNIT BCCL CCWO, DHANBAD  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI UJJAL KUMAR DUTTA  
CONSTABLE/COOK  
CISF UNIT ONGC NAZIRA  
DISTRICT SIVSAGAR, ASSAM  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RAMESH CHAND TAYAL  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
MANIPUR & NAGALAND SECTOR, IMPHAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAM NIWAS YADAV  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
GROUP CENTRE, AMETHI (GC LUCKNOW CAMP)  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAM CHARITRA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
GROUP CENTRE-1, AJMER, RAJASTHAN  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ASHOK KUMAR KANAUIA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
GROUP CENTRE, OLD AIRPORT PANDILA,  
PO ISMAILGANJ, ALLAHABAD, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI GOPAL LAL MEENA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
CENTRAL SECTOR HQR, LUCKNOW, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JENAMANI PRADIP KUMAR RAY  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
AGARTALA RANGE, AGARTALA (TRIPURA)  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. VIJAY BAHADUR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (MEDICAL)  
COMPOSITE HOSPITAL  
RAMPUR, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. DHANANJAI PINGUA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (MEDICAL)  
COMPOSITE HOSPITAL, AHMEDABAD, GUJARAT  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI A MANI  
COMMANDANT  
GROUP CENTRE, AVADI, CHENNAI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAJ KUMAR DAGAR  
COMMANDANT  
160 BN, JAMMU, JAMMU AND KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KRISHAN GOPAL SHARMA  
COMMANDANT  
213 (M) BN. GC-II CAMPUS, AJMER, RAJASTHAN  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ARVINDER SINGH  
COMMANDANT  
129 BN APO-BARAMULLA, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI S. M VINOD VIJAY  
COMMANDANT  
154 BN BUDGAM, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI HARSHARANJIT SINGH  
COMMANDANT  
GROUP CENTRE, GWALIOR, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BUDDHADEB DAS  
COMMANDANT  
GROUP CENTRE, RAMPUR, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. CHANDRASEKHAR SHIVARUDRAPPAL  
CHIEF MEDICAL OFFICER (SELECTION GRADE)  
COMPOSITE HOSPITAL,  
YELAHANKA, BANGALORE, KARNATAKA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JASPAL SINGH MINHAS  
SECOND-IN-COMMAND  
OFFICE OF THE DIG, RANGE OFFICE  
JALLANDHAR, PUNJAB  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BHANI SAHAY  
SECOND IN COMMAND  
O/O DIGP, RANGE NEEMUCH  
NEEMUCH, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURESH KUMAR  
SECOND IN COMMAND  
70 BN, BAWANA CAMP, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURENDRA PAL SINGH CHAUHAN  
SECOND IN COMMAND  
174 BN, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DEVI LAL MEENA  
SECOND IN COMMAND  
148 BN, SAHUPURI CHANDAULI, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BALBIR SINGH  
DEPUTY COMMANDANT  
45 BN, SUMBAL, J&K, C/O 56 APO  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NIMA LAMA  
DEPUTY COMMANDANT  
GROUP CENTER, DURGAPUR  
AMRAWATI, WEST BENGAL  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NARAYAN CHANDRA SAHA  
DEPUTY COMMANDANT  
107 BN RAF, PO-BANGRASIA  
BHOPAL DISTRICT, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ASHOK KUMAR DAGAR  
DEPUTY COMMANDANT  
112 BN, APO-AWANTIPURA  
DISTRICT PULWAMA, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KAILASH CHAND  
DEPUTY COMMANDANT  
GROUP CENTRE, NEEMUCH, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NIRMAL SINGH  
ASSISTANT COMMANDANT  
5 SIGNAL BN, HALLOMAJRA CHANDIGARH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KRISHAN SINGH YADAV  
ASSISTANT COMMANDANT  
157 BN, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI GURMIT SINGH  
ASSISTANT COMMANDANT  
67 BN, SHILLONG, MEGHALAYA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAMJI LAL  
ASSISTANT COMMANDANT  
144 BN, SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI R ILLANGOVAN  
ASSISTANT COMMANDANT  
GROUP CENTRE, BANGRASIA  
BHOPAL, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI P. RAGHAVAN  
SECTION OFFICER  
FINANCE BRANCH FHQ, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI GAURI SHANKER SHUKLA  
ADMINISTRATIVE OFFICER  
GROUP CENTRE, JHARODHA KALAN, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI B. MADHU SUDHANAN NAIR  
ADMINISTRATIVE OFFICER  
CENTRAL SECTOR HQ, GOMTINAGAR  
LUCKNOW, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI T VELAYUDHAN  
SENIOR PRIVATE SECRETARY  
FHQ, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ARVIND KUMAR NIGAM  
SENIOR PRIVATE SECRETARY  
PROVISIONING BRANCH, FHQ, NEW DELHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SAMARENDRA NATH MUKHOPADHAYAY  
SUBDAR MAJOR (OFFICE SUPERINTENDENT)  
GROUP CENTRE, TELEGAON, PUNE, MAHARASHTRA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DHARAM SINGH  
INSPECTOR  
GROUP CENTRE, KESHOGIRI (PO)  
HYDERABAD, ANDHRA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MUKHTIYAR SINGH  
INSPECTOR  
133 BN, SECTOR-2, DHURWA, RANCHI  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAM SINGH  
INSPECTOR  
182 BN, PULWAMA, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BALBIR CHAND  
INSPECTOR  
138 BN, SINKIVIEW, ITANAGAR  
PAPUMPARE DISTRICT, ARUNACHAL PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MITHLESH KUMAR SINGH  
INSPECTOR  
174 BN, SANAT NAGAR  
SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DESH RAJ SINGH  
INSPECTOR  
GROUP CENTER  
GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NITYA NAND SINGH  
INSPECTOR (RADIO OPERATOR)  
CTC (T&IT), PO-DHURWA  
RANCHI, JHARKHAND  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SMT. K. MALATHY  
INSPECTOR (MIN)  
GROUP CENTRE, PALLIPURAM, KERALA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAJENDRA PRASAD  
SUB INSPECTOR  
180 BN, PULWAMA DISTRICT, JAMMU AND KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PACKIRI CHIDAMBARAM  
SUB INSPECTOR  
182 BN, PULWAMA DISTRICT, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI H.D. BASAVAI AH  
SUB INSPECTOR  
GROUP CENTRE, YELAHANKA, BANGALORE  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DALJIT SINGH  
SUB INSPECTOR  
177 BN, SOPORE  
DISTRICT BARAMULLA, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHRI RAM PRASAD  
SUB INSPECTOR  
O/O IGP BIHAR SECTOR  
PO-ASHIANA NAGAR, PATNA, BIHAR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI LALOO PRASAD SINGH  
SUB INSPECTOR  
OFFICE OF SPECIAL DG, CENTRAL ZONE, KOLKATA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURENDER SINGH  
SUB INSPECTOR  
GROUP CENTRE, BANGRASIA  
BHOPAL, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MOHD HUSSAIN LONE  
SUB INSPECTOR  
OFFICE OF SPECIAL DG, CENTRAL ZONE, KOLKATA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BANSIDHAR SAHU  
SUB INSPECTOR  
OFFICE OF DIGP, BHUBANESWAR RANGE  
BHUBANESWAR, ORISSA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BISHAN DAS  
SUB INSPECTOR  
22 BN, HAZARIBAGH, JHARKHAND  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KULDEEP SINGH  
SUB INSPECTOR (MOTOR TRANSPORT)  
CIAT SCHOOL, SHIVPURI, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE



SMT. RANJITA TUDU SONA  
SISTER IN CHARGE  
COMPOSITE HOSPITAL, BHUBANESHWAR, ORISSA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MOHD ABDUL MAJEED  
PHARMACIST  
COMPOSITE HOSPITAL, BHARNI  
BILASPUR, CHHATTISGARH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI KUPPUSAMY NATESAN  
LAB TECHNICIAN  
COMPOSITE HOSPITAL, TALEGAON, PO-VISHNUPURI  
PUNE, MAHARASHTRA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SAMIR KUMAR BALLAV  
HEAD CONSTABLE  
177 BN, SOPORE  
DISTRICT BARAMULLAH, JAMMU & KASHMIR  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PREM NARAIN SINGH  
HEAD CONSTABLE (FITTER)  
GROUP CENTER, BHUBANESHWAR, ORISSA  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI YUMNAM BIREN SINGH  
HEAD CONSTABLE(CARPENTER)  
49 BN SRINAGAR, JAMMU & KASHMIR C/O 56 APO  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI AMAR LAL SAINI  
CONSTABLE (DAFTRY)  
GROUP CENTER, NEEMUCH, MADHYA PRADESH  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NITAI DAS  
COOK  
GROUP CENTER, SINDRI, DHANBAD, JHARKHAND  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI B.A.J. NEHRU  
JOINT DEPUTY DIRECTOR  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI K.L. KOUL  
JOINT DEPUTY DIRECTOR  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI R.S. GULERIA  
ASSISTANT DIRECTOR  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI NAWANG TSERING  
ASSISTANT DIRECTOR  
HQRS NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A.D. VENKITACHALAM  
ASSISTANT DIRECTOR/TECHNICAL  
CHENNAI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A.K. MITTAL  
ASSISTANT DIRECTOR  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S.K. DORESWAMY  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
BANGALORE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S.K. MOHAPATRA  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
BHUBANESWAR  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI K P ALBEN KUMAR  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
MUMBAI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI PREM SINGH SAMANT  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI N.K. SIL  
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER  
KOLKATTA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SUSHIL KUMAR  
SECTION OFFICER  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI S.K. VERMA  
SECTION OFFICER  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI T.R. MANDLA  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
JAMMU  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI A.S. PALANI  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
CHENNAI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI KESANG TSHERING  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
GANGTOK  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI TSEWANG RIGZIN  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-II/G  
ITBF, LEH  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI M.REX PAULRAJ  
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-II/G  
BANGALORE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI R.S. PAWASKAR  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
MUMBAI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI T N SANKARANKUTTY  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
TRIVANDRUM  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI N.K. DAS  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
NEW DELHI  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI P.W. SHERPA  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/G  
GANGTOK  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI P.K. RADHAKRISHNA PILLAI  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-I/WT  
TRIVANDRUM  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SANJAY YADAV  
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER, GRADE-II/G  
BHOPAL  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI GURLAL SINGH VIRK  
JUDGE ATTORNEY GENERAL/ DEPUTY INSPECTOR  
GENERAL  
FHQ, NEW DELHI  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SWAM KARTIK SHARMA  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
HQRS SPECIAL FRONTIER, R.K. PURAM, NEW DELHI  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI ASHOK KUMAR NEGI  
COMMANDANT  
43RD BN, PATIALA, PUNJAB  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI RABINDRA PANDEY  
COMMANDANT (ENGINEER)  
SHQR, BHUBANESHWAR, ORISSA  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PHURBA SHERPA  
DEPUTY COMMANDANT(GD)  
13TH BN, LINGDUM, SIKKIM  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI LAL BAHADUR SINGH RATHORE  
ASSISTANT COMMANDANT(OFFICE)  
TRAINING ZONE, MUSSOORIE, UTTARAKHAND  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SMT. DAMYANTI NEGI  
ASSISTANT COMMANDANT(EDUCATION)  
FHQ, NEW DELHI  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI KRISHAN KUMAR SHARMA  
INSPECTOR (EDUCATION)  
FHQ, NEW DELHI  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI RAGHUNATH SINGH  
INSPECTOR  
41<sup>ST</sup> BN, BHUBANESHWAR, ORISSA  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI KANSHI SINGH  
INSPECTOR  
17TH BN, RECKONG PEO , HIMACHAL PRADESH  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI BHOLA NATH  
INSPECTOR  
21ST BN, PANTHACHOWK  
SRINAGAR , JAMMU & KASHMIR  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI GAJENDRA SINGH RAWAT  
INSPECTOR (CM)  
29TH BN, JABALPUR, MADHYA PRADESH  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI SURENDRA SINGH GUSAIN  
INSPECTOR (CM)  
SHQR BAREILLY, UTTAR PRADESH  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI VIJAY KUMAR  
HEAD CONSTABLE (MEDICAL)  
SHQR, LUCKNOW  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PRAKASH CHAND  
CONSTABLE/PNR  
8TH BN, GAUCHAR,  
DISTRICT CHAMOLI, UTTARAKHAND  
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI GURSHAKTI SINGH SODHI  
GROUP COMMANDER  
FHQ, MANESAR, GURGAON, HARYANA  
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI RAJENDER SINGH KHARDWAL  
SQUADRON COMMANDER  
FHQ, MANESAR, GURGAON, HARYANA  
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI ANIL KUMAR BANSAL  
ASSISTANT COMMANDER-I/PA  
HQ, NEW DELHI  
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI RAJ KUMAR  
ASSISTANT COMMANDER-II/MIN  
HQ, NEW DELHI  
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI DEEPAK KUMAR  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
FTR, HQRS, RUKUNPURA HOUSE  
PATNA, BIHAR  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI LILA KANTA GOHAIN  
DEPUTY INSPECTOR GENERAL  
SECTOR HQRS, RANIDANGA  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAJ SINGH SHEKHAWAT  
COMMANDANT  
13TH BN, PIPRAKOTHI, BIHAR  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI ASHIT KUMAR DAS  
AREA ORGANISER  
FHQ, R.K. PURAM, NEW DELHI  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI KAILASH CHANDRA PANDE  
DEPUTY COMMANDANT  
37TH BN, MANGALGOI  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAMESH CHANDRA PANDEY  
ASSISTANT COMMANDANT  
14TH BN, JAYANAGAR  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI CHIRANJIV KUMAR BASUMATARY  
PRIVATE SECRETARY  
FHQ, R.K. PURAM, NEW DELHI  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI JITENDRA KUMAR SINGH  
DEPUTY FIELD OFFICER (TELECOMMUNICATION)  
FHQ, R.K. PURAM, NEW DELHI  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAM PRAKASH SHARMA  
SUB-INSPECTOR (GD)  
39TH BN, PALIA KALAN, DISTRICT KHERI, UTTAR PRADESH  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI LOBSANG NORBU  
SUB-INSPECTOR (GD)  
38TH BN, TAWANG, ARUNACHAL PRADESH  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAKESH KUMAR  
HEAD CONSTABLE (GD)  
38 BN, TAWANG, ARUNACHAL PRADESH  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI AMAR SINGH  
HEAD CONSTABLE (GD)  
16<sup>TH</sup> BN, ADABARI, ASSAM  
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI SOORYA KANT SHARMA  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL  
HQRS, NEW DELHI  
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI PRADEEP KUMAR PALIWAL  
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL  
HQRS, NEW DELHI  
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI HARADHAN ADHIKARY  
SECURITY OFFICER-I  
HQRS, NEW DELHI  
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI N V RAMDAS  
SECURITY OFFICER-II(T)  
HQRS, NEW DELHI  
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI GURPREET SINGH  
SECTION OFFICER (TRG)  
CDTS, GHAZIABAD  
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI SURESH KUMAR PAL  
ASSISTANT  
HQ, NEW DELHI  
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI DESH RAJ TOMAR  
CONSTABLE  
HQRS, NEW DELHI  
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT



SHRI SUKHBIR SINGH  
CONSTABLE  
HQRS, NEW DELHI  
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI S DAVIDSON DEVASIRVATHAM  
ZONAL DIRECTOR  
RAJAJI BHAWAN, BASANT NAGAR, CHENNAI  
NARCOTICS CONTROL BUREAU

SHRI P UDAYAKUMAR  
INSPECTOR (FP)  
EAST BLOCK-7 R.K. PURAM, NEW DELHI  
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

DR. AVINASH CHANDRA RAJVANSHI  
ADDITIONAL DIRECTOR  
SECTOR-3, ROHINI, DELHI  
N.I.C.F.S

SHRI L. KRISHNA MURTHY  
SUB-INSPECTOR(BAND)  
HYDERABD, ANDHRA PRADESH  
SVP N.P.A

SHRI D. JAYA CHANDRA NAIDU  
HEAD CONSTABLE(ADI)  
HYDERABAD, ANDHRA PRADESH  
SVP N.P.A

SHRI P. BALRAJ  
HEAD CONSTABLE/GD  
HYDERABAD, ANDHRA PRADESH  
SVP N.P.A

SHRI RAVI GAMBHIR  
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE  
HQ NEW DELHI  
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

SHRI BABU C PAPPACHEN  
HEAD CONSTABLE  
HQ, NEW DELHI  
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

SHRI JAIPAL YADAV  
COMMANDANT  
8TH BN, SURAJPUR  
GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH  
NDRF

SHRI SUKHDEV RAJ  
COMMANDANT  
2ND BN, PO- ABDALPUR  
DISTRICT 24 PGS (NORTH), KOLKATA  
NDRF

SHRI BIJOY KUMAR MALLICK  
ASSISTANT COMMANDANT  
5TH BN, TALEGAON  
PO- VISHNUPURI, PUNE, MAHARASHTRA  
NDRF

SHRI MOHAN S.  
SUB-INSPECTOR/STENO  
4TH BN, ARAKKONAM, TAMIL NADU  
NDRF

SHRI GULER CHAND  
SUB-INSPECTOR/GD  
7TH BN, BATHINDA, PUNJAB  
NDRF

SHRI BRAHM PRAKASH DUTTA  
DEPUTY DIRECTOR/P&TS  
RAILWAY PROTECTION FORCE  
RAILWAY BOARD, NEW DELHI  
M/O RAILWAYS

SHRI ASHOK KUMAR SAHOO  
ASSISTANT SECURITY COMMISSIONER-CUM-  
STAFF OFFICER  
EAST COAST RAILWAY  
SAMANT VIHAR, BHUBANESWAR  
M/O RAILWAYS

SHRI M. CHENCHALAH  
INSPECTOR  
RAILWAY PROTECTION FORCE, RAYANAPADU  
M/O RAILWAYS

SHRI SHER SINGH BEHNIWAL  
SUB-INSPECTOR  
RPF/CIB/HQ, BARODA HOUSE, NEW DELHI  
M/O RAILWAYS

SHRI RAMKARAN  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR  
RPF, SR. DSC/ RESERVE COY/DELHI-EAST DIVISION  
M/O RAILWAYS

SHRI B. ADHIMOOLAM  
HEAD CONSTABLE  
RAILWAY PROTECTION FORCE, TRAINING CENTRE  
KIMBER GARDEN, TRICHY  
M/O RAILWAYS

SHRI SANJAY KUMAR SINGH  
INSPECTOR  
RPF, GWALIOR, MADHYA PRADESH  
M/O RAILWAYS

SHRI ANIL KUMAR MISHRA  
SUB-INSPECTOR  
RPF, RAILWAY STATION BABINA  
M/O RAILWAYS

SHRI RAKESH KUMAR TIWARI  
HEAD CONSTABLE  
RPF, SR. DSC/OFFICE/JHS  
M/O RAILWAYS

SHRI INDRA RAJ YADAV  
HEAD CONSTABLE  
RAILWAY PROTECTION FORCE  
OFFICE OF THE SR. SC/RPF, ALLAHABAD  
M/O RAILWAYS

SHRI ABHINANDAN SINGH SENGAR  
CONSTABLE  
T.E. COY, AGRA  
M/O RAILWAYS

SHRI ARUN KUMAR PANDEY  
SUB-INSPECTOR  
RPF, MATUNGA WORKSHOP, MUMBAI  
M/O RAILWAYS

SHRI BIJENDER SINGH SHEKHAWAT  
INSPECTOR  
RPF, RAIL BHAWAN, NEW DELHI  
M/O RAILWAYS

SHRI P. NAGARAJAN  
INSPECTOR(M)  
12 BN, RPSF/ THAKURLI/ CENTRAL RAILWAY/ MUMBAI  
M/O RAILWAYS

SHRI DULAL CHANDRA ROY  
ASSISTANT SUB-INSPECTOR (EXECUTIVE)  
4<sup>TH</sup> BN, RPSF, PO- BHAKTINAGAR  
DISTRICT JALPAIGURI, WEST BENGAL  
M/O RAILWAYS

SHRI KAMAL SINGH  
INSPECTOR  
RPF, S.E. RAILWAY KHARAGPUR  
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

New Delhi  
18.10.2011

### RESOLUTION

No. E. 11015/8/2008-Hindi: In partial modification of this Ministry's resolution of even number dated 04.06.2010, Shri Suresh Tiwari, Sahitya Evam Sanskriti Mantri, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad is nominated as non-official member of the Hindi Advisory Committee of this Ministry in place of Shri Mohan Prakash Dubey, Rashtriya Sanyojak, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad. The tenure of Shri Suresh Tiwari would be till the tenure of the present Committee.

### Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AMARENDRA SINHA  
Jt. Secy.